सूर्योदय 6:00 सूर्यास्त 6:40

आज का तापमान

शिमला	15.2 न्यू	22.0 अधि
धर्मशाला	19.8 न्यू	28.1 अधि

बाजार

सेंसेक्स	82555.44
निफ्टी	25279.85

सोना 72,760 चांदी 86,815

अनंत ज्ञान

www.anantgyaan.in

मॉडर्न लुक के लिए क्रिएट करें चित्रांगदा के ये लुक्स

पृष्ठ 4 पर

आरएनआई नं. HPHIN01099 | कांगड़ा | बुधवार, 4 सितंबर 2024 | 20 भाद्रपद, विक्रमी संवत 2081 | वर्ष 1, अंक 258, कुल पृष्ठ 14 | मूल्य : 5 रुपए | follow us on: | 8894521702

न्यूज शॉर्ट्स

अरविंद केजरीवाल की हिरासत 11 तक बढ़ाई

नई दिल्ली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर, सरथ रेड्डी को समन जारी किया है। जवाब दाखिल करने के लिए 11 सितंबर तक का समय दिया है।

जेएंडके में आज राहुल गांधी करेंगे प्रचार अभियान शुरू

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार को रामबन और अनंतनाग जिलों में दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार अभियान शुरू करेंगे। चुनाव के 18 सितंबर को होने वाले पहले चरण में कांग्रेस की ओर से किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों के प्रचार अभियान के तहत रैलियों का आयोजन किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं।

मधु कोड़ा की याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। मधु कोड़ा ने कोयला घोटाला मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, ताकि वह आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकें।

'आप' के साथ गठबंधन को कांग्रेस ने बनाई कमेटी

नई दिल्ली। हरियाणा में 'आप' के साथ गठबंधन की संभावनाओं को देखते हुए कांग्रेस ने कमेटी बनाई है। यह कमेटी राज्य में गठबंधन से संबंधित तमाम पहलुओं को देखेगी और पार्टी हाईमान को रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर संभावित रूप से तय होगा कि 'आप' को राज्य विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें दी जा सकती हैं। 'आप' ने राज्य में 20 सीटों की मांग रखी है। दीपक बाबरिया, दीपेंद्र हुड्डा और अजय माकन समिति का हिस्सा होंगे और वे सीट शेयरिंग के पर आप नेताओं के साथ बातचीत करेंगे।

कर्नाटक में डेंगू को किया महामारी घोषित

बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को राज्य में डेंगू बुखार को महामारी के रूप में अधिसूचित किया है। इसके अलावा, कर्नाटक महामारी रोग विनियम 2020 में संशोधन के लिए नियम बनाए हैं। डेंगू से निपटने के लिए कार्य योजना का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि इस साल अब तक 7,362 डेंगू के मामले दर्ज किए गए हैं।

अंदर के पन्नों पर पढ़ें

- जयराम बने हिमाचल भाजपा के प्रथम सदस्य -पेज 2
- विधानसभा में स्पीकर-विपक्ष में गतिरोध टूटा -पेज 3
- एनएच पर ट्रैफिक सर्वे के लिए तकनीकी यंत्र लगे -पेज 12
- आंध्र प्रदेश: भारी बारिश से हालात खराब नौसेना ने बचाई 22 लोगों की जान -पेज 13
- स्वियातेक यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में -पेज 14

सरकार आर्थिक संकट पर चर्चा को तैयार : सुक्खू

रविंद्र जस्टा, शिमला

आर्थिक संकट को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दोनों ने मंगलवार को विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अर्थव्यवस्था के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में कोई आर्थिक संकट नहीं है। हम आर्थिक संकट को पार कर चुके हैं। अब राजकोषीय अनुशासन लाकर हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निर्णय लेना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन में चर्चा करे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। किसी भी नियम के तहत चर्चा करें। हम जनता को बताना चाहते हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन क्यों हुआ और कैसे डबल इंजन की पूर्व भाजपा सरकार ने जनता के खजाने को लुटा दिया। बिजली-पानी माफ कर दिया। 600 के करीब संस्थान खोल दिए। वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसी स्थिति पहली बार बनी है, जब कर्मचारियों को 3 तारीख बीतने के बाद भी वेतन नहीं मिला। (अनंत ज्ञान)

कहा-पूर्व भाजपा सरकार ने जनता के खजाने को लुटाया



अयोग्य घोषित पूर्व विधायकों की पेंशन रोकने वाला संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत करते सीएम सुक्खू।

विधानसभा में गूंजा कर्मचारियों को वेतन न मिलने का मामला

अनंत ज्ञान ब्यूरो, शिमला

विधानसभा के मानसूत्र सत्र के छठे दिन कर्मचारियों को वेतन न मिलने का मामला भी गूंजा। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने विपक्ष से सरकार के जवाब सुनने की अपील की।

वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने खड़े होकर कहा कि सदन में स्थिति असामान्य है, इसके लिए विपक्ष को दोषी ठहराया जाना सही नहीं है। प्रदेश में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सरकार कर्मचारियों की सैलरी तक समय पर नहीं दे पा रही है। अगर विपक्ष इस पर नियम 67 के तहत चर्चा की मांग करता है, तो इसमें क्या गलत है। उन्होंने स्पीकर की ओर से उन्हें जूनियर कहे जाने पर भी नाराजगी जताई। इस बीच, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष से कहा कि इतना मत रूठो कि रोज ही नाराज हों, जिसके जवाब में विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि जो गतिरोध हुआ है उस पर जयराम ठाकुर ने विस्तृत बात कही है। अगर सीएम और डिप्टी सीएम का बयान आ जाता तो सब सुलझ जाता।

जयराम बोले- सदन में स्थिति असामान्य, विपक्ष को दोषी ठहराना सही नहीं

पूर्व अयोग्य विधायकों की पेंशन हो सकती है बंद

मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किया संशोधन विधेयक, आज चर्चा के बाद हो सकता है पास

अनंत ज्ञान ब्यूरो, शिमला

हिमाचल के पूर्व अयोग्य विधायकों की पेंशन बंद हो सकती है। मंगलवार को मुख्यमंत्री सुक्खू ने अयोग्य घोषित पूर्व विधायकों की पेंशन रोकने वाला संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है। बुधवार को चर्चा के बाद यह बिल पास हो सकता है।

बता दें कि एक दिन के लिए भी यदि कोई विधायक बन जाता है तो पेंशन का हकदार हो जाता है, लेकिन प्रदेश में पूर्व विधायकों के लिए पेंशन को लेकर संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश किया जा रहा है। यदि बिल विधानसभा में पेश होकर पारित होता है तो पहली बार विधायक बने चैतन्य शर्मा व देवेंद्र कुमार भुट्टो को नुकसान होगा। एक बार विधायक बनने के बाद 90 हजार रुपए से ज्यादा मासिक पेंशन तय हो जाती है। साल 2022 से शुरू हुए नए कार्यकाल की पेंशन 93 हजार रुपए के करीब बनती है। इसमें से 36 हजार बेसिक व 59 फीसदी महंगाई भत्ता जुड़ता है। पेंशन कुल मिलाकर 93 हजार रुपए के करीब बनती है। ऐसे में संशोधन के बाद चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो की पेंशन बंद हो जाएगी, जबकि 4 अन्य पूर्व विधायक धर्मशाला से सुधीर शर्मा, सुजानपुर से राजेंद्र राणा, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, लाहौल-स्पीति से रवि ठाकुर की इस टर्म की पेंशन रुक जाएगी। 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इससे कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा चुनाव हार गए और भाजपा के हर्ष महाजन चुनाव जीते थे। क्रॉस वोट के बाद इन पर पार्टी व्हिप के उल्लंघन के आरोप लगे। इसके बाद स्पीकर कुलदीप पठानिया ने इन्हें अयोग्य घोषित किया था।

हिमाचल में बढ़ सकते हैं डीजल के दाम

शिमला। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आय में वृद्धि के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। गरीब लोगों के अलावा अन्य से बिजली और पानी के बिल लिए जाएंगे। बसों के किराए में रिफॉर्म किए जा रहे हैं। ठेकों की नीलामी से इस वर्ष डेढ़ सौ करोड़ से अधिक अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार डीजल में और वृद्धि करने जा रही है। वहीं, सदन में विपक्ष की भूमिका को लेकर सीएम ने कहा कि सदन में सत्ता पक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। विपक्ष का काम सवाल करना और सरकार का जवाब देना होता है। सदन में विपक्ष की सनसनीखेज बातों से मुद्दा भटक जाता है और विपक्ष वॉकआउट करके बाहर चला जाता है। स्पीकर ने आज प्रश्नकाल से पहले उन्हें बोलने का मौका दिया है।

सातों दिन मिलेगी डायलिसिस की सुविधा : विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान चंबा से विधायक नीरज नैयर ने चंबा में डायलिसिस का मामला उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा के आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में स्थापित डायलिसिस मशीन सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे चलाने को लेकर सरकार संबंधित कंपनी से बात करेगी। सप्ताह में सातों दिन डायलिसिस की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी।

ब्रुनेई दारुस्सलाम में भारतीय समुदाय ने किया मोदी का जोरदार स्वागत

एजेंसी, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दो दिवसीय दौरे पर ब्रुनेई दारुस्सलाम पहुंचे, जहां क्राउन प्रिंस हिज रॉयल हाईनेस प्रिंस हाजी अल-मुहतादी बिल्लाह ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मोदी राजधानी बंदर सेरी बेगवान के एक होटल में पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी एक बच्ची की बनाई पेंटिंग को देखकर काफी खुश नजर आए। उन्होंने पेंटिंग पर बच्ची को ऑटोग्राफ भी दिया।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास

पीड़िता कोमा में गई या मौत हुई तो दोषी को 10 दिन में होगी फांसी, राज्यपाल के पास भेजा बिल

एजेंसी, कोलकाता

पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल पास हो गया। नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी।

इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। भाजपा ने भी बिल का समर्थन किया है। इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) नाम दिया गया है। अब इसे

21 दिन में पूरी होगी जांच भाजपा ने किया बिल का समर्थन

राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों जगह पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप-मर्डर हुआ था। इसके बाद देशभर में डॉक्टरों और राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि वह राज्य में रेप जैसे अपराध के लिए सख्त कानून बनाएंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इसके लिए दो बार चिट्ठी लिखी थी। वहीं, जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन 25वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने मंगलवार को पुलिस हेडक्वॉर्टर के बाहर धरना दिया। वहीं, शाम को प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने कोलकाता पुलिस मुख्यालय के बाहर जारी धरने को खत्म कर दिया।

अपराजिता के प्रावधान

1. रेप पीड़िता की मौत होती है या फिर वह कोमा में जाती है तो दोषी को फांसी दी जाएगी।
2. रेप-गैंगरेप के दोषियों को पैरोल के बिना उम्रकैद की सजा।
3. रेप केस की जांच 21 दिनों में पूरी करनी होगी। इसे 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
4. हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इसका नेतृत्व डीएसपी लेवल के अधिकारी करेंगे।

पूर्व प्रिंसिपल घोष को आठ दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें आठ दिन की हिरासत में भेजा है। सीबीआई ने अदालत से 10 दिन की हिरासत की मांग की। 3 अन्य आरोपियों को भी सीबीआई हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट में कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में बड़े नेक्सस का पर्दाफाश जरूरी है। इस मामले में 10 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।

हरियाणा में ट्रक ने खड़े वाहन को मारी टक्कर आठ श्रद्धालुओं की मौत

जींद। हरियाणा के जींद जिले में श्रद्धालुओं के एक वाहन को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना हिसार-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिधराना गांव में सोमवार देर रात उस समय हुई, जब श्रद्धालु कुरुक्षेत्र जिले से राजस्थान के गोगामेड़ी धाम जा रहे थे।

राजस्थान की पंजीकरण संख्या वाले ट्रक में लकड़ी के लट्ठे भरे हुए थे। ट्रक ने खड़े वाहन को टक्कर मार दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायलों को जींद के नरवाना स्थित अस्पताल से हिसार के अग्रोहा रेफर कर दिया गया। घायलों की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर ट्रक को जब्त कर लिया गया है।

छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में नौ नक्सलियों को मार गिराया

एजेंसी, दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में मंगलवार को सुरक्षाकर्मियों ने मुठभेड़ में नौ नक्सलियों को मार गिराया। जवानों ने मारे गए नक्सलियों के शव और एसएलआर राइफल, 303 और 315 बोर राइफल, विस्फोटक बरामद किए हैं। मुठभेड़ किरंदुल थाना क्षेत्र में बैलाडीला के जंगल में हुई।

बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) सुंदरराज पी ने बताया कि करीब 13 घंटे तक मुठभेड़ चली है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। दंतेवाड़ा जिले के एसपी गौरव राय ने बताया कि बैलाडीला की पहाड़ियों के नीचे पुरंगेल, लोहा गांव की तरफ पश्चिम बस्तर डिवीजन के माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी।

बीजापुर में 13 नक्सली गिरफ्तार

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में दो स्थानों से 13 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। गंगालूर से सात और तर्रेम पुलिस थाना क्षेत्र से छह को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से डेटोनेटर, बिजली के तार, लोहे की कीलें, धनुष, तीर और बैटरियां बरामद की गई हैं।

हरियाणा में छात्र को गो तस्कर समझकर मार डाला, पांच गिरफ्तार

फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में पांच गोरक्षकों के एक समूह ने 12वीं कक्षा के छात्र को गो तस्कर समझकर कार से उसका पीछा कर उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पांचों आरोपियों को जिला अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि 23 अगस्त की रात को सूचना मिली कि कार में कुछ संदिग्ध गो तस्कर जा रहे हैं। आरोपियों ने दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गदपुरी टोल के पास लगभग 30 किलोमीटर तक उनकी कार का पीछा किया। पलवल में गदपुरी टोल के पास गोली चला दी, जिससे आर्यन की मौके पर ही मौत हो गई।

मंजूरी भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

सेना खरीदेगी 1.45 लाख करोड़ के रक्षा उपकरण

एजेंसी, नई दिल्ली

सेना की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ी पहल की है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 1.45 लाख करोड़ से टैंक के लिए आधुनिक कॉम्बैट व्हीकल्स और गश्ती जहाज समेत कई अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद के 10 प्रस्तावों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी है।

इन रक्षा उपकरणों की लागत का कुल 99 फीसदी हिस्सा भारतीय स्तर डिजाइन, विकसित और निर्मित है।



99 फीसदी स्वदेश कंपनियों से खरीदे जाएंगे

रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में भारतीय सेना के टैंक बेड़े के लिए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स (एफआरसीवी) की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

इससे युद्धक टैंक बेहतर गतिशीलता, सभी इलाकों की क्षमता, बहुस्तरीय सुरक्षा, सटीक और घातक स्थिति पर काबू पाने और वास्तविक समय पर जागरूकता के साथ काम कर सकेंगे।

तटरक्षक बल की क्षमताओं में होगी वृद्धि

बैठक में भारतीय तटरक्षक बल की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तीन प्रस्तावों पर सहमति बनी। इसमें डोर्नियर-228 विमान जो खराब मौसम में उच्च परिचालन सुविधा के साथ अगली पीढ़ी के तेज गश्ती जहाज हैं। गश्ती जहाजों की खरीद से समुद्री क्षेत्र, खोज एवं बचाव और आपदा राहत अभियान के दौरान आईसीजी की निगरानी, गश्त करने की क्षमता में वृद्धि होगी।

अग्नि नियंत्रण रडार से हवाई लक्ष्यों का पता लगाकर किया जाएगा ट्रैक

वायुरक्षा अग्नि नियंत्रण रडार की खरीद पर सहमति जताई गई। यह रडार हवाई लक्ष्यों का पता लगाकर उनको ट्रैक करेगा। साथ ही फायरिंग समाधान देगा। इस प्रस्ताव को फॉरवर्ड रिपेयर टीम (ट्रैक्ड) के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। यह उपकरण बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड की ओर से डिजाइन और विकसित किया गया है। साथ ही मैकेनाइज्ड इंफेट्री बटालियन और बख्तरबंद रेजिमेंट दोनों के लिए अधिकृत है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिवंगत भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल के निधन पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि डीजी राकेश पाल का 18 अगस्त को चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। इस दौरान रक्षा मंत्रालय और परिषद के तमाम अफसर मौजूद रहे।

न्यूज ब्रीफ

गुम्मा विद्यालय की छात्राओं का कबड्डी में जलवा बरकरार

कोटखाई, भरत ठाकुर। चार दिवसीय कोटखाई खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रतनाड़ी में हुआ। इस प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुम्मा ने खेलों में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सोमेश कुमार मेहता ने इस शानदार उपलब्धि पर शिक्षकों,अभिभावकों, विद्यालय प्रबंधन समिति तथा ग्राम पंचायत गुम्मा के समस्त प्रबुद्धजनों को बधाइयां दी।

नवीन भंडारी साई में असिस्टेंट डायरेक्टर पद पर नियुक्त

महेंद्र कुमार, सुन्नी। सुन्नी के पन्दोआ के नवीन भंडारी भारतीय खेल प्राधिकरण में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हुई है। नवीन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत शिमला स्थित डीएवी शिक्षा प्राप्त की तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के उपरांत सिविल तैयारी में जुट गए। नवीन की इच्छानुसार भारतीय खेल प्राधिकरण में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर चयन हुआ है।

धामी कॉलेज में भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिया वक्तव्य

महेंद्र कुमार, सुन्नी। राजकीय महाविद्यालय धामी स्थित सोलह मील मे वाणिज्य सोसायटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था आजादी से अब तक की स्थिति पर एक व्याख्यान का आयोजन किया। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता प्रोफेसर डॉ. अजय सूद अर्थशास्त्र विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय रहे। कार्यक्रम मे डॉ. संतोष ठाकुर, वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉ. विक्रांत संकलानी, डॉ. गौरव शर्मा, डॉ. रमेश चाहौन, डॉ. साची सूद, डॉ. कविता कुमरा, डॉ. उज्ज्वल राठौर, और डॉ. गीता उपस्थित रहे।

सरकार ने नेताओं के वेतन बढ़ाकर डाला वित्तीय संकट

अनंत ज्ञान, शिमला। हिमावल प्रदेश सचिवालय एवं अन्य संबंध पेंशनर कल्याण संघ के प्रधान मदन लाल शर्मा व महासचिव भूपराम वर्मा ने कहा कि सरकार ने मंत्रियों व विधायकों के वेतन व भत्ते बढ़ाकर प्रदेश को वित्तीय संकट में डाला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर प्रदेश के खजाने में लाखों का बोझ डाला है। भूपराम वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार के कर्मचारियों व पेंशनर्स को आज तक हर माह बेतन प्रतिमाह पहली तारीख को मिलता था, लेकिन सरकार ने फिजूलखर्चा कर सूबे की माली हालत को खराब कर दिया है। सरकार की कार गुजारी पर सवालिया निशान उठाए है। एक तरफ तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में उठाए है। एक तरफ तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में यह ब्यान दे रहे है कि प्रदेश में कोई भी वित्तिय संकट जैसे हालात नहीं है परंतु वास्तव में सरकार का खजाना बिलकुल खाली है। जिस कारण अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को प्रति माह का वेतन भी नहीं दे पा रहे है। सरकार में मन्त्री विद्यायकों के वेतन और भते मभी चुपके से बढ़ा दिए है। सरकार कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए खजाना खाली होने की बात कर रहे है। वहीं हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट गहरा गया है। कर्मचारियों 3 तारीख होने के बावजूद भी सैलरी नहीं मिली है जो कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है जिससे कर्मचारियों में खासा रोष है। शिक्षक नेता मामराज पुंडीर ने कहा कि सैलरी कब आएगी इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और न ही सरकार ने इसकी कोई आधिकारिक सूचना दी है। कर्मचारियों को इधर-उधर से उधार लेकर खर्चा चलाना पड़ रहा है।

पुस्तकालय निरीक्षण समिति ने किया दौरा

अनंत ज्ञान, घुमारवीं। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा गठित पुस्तकालय निरीक्षण समिति ने स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं के पुस्तकालय का निरीक्षण किया। इस समिति में राजकीय महाविद्यालय खड्ड ज़िला ऊना के प्राचार्य डॉ.राजेन्द्र कुमार शर्मा राजकीय महाविद्यालय हरोली के प्राचार्य डॉ.भीम सिंह राठौर तथा खड्ड महाविद्यालय के सह-पुस्तकालय अध्यक्ष विकास परमार मौजूद थे। इस निरीक्षण समिति ने महाविद्यालय पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या का विवरण तथा छात्रों को वितरण, समाचार पत्र-पत्रिका, लाईब्रेरी साफ्टवेयर, दैनिक लाभान्वित छात्रों तथा प्राध्यापकों का ब्योरा, रीडिंग कक्षा में व्यवस्था तथा विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं का विस्तृत जायजा लिया। गौरतलब है कि इस समय प्रदेश के शिक्षा विभाग में महाविद्यालय पुस्तकालयों की ग्रेडिंग के लिए टीमें गठित की गई हैं तथा इन समितियों की रिपोर्ट के आधार पर इन्हें ग्रेडिंग प्रदान की जाएगी। समिति के सदस्यों ने पुस्तकालय निरीक्षण पर संतोष व्यक्त कर भविष्य में सुधार के लिए अपने सुझाव दिए। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य प्रो.रामकृष्ण,डॉ.सुरेश शर्मा, डॉ.जीवेश नड्डा, डॉ.बासुदेव, सह-पुस्तकालय अध्यक्ष निर्मला तथा पुस्तकालय कर्मचारी उपस्थित थे।

एक लाख अल्पसंख्यकों को भाजपा से जोड़ने का लक्ष्य

अनंत ज्ञान ब्यूरो, बिलासपुर। प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा भाजपा सदस्यता अभियान 2024 की राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन भाजपा कार्यालय बिलासपुर में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष मुनीर अख्तर लाली एवं राज्य महामंत्री एडवोकेट इमरान खान ने की, जबकि विशेष रूप से अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी सदस्य एवं प्रदेश प्रभारी डॉक्टर असलम एवं भाजपा के जिला अध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान ने शिरकत की। हिमाचली परंपरा अनुसार हिमाचल टोपी एवं शॉल देकर विशेष अतिथि डॉक्टर असलम एवं स्वतंत्र संख्यान को अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारियों ने सम्मानित किया। इस अवसर पर इमरान खान ने बताया कि भाजपा का सदस्य अभियान का मुख्य उद्देश्य 10 करोड़ से अधिक लोगों को पार्टी का सदस्य बनना है। भाजपा का सदस्य अभियान चार आयाम पर आगे बढ़ेगा। मिस्ड कॉल कर, कोड, नमो ऐप और भाजपा की वेबसाइट के माध्यम से देश और प्रदेश का कोई भी व्यक्ति पार्टी के सदस्य ग्रहण कर सकता है।

क्रोएशियाई नाटक 'द डॉल' का हुआ मंचन

अनंत ज्ञान ब्यूरो, बिलासपुर। बिलासपुर में भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश व संकल्प रंगमंडल शिमला के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित दो दिवसीय नाटक का कार्यक्रम संपन्न हो गया। दो दिनों में भाषा एवं संस्कृति विभाग के बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर के ऑडिटोरियम में क्रोएशियाई नाटक 'द डॉल' का सफल मंचन हुआ। जिसे स्थानीय जनता से खूब सराहा। उत्तर भारत के प्रख्यात नाट्य निर्देशक एवं राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्डी केदार ठाकुर के निर्देशन में हुए इस नाटक में मुख्य भूमिका रूपेश भीमटा और येशवी भारद्वाज ने निभाई। इस नाटक का मूल आलेख अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नाटककार मीरो गावरान ने लिखा है, जबकि इसका नाट्य रूपान्तरण जयपुर के सौरभ श्रीवास्तव ने किया है। इस नाटक में अत्याधुनिक कृत्रिम कुशलता (आर्टिफिशल इंटेलिजेंस) के ईर्द-गिर्द घूमती कहानी को दिखाया गया। इस दौरान विशेष रूप से उपस्थित हुए जिला भाषा अधिकारी रेवती सैनी ने संकल्प रंगमंडल शिमला को नाटक के सफल मंचन के लिए बधाई दी।

स्कूल के बाहर मनचलों की अब खैर नहीं

अनंत ज्ञान, घुमारवीं। राजकीय कन्या विद्यालय घुमारवीं के बाहर मंडराने वाले मनचलों पर पुलिस ने अपना शिकंजा कस दिया है। मंगलवार को राजकीय कन्या विद्यालय के बाहर महिला पुलिस कर्मचारी गश्त करने पहुंची। इस दौरान पुलिस ने गेट के बाहर तथा आमने-सामने जाने वाले रास्तों पर खड़े लड़कों से पूछताछ कर उनसे स्कूल के बाहर खड़े होने का कारण पूछा गया। साथ ही सभी को हिदायत दी गई की कोई भी स्कूल के आसपास नहीं दिखाई देना चाहिए। पुलिस ने यह कदम पिछले दिनों स्कूल में पढ़ने वाले सातवीं कक्षा की छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले के बाद उठाया है। हालांकि, इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा भी पुलिस प्रशासन से लिखित रूप से पुलिस से स्कूल के बाहर सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की थी। जिसके बाद पुलिस ने स्कूल के बाहर गश्त बढ़ा दी है।

जयराम बने हिमाचल भाजपा के प्रथम सदस्य

अनंत ज्ञान ब्यूरो, शिमला

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने गेयटी थियेटर से प्रदेश व्यापी संगठन पर्व सदस्यता अभियान-2024 का शुभारंभ किया।

इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को भाजपा का सदस्य बनाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। जयराम को हिमाचल प्रदेश भाजपा का प्रथम सदस्य बनाया गया। जयराम ठाकुर और डॉ. राजीव बिंदल ने पार्टी के टोल फ्री नंबर-8800002024 पर मिस्ड कॉल के जरिए फिर से भाजपा की सदस्य ली। इसके बाद पार्टी के अन्य नेताओं ने भी फिर से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और सदस्यता अभियान के सदस्य बने।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को भाजपा प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने सदस्यता दिलवाई। बिंदल ने बताया की एक दिन में देश में 1 करोड़ लोगों ने मिस्ड कॉल कर भाजपा की सदस्यता ली। डॉ. राजीव बिंदल ने बताया

कार्यक्रम में मौजूद जयराम ठाकुर व अन्य तथा (नीचे) नेतागण और कार्यकर्ता।

की प्रदेश के आम नागरिक टोल फ्री नंबर, नमो एप, भाजपा की वेबसाइट से भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। बिंदल ने कहा कि प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं की उड़ान को नई ऊंचाई देने के लिए हम कृतसंकल्प हैं।

वहीं कार्यक्रम में संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद सुरेश कश्यप, विधायक सुधीर शर्मा, आशीष शर्मा, राकेश जमवाल, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, उपाध्यक्ष पायल वैद्य, संजीव कटवाल सहित प्रदेश पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे।

भाजपा कार्यकर्ता आदर्शों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आज भी कुछ राज्यों में भाजपा के कार्यकर्ता उसी जीवन को जीते हैं और अपने आदर्शों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। संसद में जब हमारे दो सदस्य हुआ करते थे तब हम दो, हमारे दो कह कर हमारा मजाक उड़ाया जाता था। एक समय हमारे कार्यकर्ताओं के लिए कहा जाता था कि भाजपा का कार्यकर्ता हो जनसंघ का उसका एक पैर रेल में होता है और दूसरा पैर जेल में होता है।

रेल में इसलिए क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा प्रवास करता रहता था और समाज की समस्याओं के समाधान के लिए सत्ता पर बैठे हुए लोगों के सामने संघर्ष करता था और जेल में इसलिए क्योंकि तब सत्ताधारी एक जुलूस भी नहीं निकालने देते थे। वे हमें जेल में डाल देते थे। इसलिए कभी जेल तो कभी बाहर। हमने ये सब झेला क्योंकि 'नेशन फर्स्ट' ही हमारा कंसेप्ट था। जयराम ने कहा कि ये जो सदस्यता अभियान होगा, जो संगठन की संरचना होगी, उसी कालखंड में विधानसभाओं और लोकसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू हो गया होगा।

सत्र देखने आए विद्यार्थियों से विधानसभा अध्यक्ष ने किया संवाद

विधानसभा की कार्यप्रणाली से बच्चों को रू-ब-रू करवाते कुलदीप पठानिया।

अनंत ज्ञान, शिमला

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विधानसभा की कार्यवाही देखने आए राजकीय महाविद्यालय धामी शिमला तथा शैलेडे पब्लिक स्कूल शिमला के छात्र-छात्राओं के साथ संवाद किया।

संवाद के दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने छात्रों से कई प्रश्न पूछे जिसका बच्चों ने बड़ी तत्परता के साथ जवाब दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने पूछा कि विधान सभा क्या है? तथा विधायक कहां से चुन कर आते हैं जिसका इन सभी छात्रों ने सिलसिलेवार उत्तर दिया। इस अवसर पर वार्तालाप करते हुए कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि लोक सभा तथा विधानसभा लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर हैं जहां देश तथा प्रदेश के कानून बनाए जाते हैं। पठानिया ने कहा कि कानून बनाने का अधिकार केवल चुने हुए प्रतिनिधियों का होता है।

भारत युवाओं का देश है तथा दुनियां में सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में हैं। इस युवा शक्ति को देश के उत्थान तथा सर्वांगीण विकास में अपना सहयोग देना चाहिए। पठानिया ने कहा कि वह शीघ्र ही बाल सत्र की तरह किसानों तथा युवाओं के लिए भी एक सत्र करवाना चाहते हैं ताकि वे भी संसदीय प्रणाली को समझ सकें।

इंद्र ठाकुर अध्यक्ष व बृज लाल शर्मा बने पेंशनर्स महासंघ के प्रदेश महामंत्री

हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स महासंघ के सम्मेलन में मौजूद पदाधिकारी।

दशमी रावत, रोहड़ू

हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स महासंघ का सम्मेलन धर्मशाला में आयोजित हुआ, जिसमें पेंशनर्स महासंघ का गठन राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष विपन कुमार डोगरा व अखिल भारतीय महामंत्री विष्णु वर्मा की गौरवमयी उपस्थिति में हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से इंद्र ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष, राजेंद्र भंगालिया को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, रामलाल शर्मा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नंदलाल शर्मा को मुख्य सलाहकार, सुरजीत राणा, रतन लाल, तिलक राज शर्मा, इंदिरा मांजटा, दांता राम, राजेंद्र हरदास्टा को प्रदेश उपाध्यक्ष, बृज लाल शर्मा को प्रदेश महामंत्री, बाल कृष्ण ठाकुर को प्रदेश उप महामंत्री, परमेश्वर चौहान को प्रदेश वित्त सचिव, विपन कुमार डोगरा को प्रदेश सगंठन मंत्री, अनिल गुप्ता जीवन सिहं समटा, साधू राम, प्रेम भागटा को प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया।

वहीं गोविंद नेगी, राजेन्द्र झामटा, मेहर चंद, गुरुदास, बालि भद्र राणा, नैन सिहं, मीना राम चौहान को प्रदेश सयुंक्त सचिव चुना गया। (अनंत ज्ञान)

कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन : प्रेम

अनंत ज्ञान, जुंगा (शिमला)।

मुख्यमंत्री सुक्खू के दावे बिलकुल खोखले साबित हुए हैं कि सरकार वित्तीय संकट से नहीं जूझ रही है जबकि असली मायनों में सरकार का दीवालिया निकल चुका है।

जिला शिमला भाजपा अध्यक्ष प्रेम ठाकुर ने कहा कि सरकार के पास अगस्त माह का वेतन सरकारी कर्मचारियों को पहली सितंबर को देने के लिए धनराशि नहीं है और अब वेतन पांच तारीख को देने का फैसला लिया है। इसी तरह पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन पहली सितंबर की बजाए 10 सितंबर को देने का फैसला लिया गया है जिस से पैंशन भोगियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार का उदाहरण प्रदेश की यह पहली सरकार में देखने को प्रथम बार मिल रहा है।

हमें अपनी मातृभाषा का करना चाहिए सम्मान : अभिषेक

कार्यक्रम के दौरान मौजूद बच्चे व अन्य।

अनंत ज्ञान, शिमला

भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला शिमला द्वारा राजभाषा पखवाड़ा-2024 के अवसर पर मंगलवार को ऐतिहासिक गेयटी थियेटर के गोथिक हॉल में जिला स्तरीय अंतर विद्यालय राजभाषा प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। इन प्रतियोगिताओं में 22 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में अतिरिक्त उपायुक्त शिमला अभिषेक वर्मा ने शिरकत की। उन्होंने सभी विजेताओं को पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी भाषा देश में हर जगह प्रयोग होने वाली भाषा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नई शिक्षा नीति में भी भाषा और गणित विषयों पर विशेष बल दिया है।

उन्होंने कहा कि हर एक भाषा का हमारे जीवन में अलग महत्व रहता है और छात्रों को नई-नई भाषाओं को सीखने में रुचि रखनी चाहिए। इसके साथ ही हमें अपनी मातृभाषा का भी सम्मान करना चाहिए।

समग्र शिक्षा निदेशालय शिमला में कार्यशाला आरंभ

अनंत ज्ञान, शिमला। वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करने के मकसद से स्कूली बच्चों को जीवन कौशल को यानी लाइफ स्किल से लैस किया जाएगा। इसके तहत 6 से 12 कक्षाओं के लिए समग्र शिक्षा लाइफ स्किल-माइंडफुलनेस पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। पारंपरिक विषयों से एक कदम आगे बढ़कर स्कूली पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ अवेयरनेस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग जैसी लाइफ स्किल शामिल की जाएंगी।

ये जीवन कौशल एक महत्वपूर्ण घटक के तौर पर शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनेंगी। इन लाइफ स्किल को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनने को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला समग्र शिक्षा, भारती एयरटेल फाउंडेशन, एससीईआरटी के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को समग्र शिक्षा निदेशालय शिमला में शुरू हो गई।

बिलासपुर में रात को पुलिस व्यवस्था देखने सड़कों पर उतरेंगे एसपी, एएसपी और डीएसपी

शुभम राही, बिलासपुर

बिलासपुर जिला में रात्रि के समय पुलिस व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण करने के लिए एसपी, एएसपी और डीएसपी अब रात के अंधेरे में सड़कों पर उतरेंगे। रात्रि के समय में पुलिस चौकी, थानों सहित पुलिस नाकों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। जिसको लेकर बिलासपुर पुलिस ने रात्रि ड्यूटी को लेकर अधिकारियों का एक रोस्टर तैयार किया है।

अब पुलिस कर्मचारियों के साथ पुलिस के बड़े अधिकारी रात्रि के समय सरप्राइज विजिट पर निकलेंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने प्रत्येक पुलिस अधिकारी की डे वाइज ड्यूटी लगाई है। जिसमें पुलिस कप्तान संदीप धवल भी इस ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। पुलिस प्रशासन बिलासपुर ने सोमवार से लेकर रविवार तक रात्रि सरप्राइज विजिट का रोस्टर तैयार किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस सरप्राइज विजिट में पुलिस के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के चौकी, थानों सहित नाकों का औचक निरीक्षण करेंगे। वहीं, रात्रि के समय ही अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी उनको बतौर व्हाट्सऐप ग्रुप पर देनी होगी। अगर किसी भी नाके, चौकी या फिर थानें में किसी भी तरह की कोई कमी या फिर लापरवाही बरती जा रही है तो उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

बता दें कि बिलासपुर जिला में कुछ समय से बड़ी अपराधिक गतिविधियों को लेकर यह निर्णय लिया गया है। बिलासपुर शहर की बात करें तो यहां पर कुछ समय पहले कोर्ट परिसर के नजदीक गोलीकांड, चिट्टा माफिया सहित चोरियों की घटनाएं देखी गई है। हालांकि, पुलिस प्रशासन ने शुरुआत चरण में रात्रि को होमगार्ड सहित पुलिस कर्मचारियों की रात्रि गश्त तो बढ़ा दी है, लेकिन अब इस गश्त को लेकर पुलिस प्रशासन बिलासपुर स्वयं रात्रि को सड़कों पर उतरेगा, ताकि जिला और शहर में पूरी तरह से शांति प्रिय माहौल बनाया जा सके। बिलासपुर पुलिस प्रशासन ने जिला के लोगों से भी आग्रह किया है कि अगर आपके क्षेत्र में किसी भी तरह से कोई संदिग्ध व्यक्ति या फिर कोई घटना हुई है तो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस का दें। पुलिस प्रशासन का कहना है कि रात्रि के समय गाड़ियों की भी चैकिंग तेज करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। इस वक्त पुलिस प्रशासन को रात्रि के समय सबसे बड़ा नाका मंडी भराड़ी पुल पर है, क्योंकि यहां पर बाहरी राज्यों की गाड़ियों की प्रवेश अधिक रहता है। ऐसे में यहां पर आने वाले प्रत्येक गाड़ियों की चैकिंग अनिवार्य की गई है और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के आदेश जारी किए गए हैं। (अनंत ज्ञान)

सोमवार को एसपी, शनिवार को एएसपी, बुधवार को डीएसपी व अन्य दिनों में डीएसपी भी करेंगे विजिट

इस दिन ये अधिकारी करेंगे विजिट

जानकारी के अनुसार सोमवार को एसपी संदीप धवल, मंगलवार को डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान, बुधवार को घुमारवीं डीएसपी चंद्रपाल, वीरवार को श्री नयना देवी डीएसपी विक्रांत, शुक्रवार को डीएसपी बिलासपुर मनीष चौधरी, शनिवार और रविवार को एएसपी शिव कुमार चौधरी रात्रि गश्त पर रहेंगे। यह रोस्टर पुलिस प्रशासन द्वारा बनाया गया है। जिसमें यह पुलिस अधिकारी प्रत्येक दिन रात्रि के समय अपने-अपने क्षेत्रों सहित किसी अन्य क्षेत्र का भी सरप्राइज विजिट करेंगे। सरप्राइज विजिट में रात्रि गश्त, थाना, चौकी सहित पुलिस नाकों की चैकिंग की जाएगी।

> रात्रि के समय पुलिस प्रशासन बिलासपुर के अधिकारी सरप्राइज विजिट पर रहेंगे। एसपी बिलासपुर के आदेशानुसार रात्रि ड्यूटी रोस्टर बनाया गया है। जिसमें सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला में शांतिप्रिय माहौल बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन कार्यरत हैं।
>
> -शिव कुमार चौधरी, एएसपी बिलासपुर।

प्रदेश में आर्थिक संकट के लिए सरकार का कुप्रबंधन जिम्मेदार : त्रिलोक जम्वाल

अनंत ज्ञान ब्यूरो, बिलासपुर

बिलासपुर सदर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि अन्य चुनावी गारंटियों की तरह ओपीएस देना तो दूर, आर्थिक संकट का रोना रोकर यह सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन और पेंशन तक नहीं दे रही है। बोर्डों-निगमों के कर्मचारियों को तो 4-4 माह से वेतन नहीं मिल पाया है।

प्रदेश में आर्थिक संकट के लिए सरकार का कुप्रबंधन जिम्मेदार है। एक ओर 'मित्रों' का वेतन 30 हजार से बढ़ाकर सीधे 1.30 लाख रुपए किया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनके हक से वंचित रखा जा रहा है। जम्वाल ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा लगाने वाली कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन के कारण चारों ओर अव्यवस्था का बोलबाला है। जनहित के कार्यों के लिए शुरू से ही आर्थिक तंगी का रोना रोने वाली 'सुख' की इस सरकार से प्रदेश की जनता को केवल दुख ही मिल रहे हैं। पहले भाजपा कार्यकाल में जनहित में खोले गए 1000 से अधिक संस्थान बंद कर दिए। उसके बाद कई जनहितैषी योजनाएं बंद करने के साथ ही सैकड़ों स्कूल बंद करके नौनिहालों का भविष्य भी अंधकारमय बना दिया गया। अब बात कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनके हक से वंचित करने तक पहुंच गई है। ओपीएस देना तो दूर, प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कर्मचारियों व पेंशनर्स को पहली तारीख को वेतन व पेंशन नहीं मिले हों। बोर्डों-निगमों के कर्मचारी तो 4-4 माह से वेतन को तरस रहे हैं। इसी तरह बीते डेढ़ साल के एरियर का भुगतान भी लंबित है।

उन्होंने कहा कि अपने कुप्रबंधन से प्रदेश को आर्थिक संकट में झोंकने वाली सुक्खू सरकार अभी भी कई और कड़े फैसले लेने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी ओर चहेतों को मालामाल करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है।

एक 'मित्र' का वेतन 30 हजार से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपए कर देना इसका ताजा उदाहरण है। बेहतर होगा कि सरकारी खजाने से 'मित्रता' का धर्म निभाने के बजाय सरकार प्रदेश की जनता के प्रति अपना दायित्व ईमानदारी से निभाने को प्राथमिकता दे।

वित्तीय संकट में निकल रही मित्रों के लिए मलाईदार पोस्टिंग : गर्ग

घुमारवीं। हिमाचल प्रदेश में उत्पन्न वित्तिय संकट के लिए पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसा है। कहा कि सरकार के कुप्रबंधन के चलते आज यह संकट खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस के कैप्टन और प्लेइंग इलेवन प्रदेश की कमजोर वित्तीय स्थिति का रोना रोते हैं और दूसरी ओर उनके कैप्टन एक्स्ट्रा प्लेयर के लिए जगह बनाते है। एक सरकारी नोटिफिकेशन में सरकार बोर्ड के अध्यक्ष का मानदेय 30 हजार से 1 लाख 30 हजार कर दिया। यह सरकार का दो चेहरा चरित्र दिखाता है। एक तरफ मुख्यमंत्री वेतन छोड़ने की बात करते और दूसरी ओर अपने एक और खास मित्र के लिए बढ़ी हुई सैलरी वाली पोस्टिंग को उत्पन करना कांग्रेस के चरित्र को दर्शाता है। उन्होंने कहा की 6 संसदीय सचिव, 10 से अधिक कैबिनेट रैंक वाले दोस्त, 100 से ज्यादा चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर, एजी और अनेकों मित्रों की एडजसमेंट इस सरकार की फिजूल खर्ची है। हिमाचल प्रदेश में कुप्रबंधन अपने चरम पर चल रहा है। हिमाचल पर इस समय 87 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है और अगले वित्त वर्ष से पहले यह कर्ज का आंकड़ा एक लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा।

सख्ती बिलासपुर में एम्स के प्रशिक्षु चिकित्सकों पर एसपी द्वारा की गई कार्रवाई के बाद जारी हुए आदेश

गाड़ी में सायरन और बुलेट में हैवी सिलेंसर लगाने वालों पर होगी कार्रवाई

अनंत ज्ञान ब्यूरो, बिलासपुर

बिलासपुर में एम्स के प्रशिक्षु चिकित्सकों द्वारा अपनी गाड़ी में सायरन बजाने के मामले पर हुई कार्रवाई के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पर आ गया है। बिलासपुर पुलिस ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि अगर कोई भी वाहन चालक अपनी गाड़ी में सायरन या फिर बुलेट में हैवी सिलेंसर के साथ अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

पुलिस प्रशासन की ओर से जिला के सभी पुलिस चौकियों और थानों में यह आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही कहा गया है कि अपने-अपने क्षेत्र में नाके लगाकर वाहनों की जांच करें और जो भी वाहन चालक इस तरह की कोई नियमों की अवहलेना करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खबर की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर शिव

अनंत ज्ञान फॉलोअप

कुमार चौधरी ने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एम्स के प्रशिक्षुओं द्वारा अपनी गाड़ी में सायरन बजाना गलत था, जिसकी एवज में पुलिस प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। बिलासपुर जिला में अब यह एक अभियान के रूप में शुरू किया गया जाएगा। जिसमें वाहनों की ज्यादा साउंड वाले हॉर्न और बुलेट में ज्यादा आवाज करने वाले हेवी सिलेंसर वाहन चालकों पर कार्रवाई होगी।

बिलासपुर एसपी की ओर से एम्स में तैनात प्रशिक्षु चिकित्सकों पर हुई कार्रवाई के बाद जिला में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह घटना बीते रविवार देर रात की सिटी चैकी के समीप की है। वहीं, इसी के साथ एसपी बिलासपुर द्वारा स्वयं गाड़ी का पीछा किया गया और बाद में गाड़ी को पकड़ा गया। ऐसे में एसपी द्वारा की गई इस कार्रवाई में बिलासपुर की जनता भी पुलिस प्रशासन की तारीफ कर रही है। इस अभियान के तहत अब वाहनों की चैकिंग की जाएगी।

> जिला में एक अभियान शुरू किया जा रहा है। जिसमें पुलिस जिला के विभिन्न स्थानों पर नाका लगाकर गाड़ियों की चैकिंग करेगी और जो भी वाहन चालक अपनी गाड़ी में सायरन और बुलेट में प्रेशर सिलेंसर लगाए हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
>
> -शिव कुमार चौधरी, एएसपी बिलासपुर।

वॉलीबाल में भडोलीकलां स्कूल बना विजेता

गोपाल कपिल, झंडूता। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जेजवी में आयोजित झंडूता जोन की अंडर-19 छात्रा वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया। प्रतियोगिता के समापन पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विवेक कुमार ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। प्रधानाचार्य अनिल कुमार ने मुख्यातिथि का स्वागत किया। वहीं मुख्यातिथि ने विजेता और उपविजेताओं को सम्मानित भी किया। इस मौके पर विवेक ने कहा कि बच्चों को खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि खिलाड़ी आगामी प्रतियोगिता में भी बेहतर प्रदर्शन करें। इस मौके पर आयोजित वॉलीबाल प्रतियोगिता में भडोलीकलां स्कूल विजेता और कलोल उपविजेता रहा। इसके अलावा खो खो में डाहड विजेता, जेजवी उप विजेता, कबड्डी में झंडूता विजेता, सलवाड़ उपविजेता और बैडमिंटन में कलोल विजेता और जेजेवी उपविजेता रहा। इस अवसर पर अध्यक्ष सुशील कुमार, उपप्रधान जितेंद्र महाजन, श्याम सिंह परमार आदि मौजूद रहे। (अनंत ज्ञान)

विधानसभा मानसून सत्र

मानसून सत्र में भाग लेने के लिए जातीं पच्छाद की विधायक रीना कश्यप।

शिमला में विधानसभा के मानसून सत्र में भाग लेने के लिए भाजपा विधायकों के साथ सचिवालय की तरफ जाते नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के साथ सचिवालय की तरफ जाती कमलेश ठाकुर।

विधानसभा में स्पीकर-विपक्ष में गतिरोध टूटा

पठानिया बोले- सदन में वह पूरी तरह न्यूट्रल; विपक्ष ने दिया था हटाने का नोटिस

अनंत ज्ञान, शिमला

हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया और भाजपा विधायकों के बीच 6 दिन से चल रहा गतिरोध आज टूट गया है। विपक्ष ने सोमवार को स्पीकर को पद से हटाने का नोटिस विधानसभा सचिव को दिया था। इसके बाद विपक्ष राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचा।

सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत मामला उठाते हुए कहा, स्पीकर के चुनाव में कहे शब्दों से भाजपा विधायक आहत है। उन्होंने कहा, विपक्ष ने कल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाना चाहा। मगर चर्चा की इजाजत नहीं मिली।

स्पीकर ने कहा, जब हमे चीजें ठीक करनी होती है तो यह भूलना पड़ता है कि मैं ठीक हूं या गलत। उन्होंने कहा, वह सदन में पूरी तरह न्यूट्रल है। उन्होंने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया, जिसके लिए

उन पर उंगली उठाई जा सके। उन्होंने कहा, हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में परिस्थिति अलग होती है, वहां जो भी शब्दों का प्रयोग होता है, वो चुनाव में लाभ के लिए होता है। वो जुमले होते है। उस समय परिस्थिति थी कांग्रेस की सरकार एक साल के अंदर जा रही है। उस दौरान ये शब्द जरूरी थे। अगर आप आहत हुए तो मैं बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दूंगा।

जिस स्कूल में छात्रों की संख्या अधिक, वहां पहले भरे जाएंगे जेओए लाइब्रेरियन के पद

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सदन में कहा कि प्रदेश के जिस स्कूल की संख्या अधिक है वहां जेओए लाइब्रेरियन के पद प्राथमिकता के आधार पर भरे जाएंगे। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, अटल आदर्श विद्यालय और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को प्राथमिकता दी जाएगी। पच्छाद से विधायक रीना कश्यप ने इसको लेका सवाल उठाया था।

गगरेट के तीन स्कूलों पर खर्च किए जा रहे 2.92 करोड़

गगरेट से विधायक राकेश कालिया के प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि गगरेट विधानसभा क्षेत्र की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बढ़ेरा राजपूतां, घनारी और रामनगर में विज्ञान ब्लॉक, भवन निर्माण के लिए 2,92,35,000 की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें से 2,04,60,841 की राशि खर्च की जा चुकी है। जल्द ही निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

विधानसभा में पहली बार पहुंची सुक्खू की पत्नी

सीएम से सत्ती बोले-हम चाहते हैं कि आप पर हमले न हों, भाभी को बुरा लगेगा

अनंत ज्ञान, शिमला

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की पत्नी एवं देहरा से कांग्रेस विधायक कमलेश ठाकुर आज पहली बार विधानसभा पहुंची। भारतीय जनता पार्टी के ऊना से विधायक सतपाल सत्ती ने कमलेश ठाकुर को सदन में देख मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर तंज कसते हुए कहा, अब भाभी जी सदन के अंदर बैठे हैं।

हम नहीं चाहते कि आप पर हमले हो और भाभी जी को बुरा लग जाए। भाभी जी को ऐसा न लगे कि सदन में नहीं जाना चाहिए। इसलिए सत्ता पक्ष को बढ़ा मन रखना होगा। सत्ती की इस बात पर सदन में सभी सदस्य ने हंसी के खूब ठहाके लगाए। सतपाल सत्ती के बाद स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने पहली बार सदन में पहुंची कमलेश ठाकुर का स्वागत किया। स्पीकर ने मुख्यमंत्री को मजाकिया अंदाज में कहा, क्या आप भी पत्नी से डरते हैं। इसके बाद सदन में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू विधानसभा में बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने भी स्पीकर को मजाकिया अंदाज में कहा, आप मुझे पत्नी का नाम लेकर डराने की कोशिश न करें।

पति-पत्नी पहली बार एक साथ विधानसभा पहुंचे

हिमाचल में यह पहला अवसर है जब पत्नी और पत्नी एक साथ विधानसभा में नजर आए। इससे पहले पिता-पुत्र के तौर पर वीरभद्र सिंह और विक्रमादित्य सिंह जरूर विधानसभा में एक साथ बैठे हैं। मगर पत्नी-पत्नी पहली बार सदन में एक साथ चुन कर आए हैं।

ड्रोन निगरानी गतिविधि में नहीं था शामिल : सीएम

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा बीते दिनों सदन में उठाए गए उनके आवास पर उड़ाए जा रहे रहे ड्रोन से संबंधित मामले को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। सुक्खू ने स्पष्ट किया कि गहन जांच से पता चला है कि ड्रोन किसी भी निगरानी गतिविधि में शामिल नहीं था। इसके बजाय इसका इस्तेमाल शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (एसजेपीएनएल) द्वारा विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित जल आपूर्ति परियोजना के लिए एक सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में किया जा रहा था। मेसर्स एसयूईजेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए ड्रोन सर्वेक्षण का उद्देश्य शिमला में जल आपूर्ति प्रणाली के लिए आधार मानचित्र बनाना है। एकत्र किया गया डेटा इमारतों की भौतिक विशेषताओं तक सीमित है और इसे आकाश से एकत्र किया जाता है।

विधानसभा में पहली बार होगी 'शून्य काल' की व्यवस्था

अनंत ज्ञान ब्यूरो, शिमला

विधानसभा मानसून सत्र में विधायकों को शून्य काल की व्यवस्था मिल सकती है। मंगलवार को कार्यवाही खत्म होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सदस्यों को शून्य काल की व्यवस्था मिलेगी। शून्य काल प्रश्न काल के बाद दोपहर 12 से लेकर 12:30 तक चलेगा। प्रश्न काल का वक्त सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक होता है। इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य महत्वपूर्ण विषय शून्य काल के दौरान उठा सकेंगे।

यह पहली बार है, जब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में यह व्यवस्था दी जा रही है। हालांकि इस बारे विधानसभा अध्यक्ष अभी सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों से बात करेंगे। इसके बाद ही शून्य काल को लेकर अंतिम फैसला होगा।

कीटनाशकों पर बढ़ाएंगे अनुदान: नेगी

विधानसभा सत्र के दौरान ठियोग से विधायक कुलदीप सिंह राठौर के प्रश्न के उत्तर में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मौजूदा समय में फफूंदनाशकों और कीटनाशकों पर 36 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है। किसान-बागवानों को सरकार की ओर से उपलब्ध करवाए जाने वाले फफूंदनाशकों और कीटनाशकों पर अनुदान बढ़ाया जाएगा। विशेषकर ऐसे फफूंदनाशक और कीटनाशक जो अधिक प्रचलित हैं और उन पर मिलने वाला अनुदान 1992 से फ्रीज है, उनकी अनुदान की दरें बदलेंगी।

वहीं मित्र कीटों का भी संरक्षण किया जाएगा। रसायनिक कीटनाशकों के असंतुलित प्रयोग से खेतों और बगीचों में पाये जाने वाले मित्र कीट अनजाने में मर जाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को ध्यान में रखकर मात्र कीटनाशकों पर निर्भर न रहकर ऐसी मिली जुली सुरक्षित विधियां अपनाने पर जोर दिया जाएगा। बागवानी मंत्री ने बताया कि साल 2024-25 में फफूंदनाशक और कीटनाशक दवाओं पर उपदान के लिए 10 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाई गई है। जून तक 3 करोड़ 64 हजार उपदान दिया जा चुका है।

जल परियोजना टेंडर प्रकिया में हुई गड़बड़ियां : बिक्रम ठाकुर

शिमला । विधानसभा मानसून सत्र के दौरान सदन में बड़सर विधानसभा क्षेत्र में जल परियोजना का मामला विधायक बिक्रम ठाकुर ने जोर-शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार टेंडर को रद्द करने की बात कह रही है, जिससे परियोजना केवल डिले होगी। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इन गड़बड़ियों में संलिप्त अधिकारियों को बचाने में लगी हुई है। इस प्रोजेक्ट के तहत 130 करोड़ की लागत से विधानसभा क्षेत्र के हर गांव तक जल पहुंचने का लक्ष्य था।

प्रोजेक्ट में ब्यास नदी से जल उठाया जाता था और अधिकारी ने 130 करोड़ की डीपीआर बनाई, लेकिन मगर जब टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई तो लोएस्ट टेंडर 204 करोड़ के उपर चला गया। सवालों का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को एक तो पहले की गलत बनाया गया। अगर पानी बड़सर को जाना है तो फिर ब्यास से क्यों लाया जाना है सतलुज से क्यों नहीं। अगर सतलुज से पानी लिया जाता है तो इसमें 70 करोड़ रुपए की बचत होनी है।

आरोप कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं : जयराम

प्रदेश में आर्थिक संकट राहुल की 'खटाखट' नीति के कारण

अनंत ज्ञान ब्यूरो, शिमला

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के आर्थिक संकट राहुल गांधी की खटाखट-खटाखट नीति के कारण है। आज प्रदेश में कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं। कर्मचारी और पेंशन अपने खाते में वेतन और पेंशन आने की राह देख रहे हैं। दिल्ली से पड़ी डांट के कारण मुख्यमंत्री प्रदेश में आर्थिक संकट न होने की बात कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस आलाकमान को यह स्पष्ट पता है कि आने वाले चुनाव में अब कांग्रेस न गारंटी कार्ड चला पाएगी और न ही खटाखट वाला कार्ड। कांग्रेस के यह दोनों हथियार बेकार और आत्मघाती साबित हो चुके हैं, क्योंकि जहां-जहां भी कांग्रेस की सरकार है वहां आज वित्तीय हालत बहुत खराब हैं।

हिमाचल के अलावा कर्नाटक में भी हिमाचल जैसी स्थिति पहले ही आ गई है। जहां विकास और वेतन के लिए वित्तीय संकट का अलार्म बज चुका है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधान सभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बड़ी-बड़ी घोषणाएं की

थी। सरकार ने झूठ बोलकर सत्ता हथिया ली और अब बाक़ी सुविधाएं देने की बात तो छोड़िए अब वेतन और पेंशन भी नहीं मिल पा रही है।

जो कर्मचारी किसी भी तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण इलाज करवा रहे हैं, उन्हें उनके इलाज में किए गए खर्च का पैसा भी वापस नहीं किया जा रहा है। महंगाई भत्ता और बाकी देनदारियों का भुगतान तो बहुत दूर की बात है।

इससे ज्यादा दु:खद यह है कि वेतन और पेंशन न देने वाली सुक्खू सरकार खुद को कर्मचारियों का हितैषी बता रही है। केंद्र सरकार प्रदेश का सहयोग कर रही है। केंद्र सरकार के हर राज्य को आर्थिक सहयोग देने का नियम और क्रियाविधि होती है। हिमाचल प्रदेश के किसी भी कोष या मद में केंद्र सरकार द्वारा कोई कटौती नहीं की गई है।

बेरोजगार नर्सिंग एसोसिएशन से मिले नेता प्रतिपक्ष

जयराम ठाकुर ने बेरोजगार नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्तमान सरकार नर्सिंग के सारे पद आउटसोर्स आधार पर भर रही है। बैचवाइज भर्ती भी नहीं कर रही है।

न्यूज ब्रीफ

एनएसएस स्वयंसेवियों ने धीरा स्कूल में की सफाई

राकेश डोगरा, डरोह। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धीरा में मंगलवार को स्वच्छता पखवाड़ा के अधीन एनएसएस यूनिट ने पाठशाला में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान नालियों को साफ किया गया। स्कूल के इर्द-गिर्द झाड़ियां को उखाड़ा और क्यारियों को संवारा। सभी एनएसएस स्वयंसेवियों ने इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लिया द्य प्रधानाचार्य सुशील धीमान, कार्यक्रम अधिकारी राकेश धरवाल तथा सुषमा कुमारी भी स्वयंसेवियों के साथ उपस्थित रहे। (अनंत ज्ञान)

दिव्यांशी ने जीता बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार

सालबिया शर्मा, गरली। गुरुकुल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल अम्ब की छात्रा दिव्यांशी शर्मा ने 'डांस शो' में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतकर पूरे क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। बता दें दिव्यांशी शर्मा ने पंजाब के होशियारपुर में आयोजित नैशनल स्तरीय डांस चैंपियनशिप किंग में अपनी कला का शानदार जलबा दिखाते हुए यह रुतबा हासिल किया है। इतना ही नही विगत दिनों गरली में हिम जागृति मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिव्यांशी शर्मा डांस शो में बेहतरीन परफॉर्मेंस में अव्वल स्थान हासिल 11 हजार रुपए का नगद पुरस्कार भी जीत चुकी है। दिव्यांशी पढ़ाई के साथ-साथ हनी डी मैक्स की अकादमी द आर्ट हाउस में भी प्रशिक्षण ले रही है। द आर्ट हाउस अंब अकादमी स्टार ऑफ विनर रह चुका है। जिसका आयोजन हिम जागृति मंच द्वारा किया गया, जिनमें इन्हे 5100 रुपए कैश प्राइज, ट्रॉफी व सर्टिफिकेट से नवाजा गया था। दिव्यांशी ने अपनी जीत का श्रेय अपनी माता दीपिका शर्मा पिता अपने अध्यापकों व अपनी डांस टीचर हनी को दिया। (अनंत ज्ञान)

साई मंदिर मनसिंबल में भागवत कथा शुरू

अनंत ज्ञान, डरोह। साई सेवा समिति मनसिंबल भवारना की ओर से नौ दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 3 से 11 सितंबर तक मनसिंबल भवारना में शुरू हो चुका है। इस बीच कथा वाचक स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज गोविंद जीवन आश्रम परौर के परम शिष्य अनिल डोहरू अपने मधुर वचनों से कथा का गुणगान कर रहे हैं। साई मंदिर के संस्थापक रोशन रैना ने बताया कि पिछले 13 वर्षों से मंदिर परिसर में भागवत कथा की जा रही है और पिछले 3 वर्षों से देवी भागवत की कथा सुनाई जा रही है। इस दौरान मंगलवार को कलशयात्रा सुबह 9 बजे शुरू हुई। महिलाओं द्वारा सिर पर कलश उठाने का दृश्य मनमोहक लग रहा था। इस बीच प्रतिदिन कथा श्रवण करने का समय दोपहर 2 से सायं 5 बजे तक है। 11 सितंबर बुधवार को सुबह हवन-यज्ञ किया जाएगा। उसके बाद पूर्णाहुति दी जाएगी। इस बीच महिलाएं भजन-कीर्तन करेंगी। श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया जाएगा तथा दोपहर एक बजे से भंडारा भी लगाया जाएगा।

एबीवीपी ने शिक्षा विरोधी निर्णयों के खिलाफ किया धरना-प्रदर्शन

सांकेतिक भूख-हड़ताल से सोई सरकार को जगाने का होगा प्रयास

अनंत ज्ञान ब्यूरो, धर्मशाला

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों के अंदर प्रदेश की वर्तमान शिक्षा विरोधी कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया। जिला कांगड़ा के शिक्षण संस्थानों में भी विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश की वर्तमान सरकार के खिलाफ और उनके शिक्षा विरोधी निर्णयों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया।

विभाग सह संयोजक जितेंद्र सिंह ने बताया कि आज हिमाचल प्रदेश के शैक्षणिक परिदृश्य और प्रदेश के वर्तमान परिदृश्य के खस्ताहाल इस कांग्रेस की सरकार ने बना रखे हैं। उन्होंने कहा प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य धरना-प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदेश विश्वविद्यालय में अभी तक स्थायी कुलपति की नियुक्ति प्रदेश सरकार नहीं करवा पा रही है, परीक्षा परिणाम में अनेक अनियमितताएं निरंतर सामने आ रही है। प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव काफी लंबे समय से बंद है। इस ओर भी कोई ध्यान सरकार का नहीं है।



कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य।

प्रदेश के अंदर आज भी ऐसे शिक्षण संस्थान है जो आज भी मूल भूत सुविधाओं ओर अपने भवन निर्माण के लिए जूझ रहे हैं, टूरिज्म विलेज के नाम पर वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है जो बिलकुल भी विश्वविद्यालय के हित में नही है। वर्तमान सरकार निरंतर छात्र विरोधी निर्णय लेने से बाज नहीं आ रही है। प्रदेश में खनन माफियों, नशा माफियों और गुंडागर्दी को प्रदेश की सरकार संरक्षण दे रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर विद्यार्थी परिषद ने आज धरना-प्रदर्शन कर अपने आंदोलन की शुरुआत की है। जिसमें प्रधानाचार्य और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला के निर्देशक के माध्यम द्वारा शिक्षामंत्री को ज्ञापन भेजा गया। इसके बाद अब विद्यार्थी परिषद द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और उसके उपरांत सांकेतिक भूख-हड़ताल के माध्यम से सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास करेगी और जिला स्तर पर विशाल आक्रोश प्रदर्शन किए जाएंगे।

नकली व्यवस्था परिवर्तन आते ही प्रदेश का हाल बेहालः जितेंद्र सिंह

भेड़ खड्ड में पानी के तेज बहाव में फंसी जेसीबी व पोकलेन

अनिल छांगू, जवाली

पठानकोट-मंडी फोरलेन कार्य में जुटी कंपनी की एक जेसीबी व एक पोकलेन ऑपरेटर की जान घंटों तक फंसी रही, जिनको काफी मशक्कत के उपरांत कंपनी के वर्करों व स्थानीय लोगों द्वारा उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

काफी मशक्कत के बाद ऑपरेटर को निकाला बाहर

हुआ यूं कि ज्वाली उपमंडल के कोटला स्थित भेड़ खड्ड के समीप फोरलेन कार्य में जुटी जेसीबी व पोकलेन के आपरेटर सोमवार देर शाम कार्य खत्म होने उपरांत नहाकर व खाना खाकर जेसीबी व पोकलेन के अंदर ही सो गए कि रात्रि करीबन दो बजे भेड़ खड्ड में एकदम से तेज पानी आ गया। पानी इतना ज्यादा था कि मशीनें भी उसमें डूब गईं।

आपरेटर जान बचाने के लिए बकट पर चढ़ गए तथा सहायता के लिए चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर वर्कर व स्थानीय लोग वहां पहुंचे तथा उनको सुरक्षित निकालने में जुट गए तथा दो घंटे की मशक्कत के बाद उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया।

फोरलेन कार्य में जुटी कंपनी के एचआर रोहित ने बताया कि दोनों आपरेटर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि जेसीबी व पोकलेन खड्ड में ही हैं। पानी का बहाव कम होते ही उनको भी निकाल लिया जाएगा। (अनंत ज्ञान)

स्टूडेंट्स को बांटे 39 टैबलेट

शुभम शर्मा, देहरा

राजकीय महाविद्यालय ढलियारा मे मंगलवार को प्राचार्य अंजू चौहान की अध्यक्षता मे टैबलेट वितरित समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में एसडीएम देहरा शिल्पी वेक्टा ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। इस दौरान होनहार विद्यार्थियों को रामानुजन स्टूडेंट्स डिजिटल योजना के तहत टैबलेट वितरित किए गए।

बताते चले इस मौके पर राजकीय महाविद्यालय ढलियारा सहित हरिपुर गुलेर, ज्वालाजी, नगरोटा सूरियां, खुंडियां तथा डाडासीबा कॉलेज के कुल 39 होनहारों को टैबलेट वितरित किए गए। छात्रों को संबोधित करते हुए उपमंडलाधिकारी शिल्पी वेक्टा ने छात्रों से इन उपकरणों का सही इस्तेमाल करने का आह्वान किया तथा मोबाइल आदि पर कम से कम समय व्यतीत करने का आह्वान किया। महाविद्यालय प्राचार्या अंजू चौहान ने भी इस अवसर पर सभी होनहारों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें जीवन में उच्च शिखर पर पहुंचने का आह्वान किया। इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार के सभी शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

डीएसपी ने खनन माफिया के खिलाफ की सर्जिकल स्ट्राइक

अशोक ठाकुर, इंदौरा

पुलिस जिला नूरपुर एसएसपी अशोक रतन द्वारा खनन माफिया, वन माफिया या फिर नशा माफिया हो, सभी के ऊपर लगाम लगाने हेतु लगातार प्रयास करते रहते हैं।

अवैध खनन पर गत रात उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशानुसार एक टिप्पर में सवार होकर डीएसपी नूरपुर विशाल वर्मा स्थानीय पुलिस चौकी या थाना डमटाल के किसी अधिकारी या कर्मचारी को साथ लिए बिना रात को चक्की दरिया में गांव माजरा के पास दबिश दी और चक्की दरिया के गांव माजरा में पहुंचने पर दो जेसीबी मशीन, एक टिप्पर तथा 9 ट्रैक्टर चालकों पर अवैध खनन करते हुए पाया गया, जिस पर बीएनएस की धारा 303 (2) 303 (5) तथा 21(1) मिनिरल एंड माइनिंग अधिनियम के तहत कुल 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

पकड़े गए आरोपियों की पहचान देशराज, गुरप्रीत सिंह, लतीफ मोहम्मद, सलीम, दीपक, सुनील कुमार, नरेश सिंह, निर्मल कुमार, कश्मीर चंद मुख्तियार सिंह, अमरजीत तथा हरदीप सिंह पर मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंधी जानकारी देते हुए एएसपी नूरपुर धर्मचंद वर्मा ने बताया के चक्की दरिया में अवैध खनन करने की खबरें लगातार उन्हें मिल रही थीं जिसके चलते डीएसपी नूरपुर वर्मा ने खुद इसका मोर्चा संभालते हुए यह सर्जिकल स्ट्राइक खनन के खिलाफ की गई तथा यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

ज्ञात रहे के खनन सामग्री के भारी रेट होने के चलते स्थानीय लोगों द्वारा जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर तथा टिप्पर खरीद कर यह खनन माफिया के लोग सरेआम पहाड़ों का सीना छलनी कर ही रहे हैं। दूसरी तरफ खड्डों, नालों, चक्की दरिया तथा ब्यास दरिया में अवैध तौर पर खनन सामग्री उठाकर यह लोग क्रैशर वालों को देकर सरकार को लाखों रुपए का चुना भी लगा रहे हैं। हालांकि, पुलिस विभाग, खनन विभाग तथा वन विभाग द्वारा कई बार इन पर कार्रवाई भी की जाती है। चालान होने के बावजूद ये उसी दिन धंधा शुरू कर देते हैं।

अनंत ज्ञान **फैशन**

आप पर खूब जचेंगे ये 5 कलर के ब्लाउज

साड़ी पहनना हम सभी को पसंद होता है। इसके लिए हम आए दिन नए से नए डिजाइन में वैरायटी देखते हैं। साड़ी को आकर्षक लुक देने के लिए सही तरह से स्टाइलिंग के साथ-साथ परफेक्ट ब्लाउज के डिजाइन को चुनना बेहद जरूरी होता है। आजकल मार्केट में आपको रेडीमेड कई तरह के ब्लाउज देखने को मिल जाएंगे। ब्लाउज के लिए जरूरी नहीं है कि आप हर साड़ी के साथ में अलग से बनवाएं, बल्कि आप कुछ चुनिंदा रंगों के ब्लाउज को खरीदकर वार्डरोब में शामिल कर सकती हैं और इसे किसी भी तरह की साड़ी के साथ में स्टाइल कर सकती हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं वो पांच रंग-

हॉट पिंक कलर ब्लाउज

पिंक में आपको कई सारे लाइट और डार्क कलर देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको गोटा-पत्ती लेस से लेकर फैंसी लुक के लिए चंदेरी फैब्रिक में कई रेडीमेड डिजाइंस देखने को मिल जाएंगे। वहीं, आपको इसमें थ्रेड वर्क में वर्क वाला रेडीमेड ब्लाउज भी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। इसे आप ग्रीन, येलो, पर्पल कलर की साड़ियों के साथ में पहन सकते हैं।

ब्लैक कलर ब्लाउज

काला रंग एवरग्रीन ट्रेंड में रहता है। कोशिश करें इसमें आप सिंपल डिजाइन के ब्लाउज को ही वार्डरोब में शामिल करें, क्योंकि ब्लैक कलर लगभग हर तरह की साड़ी के साथ में स्टाइल किया जा सकता है। आप चाहें तो कॉटन फैब्रिक में इस तरह का ब्लाउज सिलवाकर पहन सकती हैं।

रेड कलर ब्लाउज

रेड कलर बोल्ड और स्टाइलिश लुक देने में मदद करता है। इस कलर के ब्लाउज को आप गोल्डन, ब्लैक, ग्रीन, पिंक, पर्पल, ब्लू और अन्य कई कलर्स की सी के साथ में स्टाइल कर सकती हैं। देखने में इस तरह की सी लुक रॉयल और स्टाइलिश लुक देने का काम करती है।

ग्रीन कलर ब्लाउज

ग्रीन कलर में डार्क ग्रीन कलर आजकल काफी पसंद किया जा रहा है। इसे आप येलो, पिंक, रेड, व्हाइट जैसे कई कलर्स की सी के साथ में स्टाइल कर सकती हैं। इसमें आपको सिल्क फैब्रिक में कई सारे डिजाइन के रेडीमेड ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे।

गोल्डन कलर ब्लाउज

गोल्डन कलर देखने में बेहद रॉयल लुक देने का काम करता है। इसे आप किसी भी तरह की फैंसी साड़ी के साथ में स्टाइल कर सकती हैं। ब्लाउज की बात करें तो इसमें आपको रेडीमेड में प्लेन से लेकर महंगे डिजाइंस भी कई देखने को मिल जाएंगे।

ट्रेडिशनल लुक में ज्वेलरी का रोल अहम होता है। इसके लिए आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी को सबसे ज्यादा पसंद किया जाने लगा है। इसमें गले के नेकपीस और इयररिंग्स के अलावा हम पैरों में बिछिया भी पहनना पसंद करते हैं। इसके डिजाइंस को चुनने के लिए आपको पैरों के आकार को समझना बेहद जरूरी होता है। हरतालिका तीज आने वाली है। इस दिन सुहागनें व्रत रखकर पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। तो आइए देखते हरतालिका तीज के दिन पैरों में पहनने के लिए बिछिया के नए डिजाइंस।

आपके पैरों की शोभा बढ़ाएंगे बिछिया की ये खूबसूरत डिजाइंस

मीनाकारी डिजाइन बिछियाः मीनाकारी डिजाइन देखने में बेहद एलिगेंट लुक देने का काम करता है। इस तरह की बिछिया आप साड़ी से लेकर फैंसी डिजाइन तरह के सूट के साथ में पहन सकती हैं। कलर ऑप्शन में आपको इसमें ग्रीन और मैरून में सबसे ज्यादा डिजाइंस देखने को मिल जाएंगे।

पीकॉक डिजाइन बिछियाः बिछिया में फैंसी डिजाइन ढूंढ रही हैं तो इस तरह के खूबसूरत मोर के डिजाइन का बिछिया को पैरों में पहन सकती हैं। इस तरह की बिछिया आप पैरों की पांचो अंगुलियों में पहन सकती हैं। वहीं, इसमें आपको कई तरह के अलग-अलग साइज भी देखने को मिल जाएंगे।

फ्लोरल डिजाइन बिछियाः फूलों वाली बिछिया देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। इसमें आप चाहें तो एक अंगुली में फूलों वाले डिजाइन के साथ में पत्ती वाले बिछिया को पैरों में पहन सकती हैं। इस तरह की बिछिया खासकर चौड़े पैरों में बेहद खूबसूरत लुक देने का काम करती हैं। आप चाहें तो इनमें स्टोन वाले डिजाइन को भी चुन सकती हैं। स्टोन में आपको अलग-अलग कलर्स देखने को मिल जाएंगे।

गणेश चतुर्थी पर महिलाएं ट्रेडिशनल लुक चाहती हैं और इसके लिए वो बेस्ट आउटफिट की तलाश में होती हैं। गणेश चतुर्थी पर महिलाएं ट्रेडिशनल लुक पाने के लिए साड़ी और सूट वियर करती हैं लेकिन, अगर आप कुछ न्यू ट्राई करना चाहती हैं तो आप ये थ्री पीस सूट स्टाइल कर सकती हैं। ये थ्री पीस सूट गणेश चतुर्थी पर पहनने के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं और इस सूट में आप स्टाइलिश भी नजर आएंगी।

चाहिए ट्रेडिशनल लुक ट्राई करें ये थ्री पीस सूट

एम्ब्रॉयडरी थ्री पीस सूटः अगर आप लाइट कलर में कुछ पहनने का सोच रही हैं तो आप इस तरह के थ्री पीस सूट स्टाइल कर सकती हैं। इस थ्री पीस सूट में एम्ब्रॉयडरी की गई है साथ ही ये जॉर्जेट फैब्रिक में है और इस तरह का थ्री पीस सूट गणेश चतुर्थी पर स्टाइल करने के लिए बेस्ट है। इस तरह का थ्री पीस सूट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगहों से 2000 रुपए में खरीद सकती हैं। इसके साथ आप झुमके साथ ही फुटवियर में फ्लैट्स पहन सकती हैं।

जॉर्जेट थ्री पीस सूटः रॉयल लुक के लिए आप इस तरह जॉर्जेट थ्री पीस सूट भी स्टाइल कर सकती हैं। यह सूट जॉर्जेट फैब्रिक में है और यह सूट गणेश चतुर्थी पर रॉयल लुक पाने के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस तरह के सूट को आप बाजार से ले सकती हैं साथ ही ऑनलाइन भी आपको ये सूट 3000 रुपए में मिल जाएगा। इस सूट के साथ आप मिरर वर्क वाली ज्वेलरी साथ हो फुटवियर में आप मोजरी स्टाइल कर सकती हैं।

प्रिंटेड थ्री पीस सूटः न्यू लुक के लिए आप इस तरह का प्रिंट थ्री पीस सूट भी स्टाइल कर सकती हैं। इस सूट में बेहद ही खूबसूरत प्रिंट बनाया गया है। यह सूट भी आप गणेश चतुर्थी पर पहन सकती हैं और इस सूट को आप बाजार या ऑनलाइन प्लेटफार्म से 2000 तक की कीमत में खरीद सकती हैं। इस सूट के साथ आप कुंदन वर्क वाली ज्वेलरी साथ हो फुटवियर में आप फ्लैट्स पहन सकती हैं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा हमेशा अपनी एक्टिंग को लेकर लोगों के बीच काफी फेमस रहती हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया में इनके लुक्स काफी वायरल हो रहे हैं। यह हर आउटफिट में खूबसूरत दिखती हैं। आजकल इनके वेस्टर्न लुक्स काफी ट्रेंड कर रहे हैं। इसमें वो बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। आप भी इसे ट्राई कर सकती हैं। इससे आपका लुक भी एक्ट्रेस की तरह सुंदर दिखाई देगा। आप अगर पार्टी लुक क्रिएट करने वाली हैं, तो इसके लिए आप बॉडीकॉन स्टाइल

मॉडर्न लुक के लिए क्रिएट करें चित्रांगदा के ये लुक्स

कर सकती हैं। इस तस्वीर में उन्होंने व्हाइट कलर के बॉडीकोन ड्रेस को वियर किया है। इस तरह की ड्रेस में ऊपर की तरफ पर्ल को लगाया गया है। वहीं, बीच में ब्लैक बेल्ट लगाई है। इस ड्रेस के साथ ओपन हेयर स्टाइल और मेकअप लुक क्रिएट कर सकती हैं। इसके अलावा ब्लू कलर तथा ब्लैक ड्रेस लुक में आप भी खूबसूरत दिखाई देंगी। साथ ही, आपको कुछ नया ट्राई करने को मिलेगा। इस तरह की ड्रेस को आप भी डिजाइन करा सकती हैं।

न्यूज ब्रीफ

घर के मालिक को 20 लाख रुपए मुआवजा देगी कंपनी

दीपक पूरी, धर्मशाला। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग धर्मशाला ने शिकायतकर्ता को 6 प्रतिशत ब्याज सहित 18,23,145 रुपए, 10,000 रुपए बतौर मुकदमा खर्च एवं मानसिक उत्पीड़न खर्च 50,000 रुपए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा देने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता, दीपिका थापा, निवासी धर्मशाला ने अपने घर की इंश्योरेंस ली, जिसकी समय अवधि 16 फरवरी 2021 से 15 फरवरी 2031 तक है एवं सम एश्योर्ड 98 लाख रुपए था। 15 अगस्त 2022 को शिकायतकर्ता की रिटेनिंग वॉल भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। 9 सितंबर को इंश्योरेंस कंपनी को इसके बारे में बताया गया। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने जो डैमेज कैलकुलेट किया, जिसका मूल्य 6,35,729 रुपए बताया, जो कि शिकायतकर्ता ने नहीं माना। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग धर्मशाला मे इसकी शिकायत की। उपभोक्ता विवाद निवारण के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, नारायण ठाकुर तथा आरती सूद की खंडपीठ ने कंपनी सर्वेयर की रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए शिकायतकर्ता को 6 प्रतिशत ब्याज सहित 18,23,145 रुपए, 10,000 रुपए बतौर मुकदमा खर्च एवं मानसिक उत्पीड़न खर्च 50,000 रुपए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा देने के आदेश दिए हैं।

शिविर में 350 मरीजों का स्वास्थ्य जांचा

अनंत ज्ञान, डाडासीबा। नागरिक अस्पताल डाडासीबा में मंगलवार को आयुष्मान आरोग्य के सौजन्य से ब्लॉक खंड डाडासीबा में एकदिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एवं पूर्व कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष ठाकुर सुरेंद्र सिंह मनकोटिया ने किया। इस दौरान मुख्यातिथि को खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. पंकज कौंडल ने टोपी व पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। शिविर में देहरा व ज्वालामुखी स्वास्थ्य संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने 350 के लगभग मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की। जांच शिविर के दौरान मरीजों को स्वास्थ्य मेले में दवाई निशुल्क दी गई। वहीं, कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह मनकोटिया ने बताया कि 6 सितंबर को पीर सलूही 10 सितंबर को कस्बा कोटला 19 सितंबर को रककड़ में इसी तरह के स्वास्थ्य शिविर लगेगा। इस मौके पर कुशल सपेहिया, अनुराधा सपेहिया, पुष्पा मिन्हास, उपप्रधान परमेश्वरी दास आदि उपस्थित रहे।

शोधार्थी नवीन शोध के तथ्यों से हुए परिचित

अनंत ज्ञान ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के पंजाबी एवं डोगरी विभाग और पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला के साहित्यिक अध्ययन विभाग की ओर से साहित्यिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। धौलाधार परिसर एक में आयोजित इस कार्यक्रम में पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला व दिल्ली विश्वविद्यालय के 36 शोधार्थी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में प्रो. प्रदीप नायर (अनुसंधान निदेशक) बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो. रोशन लाल शर्मा (अधिष्ठाता भाषा संकाय) ने की। इस कार्यक्रम की शुरुआत में प्रो. खेम राज शर्मा (विभागाध्यक्ष पंजाबी एवं डोगरी विभाग) ने सबका स्वागत किया। उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले पंजाब विवि, पटियाला और दिल्ली विवि के शोधार्थियों का स्वागत किया और कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है की पंजाब विवि, पटियाला भविष्य में भी हमारे विश्वविद्यालय के साथ ऐसे हम कार्यक्रम करवाता रहेगा। इस मौके पर प्रो. नायर ने कहा कि समकालीन समय की जरूरत है कि भारतीय विश्वविद्यालय में संयुक्त रूप में शोध किए जाने चाहिएं। उन्होंने शोधार्थियों को नवीन शोध के कई तथ्यों के संबंध में अवगत कराया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रो. रोशन ने कहा कि पंजाबी एवं डोगरी विभाग सच में अलग प्रवृत्ति के कार्यक्रम करवाता है, जिसमें शोध और शोधार्थियों का विकास होता है।इस कार्यक्रम में प्रो. मल्कियत सिंह, डॉ. हरजिंदर सिंह, डॉ. ललित मोहन शर्मा, डॉ. नरेंद्र पांडे, डॉ. हेमराज बंसल, प्रो.चंद्रकांत सिंह, डॉ. ओमप्रकाश प्रजापति आदि शामिल हुए।

ठोर कृषि सेवा सहकारी सभा का वार्षिक अधिवेशन 10 को

अनंत ज्ञान, गरली। दी ठोर कृषि सेवा सहकारी सभा समिति सचिव परवीण पठानिया ने कहा कि सभा का वार्षिक साधारण अधिवेशन 10 सितंबर को सुबह 11 बजे होना सुनिश्चित हुआ है। इस अधिवेशन कार्यक्रम मे जहां वित्तीय वर्ष 2022-23 का लेखा-जोखा सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, तो वहीं अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सभा के समस्त सदस्यों से आग्रह किया जाता है कि इस अधिवेशन में भाग बढ़-चढ़कर भाग लें।

अंडर-19 जोनल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न

अनंत ज्ञान, जवाली। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पलौहड़ा में चल रही लड़कियों की तीन दिवसीय अंडर-19 जोनल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन समारोह में पलौहड़ा पंचायत प्रधान रघुवीर सिंह भाटिया ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। स्कूल में पहुंचने पर प्रिंसिपल सुखदेव जंबाल सहित खिलाड़ियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। प्रिंसिपल ने बताया कि इस खेलकूद प्रतियोगिता में 30 स्कूलों की 259 प्रतिभागी लड़कियों ने भाग लिया तथा खो-खो, कबड्डी, वॉलीबाल, बैडमिंटन की प्रतियोगिता हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़िया प्रदर्शन किया। कबड्डी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बेहि पठियार विजेता व पनालथ उपविजेता, वॉलीबॉल में सोलदा विजेता व सिद्धपुरघाड़ उपविजेता, खो-खो में बेहि पठियार विजेता व अमनी उपविजेता जबकि बैडमिंटन में डीएवी चलवाड़ा विजेता व जवाली उपविजेता रहा। मुख्यातिथि रघुवीर सिंह भाटिया ने विजेता व उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।

कुपोषण-अनीमिया को दूर करने के लिए जागरूक

अनंत ज्ञान ब्यूरो, धर्मशाला। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने कुपोषण और अनीमिया के खिलाफ लड़ने के लिए फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के महत्व के बारे में जागरूकता अभियान आरंभ किया है। जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति विभाग पुरुषोत्तम ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फोर्टिफाइड चावल, गेहूं आटा, खाद्य तेल एवं नमक राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। नमक की फोर्टिफिकेशन आयोडीन और आयरन मिलाकर की जा रही है व आयरन अनीमिया से रक्षा करता है। आयोडीन मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है तथा घेंघारोग से बचाता है। उन्होंने कहा कि गेहूं आटा की फोर्टिफिकेशन आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन 12 मिलाकर की जा रही है।आयरन अनीमिया से रक्षा करता है, विटामिन 12मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाता है एवं फॉलिक एसिड खून की कमी से रक्षा करता है।

बहुजन समाज को एक मंच पर लाने का होगा प्रयास

अनंत ज्ञान, गरली। आल इंडिया अंबेडकर महासभा हिमाचल प्रदेश जर्नल सैक्टरी सीता राम भाटिया ने मंगलवार को एक बैठक के दौरान कहा कि बहुजन समाज की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सभी संगठनों को एक मंच पर लाने में विफल हुई है, लेकिन हाल ही में इस कंसेप्ट को जमीनी स्तर पर उतरने के संदर्भ में रणनीति बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के अनेक संगठनों के पदाधिकारियों व बुद्धिजीवियों की यहां एक बैठक संपन्न हुई है। वहीं इस दौरान सीताराम भाटिया ने बताया कि सर्व प्रथम बहुजन समाज को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है , क्योंकि बहुजन समाज जाति आधारित संगठनों में बंट गया है। इस बैठक में सीताराम कौंडल, गोपाल सिंह, अनिल कुमार, कुलदीप गहलोज, मस्त राम धरोच आदि ने भाग लिया।

मां-बाप भी बनाएं बच्चों की दैनिक समयसारिणी

अनंत ज्ञान, पालमपुर। पर्यावरण संरक्षण एवं शहीदों के सम्मान के साथ-साथ अब समाज सेवा में समर्पित इंसाफ संस्था विलुप्त हो रही संस्कृति व खत्म हो रहे संस्कारों के ऊपर काम करेगी। इस विषय को लेकर संस्था के अध्यक्ष एवं पालमपुर के पूर्व विधायक प्रवीन कुमार ने हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के निदेशक ललित पंकज (आईएएस) से शिमला में उनके कार्यालय में भेंट की और चर्चा के उपरांत पूर्व विधायक ने चिंता जताते हुए कहा कि हमारे बच्चे सुप्रसिद्ध स्कूलों, कॉलेजों व उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में स्कूल, कॉलेज टाइम टेबल की तरह मां-बाप भी दैनिक समयसारिणी बनाएं। पूर्व विधायक ने चिंता व्यक्त की कि आजकल के बच्चे केवल अपने घर की चारदीवारी तक ही सीमित रह गए हैं।

शिक्षा बोर्ड आठ साल बाद सात कक्षाओं के प्रश्नपत्रों में करेगा बदलाव

परीक्षार्थियों को आंसरशीट के साथ ओएमआर शीट भी दी जाएगी

अनंत ज्ञान ब्यूरो, धर्मशाला

प्रदेश में करीब आठ साल बाद सात कक्षाओं के प्रश्नपत्रों में बदलाव होने जा रहा है, जिसके तहत अब मल्टी च्वाइस प्रश्न बिखरे नहीं होंगे, बल्कि उन्हें एक सेक्शन में रखा जाएगा। यही नहीं परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका के साथ ओएमआर शीट भी दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस संदर्भ में प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने मंगलवार को प्रेसवार्ता में कहा कि प्रदेश के विद्यार्थी विभिन्न कंपटिशन में अच्छा प्रदर्शन करें, इसके लिए बदलाव की जरूरत दिख रही थी।

तीसरी, पांचवीं, आठवीं, नौंवी, दसवीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के प्रश्नपत्रों में बदलाव होने जा रहा है। डॉ. विशाल शर्मा ने बताया कि प्रश्न पत्रों में मल्टी च्वाइस प्रश्न बिखरे होते थे, यानी कुछ सेक्शन-ए व कुछ सेक्शन-बी में होते थे, जिसके चलते परीक्षार्थियों को इन प्रश्नों को हल करने और शिक्षकों को उनका मूल्यांकन करने में दिक्कतें पेश आती थीं। बोर्ड सचिव ने बताया कि अब नए प्रश्न पत्रों में एमसीक्यू की प्रतिशतता में बदलाव नहीं किया है। सभी विषयों के प्रश्न पत्रों में एमसीक्यू प्रश्न केवल सेक्शन में आएंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए आंसरशीट के अलावा ओएमआर शीट दी जाएगी।

डॉ. मेजर विशाल शर्मा, शिक्षा बोर्ड सचिव

राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वही प्रश्न इनमें डाला जा रहा है राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में नालेज और एप्लीकेशन आधारित प्रश्न व हायर टेस्टिंग स्कील प्रश्न पूछे जाते हैं। गौर रहे कि यहां के विद्यार्थी जो बोर्ड परीक्षाओं में तो अच्छी मेरिट प्राप्त कर रहे हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर के कंपटिशन में पीछे रह जाते हैं।

बोर्ड सचिव ने बताया कि करीब 35 फीसदी आसान प्रश्न होंगे। करीब 30 से 35 मोडरेट प्रश्न और लगभग 25 से 30 फीसदी डिफिकल्ट प्रश्न होंगे यानी हर स्तर का विद्यार्थी इन्हें अटेंप्ट करें और पास हो सकें।

एमबीबीएस में स्तुति और सानिया ने कब्जाई सरकारी सीट

राकेश डोगरा, डरोह। पारस पब्लिक स्कूल भवारना ने एक बार फिर शानदार उपलब्धि हासिल की है। विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण पूर्व छात्रा सानिया धीमान और स्तुति मिश्रा ने पीएमटी परीक्षा उत्तीर्ण करके स्कूल को गौरवान्वित किया है। सानिया और स्तुति ने मेहनत और लगन के बल पर यह मुकाम हासिल किया। सानिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में, जबकि स्तुति मिश्रा डॉ. यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में पढ़ाई करेंगी। यह विद्यालय के लिए बड़े गौरव की बात है। निदेशक महेश चंद कटोच, प्रधानाचार्या नीलम राणा और शिक्षकों ने शानदार उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों और उनके माता-पिता को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। (अनंत ज्ञान)

कांग्रेस का सदस्यता अभियान और चुनाव प्रक्रिया शुरू

अनंत ज्ञान ब्यूरो, धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस सदस्यता एवं चुनाव प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। इस चुनाव प्रक्रिया में 18 से 35 वर्ष तक के युवा सदस्यता ग्रहण करने के बाद चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी आईवाईसी ऐप पर उपलब्ध है।

मंगलवार को धर्मशाला में युवा कांग्रेस सदस्यता एवं चुनाव प्रक्रिया के जेडआरओ शिशिर श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि 3 अक्तूबर तक यह प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान ब्लॉक कमेटियां, विधानसभा कमेटियां, जिला अध्यक्ष कमेटियां तथा राज्य महासचिव कमेटियों के नामांकित उम्मीदवारों के चुनाव होंगे। इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव होगा।

इस चुनाव में 18 से 35 वर्ष तक युवा भाग ले सकते हैं और सदस्यता ग्रहण करने के बाद ही इच्छुक सदस्य चुनाव में भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने उम्मीदवार किसी भी नेता का फोटो अपनी प्रचार सामग्री में प्रयोग नहीं कर सकता है। कांगड़ा जोन के अंतर्गत कांगड़ा, चंबा व लाहौल-स्पीति जिला आते हैं। जिला कांगड़ा में अभी जिलाध्यक्ष के लिए 8 आवेदन तथा महासचिव के लिए 3 आवेदन आए हैं। इसी तरह विधानसभा स्तर पर सभी क्षेत्रों से आवेदन आ रहे हैं।

खेल प्रतियोगिता में प्रदान की चिकित्सा सहायता

अनंत ज्ञान, डरोह

मंगलवार को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पुन्नर में आयोजित ब्लॉक-स्तरीय अंडर-19 लड़कियों की खेल प्रतियोगिता में द हंस फाउंडेशन की एमएमयू-3 भवारना टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस दौरान कई युवा खिलाड़ी सांस की समस्याओं, मस्कुलोस्केलेटल चोटों और डिहाइड्रेशन का शिकार हुईं।

इस बीच द हंस फाउंडेशन की भवारना टीम ने त्वरित और प्रभावी चिकित्सा सहायता प्रदान की, जिससे खिलाड़ियों की स्थिति को स्थिर किया गया। उनकी तत्परता और कुशलता के चलते टूर्नामेंट को सुचारु रूप से चलाने में योगदान किया। आयोजकों ने द हंस फाउंडेशन के इस महत्वपूर्ण समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।

फूड फेस्टिवल में बच्चों को पारंपरिक व्यंजनों के दिए टिप्स

पूजन भंडारी, नगरोटा बगवां

जागोरी संस्था द्वारा नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मझेटली गांव में सटे राजकीय माध्यमिक पाठशाला में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पारंपरिक व्यंजनों से रू-ब-रू करवाना रहा। इस कार्यक्रम में जागोरी के संस्थापक आभा भैया नें मुख्यतिथि के रूप में शिरकत की।

गणमान्य अतिथियों में नगरोटा बगवां से समाजसेवी पूजन भंडारी, जागोरी निगरानी समिति सदस्य सूर्यभान, कश्मीर सिंह , डॉ. अनुराग और स्कूल स्टाफ की तरफ से अंजना और अन्य अध्यापक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जागोरी के निगरानी समिति सदस्य और समाज के अन्य लोगों ने पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी में अरबी के पत्तों के पतरोड़े, गुलगुले, भटूरू, खोरु, कोदरे की चाय, लुगड़ी का खट्टा, सीरा और खट्टी भुज्जी आदि शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने बच्चों को पारंपरिक पौष्टिक व्यंजनों को हिमाचल की संस्कृति से जोड़ते हुए इसके महत्व के बारे में बताया।

बताया गया कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। निगरानी समिति सदस्य कश्मीर जी द्वारा पारंपरिक पौष्टिक अनाज मंडल के बारे में बताया कि इसमें कई तरह के विटामिन और खनिज पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को पोषण देते हैं।

पूजन भंडारी ने भी पारंपरिक व्यंजनों को हिमाचल की संस्कृति के साथ जोड़कर इनकी महत्वता के बारे में बताया। सूर्यभान ने बच्चों को कई तरह के विटामिन और खनिज पदार्थ की जानकारी दी। इस अवसर पर अंजना, सोनिका, पूजा, अक्षिता, अनुष्का, शीतल, कमलेश, वंदना, अमित और मस्तराम शामिल रहे। (अनंत ज्ञान)

हैप्पी बर्थडे

जसौर की अनुराधाको जन्मदिन पर 'अनंत ज्ञान' परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

बर्थडे व सालगिरह के फोटो भेजें

बर्थडे हो या शादी की सालगिरह। आपकी खुशियों में हम भी हैं शामिल। अपना फोटो अनंत ज्ञान में प्रकाशित करवाने के लिए नाम और पते सहित व्हाट्सऐप नंबर 88945-21702 पर भेजें।

अवैध माइनिंग करते 3 काबू

अशोक ठाकुर, पठानकोट

पठानकोट के थाना नरोट जैमल सिंह की पुलिस ने अवैध माइनिंग पर कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को देर रात छापामारी कर काबू किया है। तीनों एमएस गरोवर स्टोन क्रशर पर अवैध माइनिंग को अंजाम दे रहे थे कि इतने में माइनिंग विभाग और पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जब उक्त लोगों को माइनिंग करने संबंधी पूछा तो उन्होंने कहा वे एमएस स्टोन क्रशर के कर्मी हैं, जबकि एक टिप्पर चालक मौका देख भागने में सफल हो गया।

थाना प्रभारी अंग्रेज सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान विकास कुमार निवासी तारागढ़, मुकेश कुमार निवासी सरना, बलकार सिंह निवासी बहोवाल चब्बेवाल होशियारपुर के रूप में हुई है, जबकि फरार आरोपी एमएस ग्रोवर स्टोन क्रशर का मालिक और एक अज्ञात व्यक्ति है जिनकी पुलिस तलाश कर रही है।

पुलिस ने दो पोकलेन मशीन और दो टिप्पर भी मौके से बरामद किए है। वहीं, पुलिस ने तीनों आरोपियों समेत अन्य लोगों पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। (अनंत ज्ञान)

मतदान केंद्रों की ड्राफ्ट सूचियां प्रकाशित

अनंत ज्ञान ब्यूरो, धर्मशाला

आपत्ति या सुझाव 8 सितंबर तक कर सकते हैं प्रस्तुत

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कांगड़ा के सभी 15 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों नुरपुर, इंदौरा, फतेहपुर, ज्वाली, देहरा, जस्वां प्रागपुर, ज्वालामुखी, जयसिंहपुर, सुलह, नगरोटा, कांगड़ा, शाहपुर, धर्मशाला, पालमपुर तथा बैजनाथ विस की मतदान केंद्रों की प्रारूप सूचियां (ड्राफ्ट लिस्ट) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 25 के प्रावधानों के अनुसार तैयार कर दी गई हैं।

यह सूचियां जनसाधारण के निशुल्क निरीक्षण के लिए 8 सितंबर तक उपायुक्त कार्यालय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) नुरपुर, इंदौरा, फतेहपुर, ज्वाली, देहरा, ज्वालामुखी, जयसिंहपुर, नगरोटा, कांगड़ा, धीरा, पालमपुर, बैजनाथ तथा जिला की सभी तहसीलों व उपतहसीलों उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट प्रकाशन में मतदान केंद्र का नाम, भवन जिसमें मतदान केंद्र स्थित है, इस बारे सारी जानकारी प्रारूप सूची में दर्शाई गई है।

उन्होंने कहा कि इन मतदान केंद्रों की सूची के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव को उपायुक्त कार्यालय या संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) के कार्यालय में 8 सितंबर तक प्रस्तुत किया जा सकता है। आपत्तियों और सुझावों का निपटारा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 12 सितंबर तक किया जाएगा।

सोशल प्लेटफॉर्मस का प्रयोग करते समय बरतें सजगता

जितेंद्र कौशल, बैजनाथ। खंड विकास कार्यालय के सभागार बैजनाथ में डिजिटल जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता तहसीलदार रमन ठाकुर ने की। तहसीलदार ने कहा कि सोशल प्लेटफॉर्मस के उपयोग से हमारा जीवन सुगम होने के साथ-साथ हमें दुनिया भर की जानकारी एक क्लिक पर प्राप्त हो रही है और इन्हीं माध्यमों से हम प्रतिदिन पैसों का लेन-देन भी कर रहे हैं। सरकारें भी लोगों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रेरित कर रही हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमें सोशल प्लेटफॉर्मस के प्रयोग करते समय सजगता और विवेक का उपयोग करना चाहिए, ताकि साइबर फ्रॉड से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि सोशल प्लेटफॉर्म एप्स का उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं और यह समाज के दिनचर्या का हिस्सा बन गये हैं। उन्होंने कहा कि सोशल प्लेटफॉर्म पर साइबर ठगों की भी नज़र बनी रहती है और नयें नयें तरीके अपनाकर लोगों को जाल में फंसाकर शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल साक्षरता लोगों के बहुत जरूरी है। उन्होंने लोगों से भी साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सजग रहने की अपील की।

मार्चपास्ट में नगरोटा स्कूल की लड़कियां फर्स्ट

अनंत ज्ञान, नगरोटा बगवां। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा में तीन दिवसीय जोनल स्तरीय अंडर-19 गर्ल्स टूर्नामेंट का समापन हुआ। विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष प्रदीप बेदी ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। प्रधानाचार्य दीपक मनु ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में 25 विद्यालयों के स्टूडेंट्स ने भाग लिया जिसमें कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन और वॉलीबाल प्रतियोगिताएं हुईं। वॉलीबॉल में सरोत्री स्कूल विजेता, खो-खो में सेराथाना स्कूल विजेता, कबड्डी में उपली कोठी स्कूल विजेता बना। मार्चपास्ट में ब्वॉयज स्कूल की लड़कियां विजेता रहीं। मुख्यातिथि नें विजेता बच्चों को ट्राफी देकर सम्मानित किया।

वकीलों ने जिलाधीश को बताई मांगें

अनंत ज्ञान, पठानकोट

बार एसोसिएशन पठानकोट की ओर से मंगलवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधान विनोद धीमान ने की। इस मौके पर बतौर मुख्यातिथि जिलाधीश आदित्य उप्पल तथा डिस्ट्रिक सेशन जज जतिंद्रपाल सिंह खुरमी ने शिरकत की। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की ओर से उनका स्वागत किया गया।

इस मौके पर विनोद ने बताया कि इस बैठक को आयोजित कि जाने का मुख्य उद्देश्य जिला प्रशासनिक अधिकारियों तथा बार के अधिकारियों के बीच आपसी समन्वय को कायम करना है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में बार एसोसिएशन की ओर से अपनी मांगों के संबंध में जिलाधीश को अवगत करवाया गया है तथा मांग पत्र सौंपा गया है। इस मौके पर एडवोकेट एमएस ठाकुर, एडवोकेट सतीश सैनी, एडवोकेट राजदीप सिंह, एडवोकेट ज्योति पाल के अतिरिक्त अन्य ने भी अपने विचार रखे।

कबड्डी में सेंट मेरी स्कूल बना विजेता

अनंत ज्ञान, जदरांगल। श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम मंदिर में राजकीय उत्कृष्ट विद्यालय जदरांगल में अंडर-19 छात्राओं की खेलों का समापन पदर पंचायत के उपप्रधान बॉबी गोस्वामी के द्वारा संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में 17 स्कूलों के 165 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कबड्डी में सेंट मैरी स्कूल,बैडमिंटन में जीडी गोयनका, खो-खो में बरवाला स्कूल, वॉलीबाल में कनेड स्कूल की टीम विजेता रही। इस दौरान विजेताओं को मुख्यातिथि ने ट्रॉफी और मोमेंटो प्रदान किए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य विजय अवस्थी ने मुख्यातिथि एवं उनके साथ आए हुए गांव के गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत और आभार व्यक्त किया। ओवरऑल ट्रॉफी बरवाला स्कूल के नाम रही।

चुनौती होगा राजनीतिक दखल से दूर जमीन से जुड़े नेताओं का चुनाव

अनंत ज्ञान ब्यूरो, धर्मशाला

यूथ कांग्रेस के चुनावों को लेकर इसमें स्थानीय विधायकों समेत मुख्यमंत्री तक की कोई सक्रिय भागीदारी नहीं रहेगी। बता दें कि अतीत में भी चाहे पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह हों या दिग्गज दिवंगत नेता तथा पूर्व मंत्री स्व. जीएस बाली हों, राजनीतिक हस्तक्षेप युवा कांग्रेस के चुनावों में हमेशा रहा है।

ऐसे में अब लीक से हटकर युवा कांग्रेस, ग्राउंड लेबल के कार्यकर्ताओं को यूथ कांग्रेस की ओहदेदारी देना चाहती है। इसको लेकर यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ प्रदेश कांग्रेस से भी किसी तरह का हस्तक्षेप या दबाब न बनाने की मांग कर चुके हैं। इस बारे में चुनावों के जोनल रिटर्निंग अफसर तथा यूथ कांग्रेस नेता शिशिर श्रीवास्तव खुद बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के राजनीति में आए हैं। इसके अलावा कांग्रेस चाहती है कि पैराशूट से एंट्री की बजाय जमीनी स्तर के नेताओं के पास यूथ कांग्रेस की ओहदेदारी रहे।

युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों की मानें तो राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सोच है कि कांग्रेस से जमीनी स्तर पर जुड़े तथा कर्मठ कार्यकर्ता युवा कांग्रेस में पदाधिकारी के रूप में कार्य करें। इसी सोच के चलते कांग्रेस ने अपने विधायकों तथा खुद मुख्यमंत्री तक से इन चुनावों में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से परहेज करने की बात साफ कही है। हालांकि, सच्चाई यह है कि पार्टी कोई भी हो, लेकिन सत्ता पक्ष या पार्टी के बड़े नेताओं का सीधा हस्तक्षेप ऐसे चुनावों में रहता है, ताकि अपने खास सिपहसालारों की ताजपोशी करवाई जा सके। यूथ कांग्रेस के अनुसार बड़े नेताओं के हस्तक्षेप तथा दवाब से दूर, इस बार उनके पास निष्पक्ष तथा साफ-सुथरे चुनाव करवाना अहम जिम्मेदारी है।

सरल संस्कृत संभाषण शिविर संपन्न

अनंत ज्ञान, गरली। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के बलाहर स्थित वेद ब्यास परिसर की सरल मानक संस्कृत अनुष्ठान समिति, आंतरिक गुणवत्ता प्रत्यायन प्रकोष्ठ एवं परिसरीय समस्त विभागों के संयुक्त तत्वावधान में विगत दस दिनों से चल रहे सरल संस्कृत संभाषण शिविर का मंगलवार को समापन हो गया। यह शिविर नए विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया, जिससे वे संस्कृत संभाषण में निपुण हो सकें। गौरतलब है कि समय-समय पर सरल मानक संस्कृत अनुष्ठान समिति परिसर में संस्कृत संभाषण शिविरों का आयोजन करती रहती है। समारोह में मुख्यातिथि के रूप में शिक्षा शास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रो. शीशराम आदि ने शिरकत की। वहीं सारस्वतातिथि के रूप में व्याकरण विभागाध्यक्ष डॉ. श्रीनाथधर द्विवेदी उपस्थित रहे।

हालात स्टाफ तथा सुविधाओं की कमी से प्रदेश खेलों में पिछड़ा

प्रदेशभर में कोचों के 46 पद खाली

पुनीत शर्मा, धर्मशाला

एक और तो सरकार खेलों को बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन स्टाफ तथा सुविधाओं की कमी के कारण प्रदेश खेलों में पिछड़ा नजर आता है। खेल विभाग का धर्मशाला कार्यालय अपने निर्माण के करीब 37 साल बाद भी उस समय के मंजूर पदों से काम चला रहा है तो वहीं ऐसे ही हालात कमोबेश पूरे प्रदेश में हैं।

प्रदेश में कोच के 100 पदों में से 46 लंबे अरसे से रिक्त पड़े हैं। ऐसे में खेलों को बढ़ावा देने की बातें महज दावा ही दिखती हैं। पूरे प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को निखारने में मात्र 54 कोच ही प्रदेश में कार्यरत हैं। इसके अलावा दूसरे पदों की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है। हालांकि, हाल ही में रिक्त पदों को भरने के लिए खेल विभाग ने एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो प्रदेश में रिक्त पड़े पदों पर कोच आउटसोर्स पर रखे जाएंगे।

विभागीय तथा खेलों से जुड़े सूत्रों की मानें तो आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से भरे जाने वाले पद खिलाड़ियों के भविष्य से खिलवाड़ से ज्यादा कुछ नहीं। बता दें कि आउटसोर्स कोच को मिलने वाला वेतन कम होता है, जिससे कि सक्षम कोच नहीं मिल पाते। इसका सीधा खामियाजा प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को भुगतना पड़ता है।

क्या कहते हैं सहायक निदेशक

उधर, इस संदर्भ में जब खेल विभाग के शिमला स्थित सहायक निदेशक हितेश आजाद से संपर्क किया गया तो उन्होंने कि रिक्त पड़े कोच के पदों को भरने के लिए एचपीएसईडीसी को प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इन पदों को भरा जाएगा।

न्यूज ब्रीफ

डॉ. सुरेंद्र ने पौधा रोप दिया पर्यावरण का संदेश

अतुल, सुजानपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जंगलबैरी में ब्लॉक सतर की अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जंगलबैरी के इंचार्ज व हमीरपुर मेडिकल ऑफिसर एसोशिएसन के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा विशेष अतिथि क तौर पर शामिल हुए। डॉ. सुरेंद्र सिंह डोगरा ने इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए स्कूल परिसर में अशोक वृक्ष का पौधा लगाया। डॉ. सुरेंद्र डोगरा ने खेलों में भाग लेने वाले बच्चों को संबोधित करते कहा कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, जिन्हें नशे से दूर रहना चाहिए। इस दौरान उन्होंने बच्चों के लिए अपनी तरफ से प्रिंसिपल बलदेव सिंह राणा को 1100 रुपए भेंट किए। (अनंत ज्ञान)

हैप्स हीरानगर की छात्रा भाषण में प्रथम

अनंत ज्ञान, हमीरपुर। भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा राजभाषा हिंदी पखवाड़ा-2024 के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया, जिसमें लगभग 60 विद्यालय के प्रतिभागियों को चुनौती देते हुए हिम अकादमी पब्लिक स्कूल हीरानगर की होनहार छात्राओं अरिजिता राय व अनुष्का ने एक बार पुनः अपनी विजय का परचम लहराया। हिंदी भाषण प्रतियोगिता में कक्षा दसवीं की अरिजिता राय शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता में कक्षा दसवीं की छात्रा अनुष्का ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इन दोनों छात्राओं का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। विद्यालय प्राचार्य शशि वाला ने विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों को भी इनसे प्रेरणा लेने की सीख दी।

छात्रों को अनीमिया के प्रति किया जागरूक

वीरेंद्र गोस्वामी, बड़ा। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 अभियान के अंतर्गत आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर बड़ा द्वारा आज दुर्गा सिंह स्मारक सीसे विद्यालय बड़ा के विद्यार्थियों क्रो अनीमिया बीमारी के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान केंद्र प्रभारी डॉ. दिनेश भाटिया ने छात्रों को बताया कि बच्चों में किशोरवस्था में आयरन की कमी होने से अनीमिया बीमारी फैलती है। अतः इस बीमारी से बचाव हेतू प्रायः बच्चों क्रो संतुलित अहार का सेवन करवाना, प्रतिदिन व्यायाम तथा योग करना, आयरन मात्रा प्रचुर अहार सेवन जैसे सोयावीन, पालक, चौलाई, गुड़, सेब, केला आंवला का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए।

पोषण पखवाड़ा में पोषण के 5 सूत्र बताए

टौणी देवी। आंगनबाड़ी केंद्र झनिक्कर में पोषण पखवाड़ा दिवस मनाया गया जिसमें मातृ शक्ति व धात्री महिलाओं ने भाग लिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुसुमलता ने सबको पोषण के 5 सूत्र बताए जिसके तहत गर्भावस्था से आगामी 1000 दिन तक स्वास्थ्य के लिए पोषण युक्त भोजन करना है। इस अवसर पर सहायिका पूनम कुमारी, बच्चे व महिलाएं उपस्थित रही।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए विशाल का चयन

अनंत ज्ञान, नादौन। भाषा एवं संस्कृति विभाग हमीरपुर द्वारा आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल नादौन के 12वीं कक्षा के छात्र विशाल कुमार महतो ने निबंध लेखन में प्रथम स्थान हासिल किया। स्कूल के प्रिंसिपल दिले मोहम्मद पोसवाल ने बताया कि कि जिला स्तरीय हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता में विजेता रहे स्कूल के विशाल कुमार महतो का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जिससे खुशी का महौल है।

डीएवी स्कूल भड़ोली में एनएसएस शिविर शुरू

अनंत ज्ञान, नादौन। डीएवी स्कूल भड़ोली में सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के शिविर का शुभारंभ हो गया है। शिविर की अध्यक्षता स्कूल के प्रिंसिपल सुरजीत कुमार राणा ने की। इस अवसर पर स्वयंसेवियों ने राष्ट्रीय सेवा योजना का गीत, देशभक्ति गीत और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। शिविर में स्कूल के प्रिंसिपल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम अधिकारी नवीन शर्मा ने शिविर की जानकारी दी। मुख्य अतिथि ने स्वयंसेवियों को समाज सेवा कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि यह शिविर 3 से 9 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। शिविर में स्वयंसेवी स्कूल परिसर और साथ लगते परिक्षेत्र के रास्तों व मंदिर इत्यादि की सफाई करेंगे। शिविर में परेड, व्यायाम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां करवाई जाएंगी। इस अवसर पर स्वयंसेवी और अन्य उपस्थित रहे।

सुराह की महिलाओं ने सीखे जूट के बैग बनाना

अनंत ज्ञान, हमीरपुर। पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान (आरसेटी) हमीरपुर की ओर से तहसील टौणी देवी के गांव सुराह में आयोजित महिला उद्यमी प्रशिक्षण शिविर मंगलवार को संपन्न हो गया। इस शिविर में गांव की 32 महिलाओं ने जूट के बैग बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिविर के समापन अवसर पर संस्थान के निदेशक अजय कुमार कतना, फैकल्टी मेंबर विनय चौहान और अन्य अधिकारियों ने प्रतिभागी महिलाओं का मार्गदर्शन किया तथा उन्हें अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। एसके राणा और हरबंस लाल ने शिविर की प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया। स्थानीय पंचायत प्रधान रीना सिपहिया ने आरसेटी प्रबंधन का आभार व्यक्त किया।

छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक

वीरेंद्र गोस्वामी, बड़ा। हंस फाउंडेशन द्वारा दुर्गा सिंह स्मारक राजकीय विद्यालय बड़ा में आज स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय की प्रिंसिपल अंजना कोंडल ने बताया कि इस कार्यक्रम में डॉ. शिवानी, एसपीओ स्नेह लता, लैब टेक्नीशियन शबनब, फार्मासिस्ट अमित आदि टीम ने लड़कियों को मासिक धर्म स्वच्छता एनीमिया,प्रोटीन डाइट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर स्कूल के वाइस प्रिंसिपल प्रदीप वालिया अनु कुमारी आदि स्कूल स्टाफ भी उपस्थित रहा।

पेंशन अविलंब खाते में डाले सरकार : मनोहर

हमीरपुर। पेंशनर्स वैल्फेयर एसोसिएशन हमीरपुर के महासचिव मनोहर लाल कानूनगो ने कहा कि वर्तमान समय में पेंशनर्स को उनकी पेंशन का न मिलना पेंशनर्स के साथ अन्याय है क्योंकि उम्र के इस अंतिम पड़ाव में बुजुर्गों को पैसे की नितांत आवश्यकता होती है। मनोहर लाल कानूनगो ने प्रदेश की सरकार से आग्रह किया है कि पेंशनर्स की पेंशन अविलंब उनके खातों में डाली जाए क्योंकि उनका सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है।

डीसी ने उद्यमियों, ठेकेदारों और मकान मालिकों को दिए बाहरी कामगारों के पंजीकरण के निर्देश

बिना पंजीकरण के बाहरी कामगार रखने वाले मकान मालिक और ठेकेदारों के खिलाफ होगी कार्रवाई

अनिल कुमार, हमीरपुर

जिला में किसी भी तरह की वारदात या घटना को रोकने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी अमरजीत सिंह ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी तौर पर रह रहे प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी-फड़ी एवं फेरी वालों और अन्य बाहरी कामगारों को पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है।

जिला दंडाधिकारी ने अधिसूचना जारी करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत बाहरी कामगारों को काम पर रखने वाले उद्यमियों, कारोबारियों, ठेकेदारों, किसानों और अन्य लोगों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कामगारों का फोटो सहित पूरा विवरण देकर नजदीकी पुलिस थाने में पंजीकरण सुनिश्चित करें।

जिला दंडाधिकारी ने बाहरी श्रमिकों, रेहड़ी-फड़ी एवं फेरी वालों तथा अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे बाहरी लोगों के लिए भी नजदीकी पुलिस थाने में अपना पंजीकरण करवाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों को भी हिदायत दी है कि वे अपना मकान बाहरी लोगों को किराये पर देने से पहले किरायेदारों की पहचान एवं पंजीकरण सुनिश्चित कर लें। जिला दंडाधिकारी के इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले बाहरी कामगारों, उनके नियोक्ताओं और मकान मालिकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कार्रवाई हो सकती है। ये आदेश 29 अक्तूबर तक लागू रहेंगे।

जिला दंडाधिकारी ने बताया कि जिला हमीरपुर में बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से श्रमिक, रेहड़ी-फड़ी एवं फेरी वाले और अन्य लोग काम करने आते हैं। ये लोग किराये के मकानों में या विभिन्न निर्माण स्थलों पर अस्थायी रूप से रहते हैं। उन्होंने कहा कि जिला में कोई भी वारदात या अन्य कोई अप्रिय घटना की स्थिति में तथा इनमें बाहरी लोगों की संलिप्तता होने पर पुलिस को अक्सर जांच करने में काफी दिक्कत होती है।

इसको देखते हुए जिला में अस्थायी तौर पर रह रहे बाहरी लोगों का नजदीकी पुलिस थाने में पंजीकरण बहुत जरूरी है। उन्होंने सभी जिला वासियों और जिला में अस्थायी तौर पर रह रहे बाहरी कामगारों से सहयोग की अपील की है। (अनंत ज्ञान)

अब गैस सिलेंडर वाहनों में होगी भारतोलक मशीन और लाउडस्पीकर

एडीएम राहुल चौहान ने जिले की सभी 10 गैस एजेंसियों को दिए निर्देश

अनंत ज्ञान, हमीरपुर

हमीरपुर जिले की सभी दस गैस एजेंसियों को उपभोक्ताओं की सुविधा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एडीएम राहुल चौहान ने सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडरों की सप्लाई करने वाले हर वाहन में भारतोलक मशीन और लाउडस्पीकर होने चाहिए। राहुल चौहान ने कहा कि गैस सिलेंडर का वजन करें तथा उपभोक्ता की संतुष्टि के बाद ही इसे वितरित करें।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश-1977 के तहत 7 सितंबर 2022 को जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार घरेलू गैस वाहनों में भारतोलक मशीन अनिवार्य की गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की विभिन्न समितियों ने भी प्रत्येक घरेलू गैस वाहन में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। एडीएम ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी का वजन 14.2 किलोग्राम होता है तथा खाली सिलेंडर का वजन भी सिलेंडर पर अंकित होता है। सभी गैस सिलेंडर वाहनों में लाउड स्पीकर अवश्य होने चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर सप्लाई वाहन की जानकारी मिल सके।

गैस सप्लाई वाहन में लाउड स्पीकर न होने पर कई बार ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता सिलेंडर से वंचित रह जाते हैं। एडीएम ने सभी एलपीजी विक्रेताओं को कैश मैमो में सिलेंडर रिफिल का मूल्य, भाड़ा और डोर डिलीवरी की दरें अलग-अलग दर्शाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग और माप-तोल विभाग के अधिकारियों को गैस सप्लाई के वाहनों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए।

फोरम पेंशनरों के हितों की लड़ाई अपने बलबूते लड़ने में सक्षम : खरवाड़ा

शशि सोनल, नादौन

बिजली बोर्ड पेंशनर फोरम की बैठक नादौन में हुई जिसकी अध्यक्षता इकाई के अध्यक्ष राज कुमार चौधरी ने की। बैठक में सचिव विधी चंद सनोरिया, कोषाध्यक्ष पृथ्वी चंद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भक्त राम सहित काफी संख्या में पेंशनर्स ने हिस्सा लिया।

बैठक में आम सहमति के साथ निर्णय लिया गया कि पेंशनर्स के वित्तीय

लाभों के अदायगी को लेकर बिजली बोर्ड पेंशनर फोरम न्यायालय में नहीं जाएगा क्योंकि बिजली बोर्ड पेंशनर फोरम पेंशनरों के हितों की लड़ाई अपने बलबूते पर लड़ने में सक्षम है। (अनंत ज्ञान)

केंद्रीय विद्यालय परिसर में मारपीट को लेकर 4 नाबालिगों से पूछताछ

अनंत ज्ञान, हमीरपुर

केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर में 31 अगस्त को गुंडागर्दी करने वाले आरोपियों की पहचान पुलिस ने कर ली है, अब पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। बता दें कि केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर में 31 अगस्त को कुछ छात्रों के साथ बाहरी युवकों ने मारपीट की थी। इस मामले की लिखित शिकायत केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य सुनील चौहान ने सदर पुलिस थाना हमीरपुर में की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 नाबालिग आरोपियों की पहचान कर थाना सदर हमीरपुर में पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक भगत सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रधानाचार्य की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 4 नाबालिग आरोपियों से सदर थाना हमीरपुर में पूछताछ की जा रही है और आगामी कार्रवाई की जा रही है।

छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवकों के खिलाफ मामला दर्ज

हमीरपुर। केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर की एक छात्रा ने लिखित शिकायत महिला थाना हमीरपुर में की है जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि वह 11वीं कक्षा की छात्रा है और 31 अगस्त को दिन के समय वह अपनी एक सहपाठिन छात्रा के साथ ट्यूशन पढ़ने जा रही थी तो रास्ते में एक लड़का जिसका नाम इशांत ठाकुर तता, जिसके साथ 8-10 लड़के और थे, उन्होंने पीड़िता को अपशब्द कहे तथा पीड़िता की तरफ देख कर हंसने लगा। उसी समय उसके साथ जो अन्य 8-10 लड़के थे, वे भी पीड़िता को जोर-जोर से अपशब्द कहने लगे, सीटीयां बजाने लगे, जोर-जोर से हंसने लगे व तालियां बजाने लगे तथा उनका पीछा करते हुए ट्यूशन सेंटर तक पहुंच गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह ने बताया छात्रा कि लिखिल शिकायत पर महिला थाना हमीरपुर में अपशब्द कहने व पीछा करने का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है।

कांग्रेस सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन से हिमाचल बेहाल: अनुराग ठाकुर

अनंत ज्ञान, हमीरपुर

पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में राज्य के कर्मचारियों व पेंशनर्स को सैलरी न मिलने पर रोष जताते हुए इसे कांग्रेस सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन का दुष्परिणाम बताया है। अनुराग ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये सिर्फ बड़ी बातें करना जानते हैं, सरकार चलाना इनके बस के बाहर की चीज है। हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को पहली तारीख को न सैलरी और न ही पेंशन मिली है। हम समझ सकते हैं कि सैलरी न मिलने से कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन बहुत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि एक कर्मचारी व पेंशनर्स के लिए उसकी सैलरी ही महीने के खर्च का साधन होती है। घर खर्च, ईएमआई, मेडिकल से लेकर स्कूल फीस आदि तक सब कुछ के लिए कर्मचारी व पेंशनर्स सैलरी की बाट जोहते हैं, मगर कांग्रेस सरकार की निक्कमेपन के चलते आज उन्हें ये दिन भी देखना पड़ रहा है।

कांग्रेस का कार्यकाल अहंकार और अन्याय भरा

आज हिमाचल एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। अनुराग ने कहा कि कांग्रेस की बेसिरपैर की नीतियां, बेहिसाब खर्च, बेतुकी नियुक्तियां, मित्रों को मालामाल करने की सनक ने आज प्रदेश को बदहाल करके छोड़ा है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 20 महीने से चल रहा कांग्रेस का कार्यकाल अराजकता, अहंकार और अन्याय भरा रहा है।

सहकारी सभा सचिव के साथ की गई मारपीट पर डिपो संचालक समिति ने लिया कड़ा संज्ञान

अनंत ज्ञान, हमीरपुर। हाल ही में धर्मशाला शहरी ऋण व बचत सहकारी सभा की प्रबंधन समिति द्वारा सभा के सचिव के साथ की गई मारपीट को लेकर प्रदेश डिपो संचालक समिति ने कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में ऐसी घटना पहली बार नहीं घटी सभाओं की प्रबंधन समितियां अक्सर सभाओं के कर्मचारियों जिनमें सभा के सचिवों व विक्रेताओं तथा सभा के अन्य कर्मचारियों को प्रताड़ित करती आई हैं। उन्होंने कहा कि सहकारी सभा के सचिव के साथ प्रबंधन समिति द्वारा की गई मारपीट का मामला अति शर्मनाक व निंदनीय है। सहकारिता विभाग को इस मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए उक्त सभा की प्रबंधन समिति को बर्खास्त करके जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए ताकि प्रदेश की किसी भी सहकारी सभा की प्रबंधन समिति दोबारा ऐसा कृत्य करने का एहसास न कर पाए।

गलोड़ में खंड स्तरीय अंडर-19 खेलें शुरू

अशोक कुमार, गलोड़

नादौन खंड की अंडर-19 छात्रों की तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गलोड़ में शुरू हुई। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रेमचंद ने किया। इस प्रतियोगिता में 28 स्कूलों के 387 छात्र भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता से विजेता और उपविजेता खिलाड़ी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे।

मंगलवार को कबड्डी मैच में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जलाड़ी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भूंपल को 42-32 से हराया। कबड्डी के दूसरे मुकाबले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सेरा ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक माध्यमिक बड़ा को 34-29 से हराया। वॉलीबाल के मुकाबले में को लोअर हरेटा ने सनाई को और बदारन ने बाल गुरुकुल कांगू को हराया।

इस प्रतियोगिता के संयोजक प्रदीप ठाकुर और संयोजक अजय कुमार हैं। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सुरेंद्र पाल शर्मा ने कहा कि स्वस्थ शरीर और दिमाग को विकसित करने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के युवा नेता आशीष ठाकुर, पूर्व प्रधान राजीव बिट्टू, शमशेर गर्ग बालक राम आदि ने भी शिरकत की। एडीपीओ राकेश कु मार ने कहा कि खेलों से विद्यार्थियों में अनुशासन बना रहता है। (अनंत ज्ञान)

खंड स्तरीय प्रतियोगिता के शुभारंभ पर मंच पर बैठे गणमान्य।

सीएम को वित्तीय विफलता पर देना चाहिए त्यागपत्र

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पेंशनरों को पेंशन न मिलना व कर्मचारियों का वेतन विलंबित होना वर्तमान सरकार की प्रत्यक्ष विफलता है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सिंह भरमौरिया ने कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अब प्रदेश में वित्तीय अव्यवस्था से उपज रही स्थिति से पूरी सुख्खू पूरी तरह से बौखला गए हैं। भरमौरिया ने कहा कि इससे कर्मचारियों में रोष है। मुख्यमंत्री सुक्खू को इस विफलता पर नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए।

जल शक्ति विभाग की दो परियोजनाओं की मेन पाइप भूस्खलन से क्षतिग्रस्त

अनंत ज्ञान, हमीरपुर। भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने के कारण पेयजल पाइप टूट गई है, जिससे जल शक्ति विभाग को लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पेयजल आपूर्ति की मेन पाइपलाइन टूटने के कारण लगभग 7 ग्राम पंचायतों की पेयजल आपूर्ति आंशिक रूप से बाधित रहेगी। जल शक्ति विभाग के हमीरपुर उपमंडल के सहायक अभियंता राकेश सोनी ने बताया कि गांव चैरी के पास पनोह नाले में भूस्खलन के कारण मेन पाइप लाइन के टूट गई है। उन्होंने बताया कि पेयजल आपूर्ति की मेन पाइप लगभग 250 मीटर क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसे फिर से रिस्टोर करने में दो दिन लग जाएंगे। उन्होंने बताया कि व्यास नदी से पेयजल आपूर्ति करने वाली दो बड़ी पेयजल योजनाओं की मेन पाइनलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है जिसके कारण ग्राम पंचायत काले अंब, नाड़सीं, बफड़ीं, लंबलू, पंतेड़, भरठयाण और दरोगण पत्ती कोट में पानी की सप्लाई आंशिक रूप से बाधित रहेगी।

बेला और टिल्लू खास में टीसीपी एक्ट के उल्लंघन पर दो लोगों को नोटिस जारी

अनंत ज्ञान, नादौन। उपमंडल नादौन के राजस्व मुहाल बेला और टिल्लू खास में हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम-1977 के उल्लंघन के दो अलग-अलग मामलों का कड़ा संज्ञान लेते हुए नादौन स्थित नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) कार्यालय ने दो लोगों को नोटिस जारी किए हैं। मुहाल बेला में अवैध निर्माण एवं टीसीपी एक्ट के उल्लंघन के मामले में पहले भी एक नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के बावजूद उक्त निर्माण को नहीं हटाया गया है। अब नियोजन अधिकारी ने एक बार फिर नोटिस जारी करते हुए उक्त निर्माण कार्य को तुरंत रोकने तथा वहां से सभी तरह की निर्माण सामग्री एवं श्रमिकों को हटाने के निर्देश दिए हैं। उधर, राजस्व मुहाल टिल्लू खास में भी जारी एक निर्माण कार्य पर नियोजन अधिकारी ने नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के भीतर उक्त कार्य को रोकने तथा जमीन पर पहले की स्थिति बहाल करने के आदेश दिए हैं। नोटिस की अनुपालना न करने पर टीसीपी विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

बगवाड़ा में आरंभ हुई खंड स्तरीय अंडर-19 खेल प्रतियोगिता

अनंत ज्ञान, जाहू

टौणी देवी खंड के छात्रों की अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता मंगलवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगवाड़ा में आरंभ हुई। कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य रोशन लाल शर्मा ने ध्वजारोहण के साथ इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में 18 विद्यालयों के लगभग 227 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।

इस अवसर पर सभी प्रतिभागी खिलाड़ियोंए टीम प्रभारियों और आयोजन समिति को शुभकामनाएं देते हुए रोशन लाल शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में खेलों का बहुत महत्व होता है, इसलिए सभी बच्चों को इनमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में आधुनिक सुविधाओं के प्रावधान और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट मंजूर किया है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य प्रकाश चंद ने मुख्य अतिथि, अन्य अतिथियों, टीम प्रभारियों और सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का स्वागत किया तथा प्रतियोगिता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय बन्याल, किशोरी लाल, मानिक शाह, सुदेश कुमारी, एनआईएस कोच तिलक राज, प्रतियोगिता के समन्वयक राजेश ठाकुर, सहायक समन्वयक होशियार सिंह, एसएमसी अध्यक्ष संतोष कुमारी और अन्य गणमान्य उपस्थित थे। (अनंत ज्ञान)

ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का शुभारंभ करते रोशन लाल शर्मा।

भाजपा समीरपुर से आज से शुरू करेगी सदस्यता अभियान : देश राज शर्मा

अनंत ज्ञान, हमीरपुर। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सितंबर से देशभर में अपना सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा ने कहा कि प्रदेश में भी इस अभियान की शुरुआत 3 सितंबर से शुरू हुई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिला के सदस्यता अभियान की शुरुआत 4 सितंबर से समीरपुर से शुरू करने जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर एकदिवसीय प्रवास पर 4 सितंबर को हमीरपुर में होंगे। अनुराग ठाकुर सर्वप्रथम प्रातः 10 बजे समीरपुर में जिला स्तरीय भाजपा सदस्यता अभियान कार्यक्रम में सदस्यता ग्रहण कर इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस कार्यक्रम के तुरंत बाद प्रातः 11.30 बजे भोरंज विधानसभा के भरेड़ी में कार्यकर्ता बैठक करेंगे। इसके बाद अनुराग सिंह ठाकुर दोपहर 3 बजे टौणी देवी में कार्यकर्ता बैठक करेंगे।

आयोजन अंडर-19 लड़कों की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में दूसरे दिन बारिश ने डाला खलल

वॉलीबाल के सेमीफाइनल में भुक्कड़ और बाहन्वीं स्कूल भिड़ेंगे

अनंत ज्ञान, भोरंज

मुख्यमंत्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोरंज में चल रही अंडर-19 लड़कों की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने अच्छे खेल की बदौलत जीत दर्ज की। वॉलीबाल के खेल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जाहू के खिलाड़ियों ने शांति निकेतन पब्लिक स्कूल भरेड़ी को 2-0 से पराजित करके मैच को जीता।

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खरवाड़ में पट्टा स्कूल को तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला महल के खिलाड़ियों ने मुंडखर को पराजित किया। इसी तरह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाहन्वीं ले नवविभोर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुलगवान को पराजित किया। इसके अलावा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भुक्कड़ और खरवाड़ के बीच कांटे का मुकाबला हुआ। इसमें भुक्कड़ स्कूल के खिलाड़ियों ने खरबाड़ को 2-1 से परजित करके सेमीफाइनल में जगह बनाई। खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में समन्वयक चमन लाल, अनिल कुमार व जगदीश चंद डीइपी ने बताया कि बैडमिंटन के मुकाबले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बडैहर ने सांई पब्लिक स्कूल उखली को हराया, नव विभोर स्कूल सुलगवान ने भुक्कड़ को, मेजबान भोरंज ने अमरोह को पराजित करके जीत दर्ज की। कबड्डी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लदरौर ने डिडवीं टिक्कर को 54-24 के अंतर से पराजित किया।

इसी तरह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ताल के खिलाड़ियों ने सांई पब्लिक स्कूल उखली को 44-20 के अंतर से जीत दर्ज की। एक अन्य मुकाबले में मेजबान मुख्यमंत्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोरंज और पट्टा का कांटेदार मुकाबला हुआ। बारिश के कारण मैच को बीच में ही रोकना पड़ा। उस समय दोनों टीमें 9-9 के अंक से बराबर थी। बारिश के कारण सभी मुकाबले नहीं हो सके।

भोरंज व पट्टा स्कूल के खिलाड़ी प्रधानाचार्य अनिल, समन्वयक चमल व अन्य के साथ।

एसडीएम करेंगे खेलकूद प्रतियोगिता का समापन

मुख्यमंत्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोरंज के प्रधानाचार्य अनिल डोगरा ने बताया कि तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन 4 सितंबर को 11 बजे भोरंज एसडीएम संजय स्वरूप करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में विजेता व उपविजेता रही टीमों को सम्मानित किया जाएगा।

मंगली गुग्गा जाहरवीर में भागवत कथा का शुभारंभ

बड़ा। कस्बा बड़ा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मंगली गुग्गा जहरवीर में आज कलश यात्रा निकाल कर भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा में काफी संख्या में क्षेत्रवासियों ने भाग लिया। गुग्गा मंदिर के पुजारी सुनील राणा ने बताया कि ये भागवत कथा 9 सितंबर तक आयोजित होगी। भागवत कथा में कथा वाचक महंत त्रिलोक राज गोस्वामी भागवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का व्याख्यान करेंगे। सुनील कुमार ने सभी क्षेत्र वासियों से इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने का विशेष आग्रह किया हैं।

न्यूज ब्रीफ

स्कूटी-मोटरसाइकिल में जबरदस्त टक्कर

अनंत ज्ञान, गोंदपुर बनेहड़ा। मंगलवार सुबह बनेहड़ा से नकड़ोह सड़क पर रामलीला ग्राउंड नकड़ोह के पास सुबह स्कूटी व मोटरसाइकिल पीबी नंबर के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, जिससे स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वहीं दूध बेचने जा रहे मोटरसाइकिल के ड्रम भी बिखर गए, जबकि स्कूटी का अगला हिस्सा अलग हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल के लिए एक महिला टीचर अपने बच्चे के साथ स्कूटी पर जा रही थी, वहीं दूसरी दिशा से मोटरसाइकिल पर दूध लेकर जा रहे सवार से टक्कर होने से गंभीर रूप से घायल हुए। दुर्घटना के बाद 108 द्वारा उन्हें दौलतपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें ऊना अस्पताल रेफर किया गया। बता दें कि इस दुर्घटना के पीछे कारण मोटरसाइकिल पर दूध के बर्तन रखने के लिए बढ़ाकर लगाए गए लोहे के फ्रेम को कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ऑनरेरी कैप्टन चमनलाल शर्मा को किया सम्मानित

अनंत ज्ञान, बंगाणा। बंगाणा की मुच्छाली पंचायत के गांव नायली के ऑनरेरी कैप्टन चमनलाल शर्मा का ग्रामीणों ने स्वागत किया। चमन लाल भारतीय सेना में 28 साल पहले चार डोगरा मे सिपाही के पद भर्ती हुए थे। बंगाणा महाविद्यालय में एनसीसी यूनिट खुलवाने के लिए उनकी प्रमुख भूमिका रही है। उन्होंने सेना में देश के हर कोने मे सेवाएं दी। उन्होंने जिला ऊना के एनसीसी कार्यालय मे भी दो साल सेवाएं दी और बंगाणा कॉलेज मे एनसीसी लाने में भी प्रयास किए। उनके परिवार मे दो पुत्र व पत्नी गृहिणी अंजू शर्मा हैं। कैप्टन का गांव वालों व रिश्तेदारों ने जोरशोर के साथ उनका स्वागत किया व उनके घर पहुंचने पर उनकी माता बिमला शर्मा ने अपने परिवार सहित गुग्गा जाहरवीर मंदिर मे माथा टेका व सभी लोगों को भोज का प्रावधान किया।। इस अवसर पर मुच्छाली पंचायत प्रधान विजय कुमार, बीडीसी जोगिंद्र देव आर्य, पूर्व जिला परिषद इंदु वाला, अजय कुमार, सोमनाथ, योगराज, मदन लाल आदि उपस्थित रहे।

कुटलैहड़ विस क्षेत्र के विकास के लिए धनराशि स्वीकृत

अनंत ज्ञान, बंगाणा। कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा ने अपनी विधायक इच्छुक निधि से कुटलैहड़ विस क्षेत्र के विकास के लिए 62,52,630 रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इसमें कुटलैहड़ की पंचायतों में लिंक सड़कें, पुलिया निर्माण, स्कूल भवन खेल मैदान एवम बैडमिंटन कोर्ट बनाने के लिए धनराशि स्वीकृत की है। कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा ने शिमला मॉनसून सत्र में भाग लेते हुए सड़क में कुटलैहड़ विस क्षेत्र में खैर की खेती को बढ़ाया देने का मुद्दा भी उठाया। विधायक विवेक ने कहा कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया में ही कुटलैहड़ विस क्षेत्र में खैर पहले स्थान पर आता है, लेकिन जब मलकीयत भूमि से खैर कटान होता है तो ठेकेदार जड़ से खैर को उठा लेते हैं, जिससे आगे खैर की प्रजाति खत्म हो जाती है। शर्मा ने कहा कि कुटलैहड़ में अवैध जो वर्षों से हो रहा है, उस पर अंकुश लगे और खैर कटान के समय ठेकेदार जमीन से एक फुट ऊपर खैर का कटान करें। खैर की खेती से कुटलैहड़ के किसानों की आर्थिकी और ज्यादा मजबूत होगी।

कर्मचारियों को जल्द वेतन जारी करे सरकार : रजनीश

अनंत ज्ञान, ऊना। जिला ऊना अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रधान रजनीश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों को जल्द वेतन जारी करे। उन्होंने कहा कि हर माह कर्मचारियों को पहली तारीख को वेतन मिल जाता है, लेकिन इस माह में अभी तक वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों में वेतन न मिलने को लेकर निराशा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों व उनके परिवारों को समय पर वेतन न मिलने से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने भविष्य में भी हर माह पहली तारीख को वेतन देने के लिय आवश्यक कार्यवाही करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को वेतन मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। जिला ऊना अराजपत्रित कर्मचारी संघ की बैठक ऊना रेस्ट हाऊस में भी की। कर्मचारियों की जेसीसी बैठक को लेकर विस्तार से चर्चा की और मांगों को अंतिम रूप दिया। जिला के विभिन्न विभागों से आई मांगों को लेकर लिस्ट फाइनल की गई। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के साथ जल्द ही जे सीसी की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें कर्मचारियों की मांगों को उठाया जाएगा।

ऊना शहर में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण ने बढ़ाई मुश्किलें

अतिक्रमण करने वालों ने पैदल तक चलने के लिए नहीं छोड़ी कोई जगह

राजेश शर्मा, ऊना

ऊना शहर के मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण की एक तस्वीर।

अतिक्रमण ने ऊना शहर की खूबसूरती पर ग्रहण लगा दिया है। अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक जाम लगना आम बात हो चुकी है। बस स्टैंड के समीप दोनों ओर शहर में अवैध पार्किंग को लेकर प्रशासन और नगर परिषद कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं।

शहर की दो मुख्य सड़कों के आसपास अतिक्रमण करने वालों ने पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी जगह नहीं छोड़ी है। अक्सर देखा गया है कि धर्मशाला-चंडीगढ़ एनएच और ऊना-हमीरपुर पर दोनों तरफ अवैध पार्किंग की जाती है। पुलिस की तरफ से कई बार कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद हालत वैसे के वैसे बन जाते हैं। ऐसे में सड़क किनारे लोगों को पैदल चलने के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एनएच के दोनों तरफ फुटपाथ की व्यवस्था है।

इसके अलावा शहर में वाहनों के लिए नगर परिषद ने पार्किंग स्थल भी बनाए हैं, लेकिन फिर भी कई वाहन चालक जानबूझकर अवैध पार्किंग कर रहे हैं। अधिकांश दुकानों के आगे काफी समय तक वाहन खड़े होने से यातायात प्रभावित होता है। अवैध पार्किंग को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से स्प्रिंग पोस्ट भी लगाए गए हैं। यह प्रयास भी नाकाफी साबित हुए हैं। इस व्यवस्था के बावजूद अवैध पार्किंग करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। रोटरी चौक, शहीद भगत सिंह चौक, रेड लाइट चौक के होते हुए एनएच से गुजरने वाले चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहर के भीतर भी दिन में निकलना किसी मुसीबत से कम नहीं होता। बस स्टैंड के आसपास इस कारण लंबा जाम लगना भी आम बात है।

समस्या के हल को जल्द होगी बैठक : ललित कुमार

नगर परिषद ऊना के कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार का कहना है कि अवैध पार्किंग को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर जल्द अभियान चलाया जाएगा। लोगों से अपील की जाती है वे अवैध रूप से वाहनों को सड़क किनारे पार्क न करें। इसे लेकर जल्द बैठक की जाएगी।

राज्य कर व आबकारी विभाग ने अंब गगरेट में वसूला 4,05,580 जुर्माना

अनंत ज्ञान, ऊना

गगरेट में बिना बिल के पकड़ा गया सामान।

उपायुक्त राज्य कर व आबकारी जिला ऊना विनोद सिंह डोगरा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विभागीय नाका गगरेट तथा अंब क्षेत्र में गत दिनों की गई विशेष चेकिंग के दौरान विभिन्न वाहनों का जीएसटी अधिनियम के अतर्गत निरीक्षण किया गया। तीन मामलों में बिना बिल के सामान पाए जाने पर उपरोक्त अधिनियम का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई। नाका गगरेट पर लेड तथा मोबाइल फोन पकड़े गए, जिस पर विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए क्रमश: 2,18,880 रुपए तथा 34,200 रुपए का अर्थदंड लगाया गया तथा मौके पर ही वसूल किया गया। विभागीय चेकिंग टीम में अधिकारी रश्मि देवी तथा जसवंत सिंह, सहायक शामिल थे।

एक अन्य मामले में अधिकारी अमरजीत सिंह, संजीव कुमार, बलजीत सिंह, निर्देश कुमार तथा अंकुश चौहान की टीम द्वारा अंब क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बिना बिल के सामान पकड़ा गया। इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 1,52,500 रुपए का अर्थदंड लगाया गया तथा मौके पर ही वसूल किया गया। विभाग के उपआयुक्त विनोद सिंह डोगरा ने बताया कि विभाग प्रदेश के बाहर से लाए जाने वाले सामान पर कड़ी नजर रखे हुए है।

उन्होंने बताया कि जीएसटी अधिनियम की धारा 31 के तहत 200 रुपए से अधिक मूल्य की वस्तुओं की बिक्री पर बिल जारी करना अनिवार्य है तथा 50,000 से अधिक मूल्य के सामान परिवहन करने पर ई-वे बिल अनिवार्य है।

बारिश के कारण गर्मी से मिली राहत

ऊना। जिले के कई हिस्सों में मंगलवार के रोज बारिश हुई। इससे लगातार पड़ रही भयंकर गर्मी से राहत मिली है। करीब 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे पहले ऊना का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया था, अब लोगों ने राहत महसूस की है।

भद्रकाली का मुख्य रास्ता बना ब्लाइंड स्पॉट, चौक बनाने की मांग

दुर्घटनाओं को न्योता देता गांव भद्रकाली का मुख्य रास्ता।

आशीष शर्मा, गोंदपुर बनेहड़ा

गगरेट विस क्षेत्र के गांव भद्रकाली के मुख्य रास्ते पर मिरर और गोल चक्कर (चौक) न होने के कारण हर पल जान माल के नुकसान होने का खतरा रहता है। बताते चलें कि अगर हम दौलतपुर-मुबारिकपुर राष्ट्रीय मार्ग से वाया बहरमपुर होते हुए भद्रकाली पहुंचते हैं तो रास्ता चार संपर्क मार्गों में बंट जाता है, भद्रकाली-मुबारकपुर, भद्रकाली-दौलतपुर, भद्रकाली-चिंतपूर्णी, भद्रकाली -ब्रमपुर।

बता दें कि जहां ये सभी चार रास्ते मिलते हैं, वह एक ब्लाइंड स्पॉट है, यानी अगर कोई वाहन किसी भी रास्ते से आता है तो दूसरे वाहन में सवार सवारी को पता नहीं चल पाता है कि उसके सामने कोई वाहन आने वाला है। अगर यह कहा जाए कि इन रास्तों पर ज्यादा आवाजाही नहीं है तो यह तंज एकदम गलत होगा क्योंकि भद्रकाली में स्थित माता भद्रकाली का मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बिंदु है और साथ ही भद्रकाली से चिंतपूर्णी के लिए इस रास्ते का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। यहां सवाल आता है कि प्रशासन को इतने समय से इस समस्या के बारे में क्यों पता नहीं चला है। इस चौराहे पर जल्द से जल्द मिरर और गोल चक्कर बनाने की मांग स्थानीय लोगों द्वारा की गई है ताकि कोई भी बड़ी दुर्घटना न घट पाए। (अनंत ज्ञान)

पूर्व विधायक अपने बयान के लिए माफी मांगें : शर्मा

अंब। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छिन्नमस्तिका धाम माता चिंतपूर्णी के नाम के गुणगान के लिए आयोजित होने जा रहे चिंतपूर्णी महोत्सव का विरोध करके भाजपा के पूर्व विधायक बलबीर चौधरी ने अपनी मानसिकता दर्शा दी है। ब्लॉक कांग्रेस चिंतपूर्णी के अध्यक्ष डॉ. रविंद्र कुमार शर्मा ने भाजपा के जिला अध्यक्ष पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि चिंतपूर्णी महोत्सव रद करने की बात कहकर उन्होंने अपनी भाजपा की हिंदू देवी-देवताओं के प्रति फर्जी आस्था को भी जगजाहिर कर दिया है। उन्होंने पूर्व विधायक को नसीहत देते हुए कहा कि माता चिंतपूर्णी के कार्यक्रम पर सवाल उठाने की बजाय माता चिंतपूर्णी से अपने इस बयान के लिए माफी मांगें और उनने लिए सदबुद्धि की भी प्रार्थना करें।

डेरा अमलेहड़ में 8 को होगी सप्तऋषि मूर्ति स्थापना

श्रद्धालुओं ने अखंड धूने पर शीश नवाने के बाद लिया महाराज हेमानंद जी का आशीर्वाद।

अनंत ज्ञान, गोंदपुर बनेहड़ा

जिला ऊना के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम अच्युतानंद अमलेहड़ जहाँ बहुत से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बिंदु है वही 8 सितंबर को डेरा परिसर में सप्तऋषियों की मूर्ति स्थापना होनी निर्धारित है जिससे आमजनमानस में खुशी की लहर है।

बताते चलें कि डेरा अमलेहड़ में एक सिंतबर को विशाल शोभायात्रा निकाली गई। डेरा परिसर में एक से 8 सितंबर तक श्रीकृष्ण भजन संध्या और कृष्ण रासलीला का डेरा अमलहड़ द्वारा भव्य आयोजन करवाया जा रहा है। भजन संध्या सुबह 10 से एक बजे तक और शाम को 6 से 8 बजे तक हर दिन 8 सितंबर तक आयोजित करवाई जाएगी। इस विशेष मौके पर 1008 महाराज श्री सुग्रीवानंद जी के परम शिष्य महाराज हेमानंद जी विशेष तौर पर डेरा अमलेहड़ में उपस्थित रहेंगे।

इस मौके पर भजन संध्या में श्रद्धालुओं ने अखंड धुने पर शीश नवाकर महाराज हेमानंद जी का आशीर्वाद प्राप्त किया।

लालूवाल में ट्रक के नीचे आने से बच्ची की मौत

नरेश सिंघा, टाहलीवाल। स्थानीय लालूवाल मार्ग पर नजदीक विश्रामगृह में पास एक सड़क हादसा होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें एक बच्ची की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक एक ट्रक जो टाहलीवाल से लालूवाल की तरफ जा रहा था जिसकी चपेट में आने से दस वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। आपको बता दें कि एक मोटरसाइकिल सवार ट्रक को ओवरटेक कर रहा था कि इस समय आगे से दूसरे मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई।

मोटरसाइकिल के पीछे बैठी बच्ची गिर गई और ट्रक की चपेट में आ गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची की पहचान कविता पुत्री जतिंद्र कुमार निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। बच्ची का परिवार भनाम जिला रूपनगर में रहता है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया, जिसकी पुष्टि डीएसपी हरोली मोहन रावत ने की है। (अनंत ज्ञान)

माता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव-2024 के लिए कलाकारों ने बढ़-चढ़कर लिया ऑडिशन में भाग

अनंत ज्ञान, ऊना

माता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव-2024 के अंतर्गत सांस्कृतिक संध्याओं के लिए ऑडिशन का आयोजन अंब कॉलेज के सभागार में जारी है। दूसरे दिन भी स्थानीय और अन्य जिलों से आए कलाकारों ने ऑडिशन में हिस्सा लेकर अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

उल्लेखनीय है कि ये ऑडिशन आज तक जारी रहेंगे। महोत्सव का आयोजन 14 से 16 सितंबर तक किया जाएगा। उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि महोत्सव के भाव के अनुरूप सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को प्रमुखता दी जाएगी और गुणवत्तापरक स्तरीय प्रदर्शन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि महोत्सव के सफल आयोजन के लिए अलग-अलग जिम्मेदारियां देखने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई हैं।

सूडोकु 0046

मध्यम

8		4	3	9	7	5		6
3					2			
		7	6	5				4
9	6		5			1		7
5		1	4		9	8		2
4		8					5	3
2				6	1	4		
			7					8
7		9	8	3	5	6		1

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं।
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3 गुणा 3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनवृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।
- पहेली का केवल एक ही हल है।

सूडोकु 0045 का हल

7	8	4	9	5	2	6	1	3
9	6	2	4	3	1	8	5	7
1	3	5	7	8	6	2	4	9
4	2	3	6	1	5	9	7	8
8	5	9	2	4	7	1	3	6
6	7	1	3	9	8	4	2	5
3	1	7	8	6	4	5	9	2
5	9	6	1	2	3	7	8	4
2	4	8	5	7	9	3	6	1

नगर परिषद ऊना के हर वार्ड से भाजपा जोड़ेगी 200 सदस्य : सत्ती

अनंत ज्ञान, ऊना

बोले-सदर मंडल से 25000 सदस्यों को पार्टी में शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित

जिले भर में 2 सितंबर 2024 से भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। इससे पहले शुरू होने वाले भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी की ऊना मंडल इकाई की बैठक पार्टी कार्यालय दीपकमल के परिसर में हुई थी।

ऊना सदर में भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर हुई बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के ऊना मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती मुख्य अतिथि के रूप में बैठक में पहुंचे थे। इस मौके पर विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा था कि सदस्यता अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए की जाएगी। इसी अभियान के तहत पार्टी की विभिन्न इकाइयों की बैठकों को भी अभियान की पूरी जानकारी प्रदान कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान को लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। 2 सितंबर से पार्टी के कार्यकर्ता इस अभियान को गति देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं।

उन्होंने कहा कि सदर मंडल से 25000 सदस्यों को पार्टी में शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि जिला मुख्यालय की नगर परिषद से प्रत्येक वार्ड में 200 सदस्य पार्टी के साथ जोड़े जाएंगे। उन्होंने बताया कि 8800002024 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर भी भाजपा की सदस्यता हासिल की जा सकेगी।

प्राइमरी स्कूल भरमौत को बंद करने के आदेशों पर ग्रामीण खफा, आंदोलन की दी चेतावनी

राजेश ठाकुर, बंगाणा

ग्रामीणों ने पूर्व विधायक भुट्टो से की मुलाकात

उपमंडल बंगाणा की अरलू पंचायत के गांव भरमौत में राजकीय प्राथमिक पाठशाला को बंद होने के आदेशों को लेकर दर्जनों ग्रामीण कुटलैहड़ के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक दविंद्र कुमार भुट्टो से मिले और अपनी समस्या को लेकर अवगत करवाया। ग्रामीणों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्राइमरी स्कूल भरमोत में गांव सर, कुटला आदि के छोटे बच्चे पढ़ते है और उक्त स्कूल बंद होने पर अब बच्चों को आठ किमी की दूरी तय करके मझियाणी या फिर हटली स्कूल में जाना पड़ेगा।

वहीं, भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक दविंद्र कुमार भुट्टो ने कहा कि राज्य सरकार भरमौत स्कूल को बंद करने की बजाय मझियानी स्कूल को बंद कर देती, क्योंकि मंझियानी और हथलौन स्कूल का एक किमी का दायरा है, लेकिन भरमौत स्कूल में दो से तीन किमी के दायरे के गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं और उक्त स्कूल से पांच किमी की दूरी पर अन्य स्कूल पड़ते हैं। भुट्टो ने कहा कि राज्य सरकार कुटलैहड़ की जनता के साथ भेदभाव कर रही है।

कुटलैहड़ में आठ सरकारी स्कूलों को बंद करके अभिभावकों की समस्याओं को बढ़ावा दिया है। इस मौके पर उपप्रधान भूषण शर्मा, कुटलैहड़ भाजपा महामंत्री राजेंद्र मलांगड़, राज्य भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के सचिव सूरम सिंह, भाजपा नेता सतीश धीमान, यूबा नेता अभय राणा, अमन शर्मा के अलावा ग्रामीण मौजूद रहे। (अनंत ज्ञान)

स्कूल को खोलने की हो नोटिफिकेशन : महिंद्र

उपमंडल बंगाणा के प्राथमिक स्कूल भरमौत के राज्य सरकार के बंद करने की नोटिफिकेशन स्थानीय पंचायत प्रधान महिंद्र सिंह राणा ने कड़ा विरोध करते हुए राज्य सरकार को दोबारा विचार करने की सलाह दी। राणा ने कहा कि उक्त स्कूल में वर्तमान समय में प्राइमरी में आठ और नर्सरी में 13 बच्चों को शिक्षा मिल रही है। महिंद्र सिंह राणा ने कहा कि दो सितंबर को जब उक्त स्कूल बंद करना था तो मुझे स्कूल के अध्यापकों का फोन आया। और जब मैं स्कूल में गया तो स्कूल में बच्चे अभिभावक और स्टाफ रो रहा था। राणा ने कहा कि हम अपनी समस्या को लेकर स्थानीय विधायक विवेक शर्मा से भी मिले थे और सारी समस्या बताई थी। अगर स्कूल दोबारा ने खोला तो मजबूरन हमें सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ेगा।

आयोजन सदाशिव में दंगल के साथ डेढ़ माह से चल रहे धार्मिक कार्यक्रम का हुआ समापन

पठानकोट के आकाश बने सदाशिव दंगल के विजेता

अनंत ज्ञान, बंगाणा

सदाशिव मंदिर तलमेहड़ा में हुए दंगल के विजेताओं के साथ कमेटी के सदस्य।

उपमंडल बंगाणा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल धौमेश्वर मंदिर तलमेहड़ा में विशाल दंगल के साथ डेढ़ मास से चल रहे सावन मास के धार्मिक कार्यक्रम का समापन हुआ है। धौमेश्वर मंदिर तलमेहड़ा में कमेटी द्वारा विशाल दंगल का आयोजन किया गया था।

मंदिर कमेटी के चेयरमैन प्रवीण शर्मा ने बताया कि मंदिर परिसर में विशाल दंगल में करीब सौ से ज्यादा जोड़ ने दंगल में अपनी अपनी ताकत दिखाई और आखिर में आकाश पठानकोट विजेता और बिंद्र बिशनपुर पंजाब के उपविजेता रहे। वहीं, दंगल में बतौर मुख्य तिथि पहुंचे इलाके के प्रसिद्ध समाजसेवी एवं गुरुकुल माध्यमिक पाठशाला पनोह अंब के सीएमडी राजेश गौतम ने विजेता पहलवान को 31 हजार और उपविजेता बिंदर को बीस हजार की नकद राशि प्रदान की। वहीं, इसके अलावा अन्य तीन पहलवानों को भी अलग इनाम दिया।

प्रवीण शर्मा ने कहा कि सदाशिव मंदिर परिसर में विशाल दंगल की रीत पौराणिक चली आ रही है और सावन मास के धार्मिक कार्यक्रमों के बाद श्रीकृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और उसके बाद मंदिर परिसर पर विशाल दंगल का आयोजन किया जाता है और विशाल दंगल के साथ डेढ़ माह से मंदिर में चले रहे धार्मिक कार्यक्रम खत्म होता है। इसके बाद फिर नववर्ष में शिवरात्रि महोत्सव से दीवार सदाशिव मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम का आगाज होता है और हर वर्ष 6 जून को सदाशिव मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है।

प्रवीण शर्मा ने कहा कि सदाशिव मंदिर के सभी धार्मिक कार्यों को सफल बनाने के लिए जो भी सदाशिव मंदिर के साथ आस्था रखते हैं, सदाशिव मंदिर कमेटी उनका आभार प्रकट करती है। शर्मा ने कहा कि भक्तों द्वारा दिए गए दान को मंदिर कमेटी ईमानदारी से मंदिर परिसर के विकास पर खर्च करती है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाती है। प्रवीण शर्मा ने पुलिस स्टाफ एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का भी सहयोग के लिए मंदिर कमेटी की तरफ से आभार प्रकट किया और खास कर बाहरी राज्यों से आए सदाशिव मंदिर में भक्त जिन्होंने लंगर व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा एवं मंदिर कमेटी का सहयोग दिया है। उनका विशेष आभार प्रकट किया।

इस मौके पर मंदिर कमेटी के चेयरमैन प्रवीण शर्मा, सुखदेव सिंह, स्थानीय उपप्रधान अशोक शर्मा, सोहन सिंह, रघुबीर संगम, सुनील कुमार, डॉ. केशवानंद शर्मा, संजीव कुमार, मीडिया प्रभारी विपन साजन, अजय शर्मा के अलावा कमेटी सदस्य एवं सैकड़ों गणमान्य मौजूद रहे।

नेत्रदान राष्ट्रीय पखवाड़े का आयोजन

हमीरपुर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रवीण चैधरी के आदेशानुसार राधा कृष्णन मेडिकल कालेज हमीरपुर में नेत्रदान राष्ट्रीय पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कालेज विभाग के प्रमुख डॉ. अभिलाष सूद द्वारा की गई। इस अवसर पर कॉलेज के प्रशिक्षुओं द्वारा नाटकों के माध्यम से नेत्रदान की जानकारी प्रदान की गई।

अनंत ज्ञान
क्लासीफाइड
विज्ञापन के लिए संपर्क करें
98168-75517
सूचना

मैं, नरेंद्र कुमार, पुत्र श्री मदन लाल गांव व डाकघर कुरियाला, तहसील एवं जिला उना (हि.प्र.) पिनकोड-174303 घोषणा करता हूँ कि मैंने अपना नाम नरेंद्र (पुराना नाम) को नरेंद्र कुमार (नया नाम) में बदल दिया है। भविष्य में मुझे नरेंद्र कुमार के नाम से जाना जाएगा। नरेंद्र एवं नरेंद्र कुमार एक ही व्यक्ति हैं। सभी संबंधित नोट करें।

अनंत ज्ञान

आज का राशिफल

बॉबी गोस्वामी, पुजारी,श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम

आज का पंचांग

4 सितंबर, 2024, बुधवार

विक्रमी संवत : 2081, **शक संवत** :1946 (क्रोधी), **मास :** भाद्रपद **तिथि** प्रतिपदा : (9:49): **नक्षत्र** उत्तरा फाल्गुनी (पूर्ण रात्रि), **पक्ष :** शुक्ल **योग:** साध्य (8:02) **शुभ मुहूर्त :** अभीजित (कोई नहीं), **राहुकाल** (12:29 -1:54)।

विशेष दिन

- 4 सितंबर 2024 : मौन व्रत प्रारंभ आज से।
- 4 सितंबर : गुरु ग्रंथ साहिब का प्रथम प्रकाश उत्सव आज।

मेष: आज आलस्य से बचकर रहें, अन्यथा बने काम बिगड़ सकते हैं। कार्यों में रुकावट आ सकती है।

वृषभ: दिन की शुरुआत आनंदप्रद रहेगी। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। व्यापार-नौकरी में लाभ होगा।

मिथुन: जिसे आप किसी काम के नहीं समझते थे, आज वही आप के रहेंगे। आज कार्यों को परिजनों कार्यों में सहभागी बनेगा। यात्रा का योग है।

कर्क: किये गए कुछ कार्यों से लोग नाखुश होंगे। आज कार्यों को परिजनों में प्रशंसा मिलेगी। खर्चों में कमी करें। कानूनी विवाद निपटेंगे।

सिंह: दिनचर्या में बदलाव होगा। भागीदारी में आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से लाभ संभव है।

कन्या: व्यापार-व्यवसाय अनुकूल रहेगा। परिवार में तनाव से चिंता बढ़ेगी। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है।

तुला: दिन मध्यम है। संतान की आजीविका संबंधी समस्या का हल होगा। शुभचिंतक से मेल-मुलाकात आत्मबल मजबूत करेगी।

वृश्चिक: आलस त्यागें। समय पर काम करें। आपकी मेहनत से व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेगा।

धनु : आज लाभ हो सकता है। निकटजनों की प्रगति से मन में प्रसन्नता होगी। दूर-पास की यात्रा के योग बनेंगे।

मकर: पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ने से व्यस्तता बढ़ेगी। आज कार्य में नवीनता के भी योग हैं।

कुंभ: मेहनत के अनुरूप सफलता मिलने में संदेह है। आज किसी हनुमान मन्दिर में जाकर सिंदूर और तेल अर्पण करें, रुके काम बनेंगे।

मीन: बिना सोच विचार के कोई भी काम न करें। मांगलिक आयोजनों के लिए रूपरेखा में परिवर्तन होगा। विरोधियों से सावधान रहें।

दिन में एक बार खुद से बात करें, अन्यथा आप इस दुनिया में एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने से चूक सकते हैं। –स्वामी विवेकानंद

संपादकीय

ममता का अपराजिता कार्ड

कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के बाद डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए देशभर में गुस्सा फूट रहा है। कोलकाता में डॉक्टर्स पिछले 25 दिनों से सड़क पर बैठे हैं। दीदी भी सड़क पर उतरी और कहा कि 10 दिन के भीतर रेपिस्ट को फांसी देने का बिल लाऊंगी। दीदी ने इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और इस सत्र में अपराजिता बिल लेकर आईं। बिल को पास भी करा लिया गया। आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जो वह 10 दिन में रेपिस्ट को फांसी दिला पाएंगी? जनता के साथ न्याय करना, बिना भटकाए, बिना उलझाए आसान नहीं होता। बिल में क्या खास है। क्या-क्या प्रावधान बनाए गए हैं और ये भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस से कितना अलग है यह जानना भी जरूरी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने भी इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही यह शर्त भी रख दी कि सीएम ममता बनर्जी न्याय दिलाने की गारंटी लें तभी इस बिल का औचित्य है। हमें रिजल्ट चाहिए।

यह सरकार की जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल में एंटी रेप बिल के लिए ममता ने 21+15 का फार्मूला सूझाया है। शुरुआती जांच रिपोर्ट 21 दिन में पूरी होगी। इसे अधिकतम 15 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। समय बढ़ाने पर एसपी को कारण बताना होगा। यानी कुल मिलाकर चार्जशीट दायर करने के बाद 36 दिन में जांच पूरी करनी होगी और न्याय दिलाना होगा। इस बिल में यह प्रावधान भी किया गया है कि अगर किसी ने पीड़िता की पहचान उजागर की गई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी सोशल मीडिया पर पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ सख्ती की थी। बिल के अनुसार, हर जिले में अपराजिता नाम से फास्ट ट्रैक फोर्स का गठना होगा। डिप्टी एसपी रैंक के अफसर इसे लीड करेंगे। बिल विधानसभा में तो पास हो गया है।

अब यह राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। भारतीय न्याय संहिता में कानून में बदलाव का प्रावधान है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगा या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलती तब तक यह बिल कानून का रूप नहीं ले सकता। इस बिल में बीएनएस के साथ-साथ बीएनएसएस में भी बदलाव किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिल लाने वाली ममता बनर्जी कोई पहली मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि इससे पहले दो और राज्य भी ऐसी कोशिश कर चुके हैं।

रेप पर कानून बनाने के लिए 2019 में आंध्र प्रदेश ने दिशा बिल लाया था। साल 2020 में भी महाराष्ट्र शक्ति बिल लाकर कानून बनाने की मुहिम छेड़ी गई थी, लेकिन दोनों ही राज्यों को कामयाबी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि राष्ट्रपति ने मंजूरी ही नहीं दी। हालांकि, ममता बनर्जी भी यह जानती हैं कि इस बिल में खामियां हैं और इस बिल का पास होना मुश्किल दिख रहा है, इसलिए वह अभी से ही प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को घेरने की अपनी लड़ाई शुरू कर चुकी हैं। ममता बनर्जी सरकार की ओर से यह पूरी कवायद आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई दुखद घटना के बाद शुरू हुई है। इस कॉलेज में एक महिला डॉक्टर का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से देशभर में विरोध-प्रदर्शन का आलम रहा और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग हुई। ममता सरकार रेप के खिलाफ हैं, यही संदेश देने के लिए यह बिल लाया गया। बहरहाल, ममता ने यह बिल लाकर एक किस्म से अपराजिता कार्ड खेल दिया है।

बिल में प्रावधान चाहे कितने भी सख्त हों, परंतु इसे लागू करने वालों की मंशा भी साफ होना जरूरी है। इस बिल पर देश के दूसरी सियासी दल भी अंगुली उठा रहे हैं कि क्या यह बिल वाकई व्यवहारिक है? सवाल यह है कि बर्बर रेप-हत्याकांड में भी राजनीतिक पार्टियां सियासत करना जारी रखेंगी या फिर सजा दिलाने के लिए आगे भी आएंगी। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि चाहे कानून कोई भी बने, लेकिन वह आने वाले वक्त में सबके लिए मिसाल बने और उसके कड़े प्रावधानों का अपराधियों के मन में खौफ हो कि वह कोई भी अपराध करने से पहले सौ बार सोचे। देशभर में न जाने कितने सालों से रेप-हत्याकांड हो रहे हैं, लेकिन उन पर पूरी तरह लगाम न तो आज तक कोई कानून लगा पाया है और न ही सरकार। महिलाओं को सुरक्षा और इंसाफ चाहिए। ■

काला महीना : हिमालय की यात्रा पर चले जाते हैं देवगण

सावन महीने की रिमझिम बारिश के बाद जब आकाश में बादल पीले होने के बाद छितरने लगते हैं और फसल पकने को तैयार हो जाती है। तब भादो महीने का आगमन होता है। इसे 'काला महीना' के नाम से भी जाना जाता है। जन कथन है कि इस महीने पहाड़ी लोक देवता हिमालय की यात्रा पर चले जाते हैं तथा वहां जाकर विश्राम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कैसी भी परिस्थितियां हो जाए, इस क्षेत्र का कोई देवता वापस नहीं आता है। देवता भी लोगों की सुख-शांति की कामना करने पर इतने दिनों के लिए बाहर जाते हैं। ऐसा लोगों में विश्वास रहता है। देवताओं की अनुपस्थिति में लोग इस महीने अपने को असहाय एवं असुरक्षित समझने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि भादो महीने में देवता की अनुपस्थिति में भूत-पिशाच डंकनी, कुलक्षणी और डायन आदि का अधिपत्य स्थापित हो जाता है, लेकिन आसुरी स्वभाव की यह शक्तियां तभी किसी का बुरा करती है, जब उसके ग्रह निष्कृट होते हैं। काले महीने के प्रकोप से बचने के लिए लोग सावन महीने में ही गृह शुद्धिकरण के लिए हवन व पूजा-पाठ आदि करवा लेते हैं। सावन के 'नवरात्र' शुभ माने जाते हैं। इस दौरान ही लोग मांगलिक कार्य विवाह की तिथियां आदि निर्धारित करते हैं।

आयोजन को सफल बनाने के लिए विशेष कार्य करने वालों को 'साई-सफाई' (अग्रिम अनुबंध) देते हैं। लोक कहावत में कहा जाता 'साई एवं फाई' एक बराबर होती है। यानी जिस किसी व्यक्ति ने साई ले ली हो, उसे हर हालत में कारज वाले का काम करना पड़ता है। विशेष परिस्थितियों में यदि वह न जा सकेगा। तब अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को भेज देता है। नवरात्र को 'देवी के बार' भी कहा जाता है। श्री नैनादेवी, ज्वालाजी, चामुंडा, चिंतपूर्णी एवं बज्रेश्वरी आदि शक्तिपीठों में भक्तों के मेले जुटते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां के दरबार में आकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यहीं नहीं बड़ी संख्या में भक्तजन नवरात्र में नौ दिन तक नियमित व्रत रखते हैं। कोई भी मनोकामना पूर्ण होने के बाद वे नंगे पैर दंडवत होते मां के दरबार पहुंचते हैं। सावन महीने में ही लोग अपने घरों में चारों ओर दीवारों पर गाय के गोबर की रेखा खींच देते हैं तथा इस दौरान सभी देवताओं का विधि विधान से पूजन कर लिया जाता है। घर की सभी दीवारों पर यह रेखा पांच-छह फुट ऊंची होती है। दरवाजे-दवारियां व रोशनदान ऊंचे हो तो, वहां उनके ऊपर से रेखा खींच लेते हैं। इसके बाद फिर वह रेखा उसी लेवल में ही अंकित की जाती है।

लेखक : रामलाल पाठक
गांव निहारखन बासला (चिड़की)

घर के अलावा मवेशिखाने में भी ऐसी रेखा खींची जाती है। इसे देवता की 'कार' माना जाता है। मान्यता है कि बुरी शक्तियां इसके अंदर नहीं आ सकती है। यह इसलिए किया जाता है कि जान-माल पर काले महीने की परछाई न पड़े। भादो महीने को भले ही काला महीना के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस महीने भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ बताया जाता है। इसका वर्णन एक लोकगीत में इस प्रकार मिलता है-

केहड़ा मीइना ओह केहड़ा वार
कृष्णा ने जन्म लया ।
भादो मीइना बुधवार,
कृष्णा ने जन्म लया

अर्थात इस महीने की अष्टमी तिथि बुधवार को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ बताया जाता है। फिर भी इस महीने में पूजा-पाठ निषेध माना जाता है। हरितालिका तीज अर्थात 'चिड़िया रे व्रत' व चंदन षष्ठी व्रत के साथ ही उनके उद्यापन अक्सर भादो महीने में ही होते हैं। चिड़िया का व्रत या हरितालिका तीज के व्रत को महिलाएं किसी बड़े उत्सव की तरह आयोजित करती है। इसके लिए करीब दो सप्ताह पहले से तैयारियां शरू हो जाती है। महिलाएं मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्तियां व चिड़ियों की मूर्तियां बनाती है तथा उनका विधि विधान से पूजन करती है।

यह व्रत पार्वती का भगवान शिव के प्रति गूढ़ प्यार को दर्शाता है। पार्वती अपनी सहेली के साथ एक गुफा में छुप गई थी। गुफा वियावान जंगल में थी। वहां उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उस समय वहां चिड़ियों के अलावा कोई जीव नहीं था। इसलिए महिलाएं चिड़िया के व्रत को विशेष महत्व देती है। पार्वती ने उस व्रत में पीने का पानी भी ग्रहण नहीं किया था। इसलिए इस व्रत को करने वाली ज्यादातर महिलाएं पानी भी नहीं पीती है। चन्न षष्ठी का व्रत भी महिलाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय है। जब कोई महिला मासिक धर्म से निवृत्त हो जाती है। तभी उसे चन्न षष्ठी छह वर्षों तक छह व्रत करने पड़ते हैं। व्रतधारी महिलाओं को पनघट या किसी सरोबर के पास ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। उसके बाद इसका उद्यापन किया जाता है। लोकमान्यता के अनुसार इन व्रतों के करने से महिलाओं का आगा शुद्ध होता है। भादो महीने के शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की विशेष कई तिथियों का विशेष महत्व है। भादों के 'पंजकों' से लोग बहुत डरते हैं। इन पांच तिथियों में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो उसे अशुभ माना जाता है। इसके बारे में लोगों में आशंका रहती है कि यदि इस दौरान यदि कोई मरता है, तो उस क्षेत्र में पांच लोगों की मौत होगी। पंजकों में मरने वाले व्यक्ति के शव का दाह संस्कार पंजकों के बाद ही किया जाता है। मृत्यु के दिन शव को घर से निकाल कर थोड़ी दूर रखा जाता है।

इस तरह पहले पंजक को मरने वाले व्यक्ति को उसका शव छठे दिन ही अग्नि को समर्पित किया जाता है। अन्यथा इसके लिए कोई अनुष्ठान करना पड़ता है। भादो महीने में नवविवाहिताएं अपनी सास के साथ रहे, तो अपशकुन माना जाता है। यदि सावन महीने के अंतिम प्रविष्टि तक कोई नवविवाहिता किन्हीं कारणों से अपने मायके न पहुंच सके, तो वह अपना सामान बांध कर पड़ोसियों के घर रख देती है, लेकिन सास को बहू और बहू को सास दिखाई नहीं देनी चाहिए। जिस नववधू की सास न हो वह अपने ससुराल में भी रह सकती है। काले महीने की रातें घनघोर अंधेरी होती है। इस महीने को तेरहवां महीना भी माना जाता है। बुजुर्गों के अनुसार इस महीने मक्की और धान की फसलें पूरी तरह नहीं पकती। पहाड़ी क्षेत्रों में गंदम की फसल कम होती है। इसलिए इस महीने अनाज का टोटा हो जाता है। मक्की जो पूरी तरह नहीं पकती है। उनके भुट्टे से दाने निकल कर उन्हें धूप में सुखाया जाता। सूखने के बाद उसका आटा पिसाया जाता है।

यही नहीं भुट्टों को आग के अंगारों पर भुना जाता तथा उनके दाने निकाल कर उन्हें धूप में सुखाया जाता, उसे 'सत्तु' कहा जाता। इसके आटे को लस्सी के साथ घोलकर उसमें नमक मिर्च आदि मिलाकर खाया जाता था, लेकिन अब लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में अनाज होता है। लोगों का मानना है कि इस महीने दूध और पूत पर बुरी नजर लगने का ज्यादा डर रहता है। महिलाएं सुर्ख लाल कपड़े नहीं पहनती तथा नन्हे बच्चों को घर से बाहर नहीं निकला जाता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

नजरिया

बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए बेहतरीन शुरुआत

हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधानसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पास किया है, जिसमें प्रदेश की बेटियों की न्यूनतम विवाह उम्र सीमा 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष की गई है। जिस फैसले का जनता द्वारा प्रदेश भर में स्वागत एवं सराहनीय कदम माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने बेटियों के परिप्रेक्ष्य और उनको और अधिक आत्मनिर्भर बनाने में एक बड़ा कदम सरकार की ओर से माना जा रहा है।

तो वहीं बेटियों की उम्र सीमा बढ़ाने से अब माता-पिता और समाज भी बेटियों को कम आयु में कानूनी रूप से वाध्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब शादी की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष कर दी गई है, इस प्रकार अब बाल विवाह जैसी प्रथा पर भी कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश में रोक लगेगी, तो वहीं प्रदेश की बेटियों को अपने जीवन को और बेहतर और मजबूत बनाने के लिए भी अधिक अवसर मिलेंगे, जिसमें कि आयु सीमा बढ़ने से उनके सोचने एवं आत्मचिंतन करने की शक्ति भी बढ़ेगी और शिक्षा के स्तर में भी कहीं न कहीं सुधार देखने को मिलेंगे, अर्थात भविष्य में अब संभवत: बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की भी कही न कही और अधिक आजादी मिलेगी।

लेखक : हेमराज राणा
स्वतंत्र लेखक, सिरमौर

पूर्व में लड़कियों को इसलिए भी कम आयु में शादी करवा ली जाती थी कि घर की आर्थिक स्थिति अनुकूल न होने और विवाह की आयु सीमा कम होने के कारण भी अनेक क्षेत्रों में बेटियां कहीं न कहीं शादी करने के लिए मजबूर होती थी, इसलिए प्रदेश की बेटियों को अब संभवत: भविष्य में और अधिक अवसर एवं आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिलेंगे, अगर प्रदेश की बेटियां इसका उचित लाभ उठाने का प्रयास करती है, तो इस प्रकार हिमाचल प्रदेश सरकार का यह फैसला जनहित के संदर्भ माना जा रहा है। तो वहीं प्रदेश के युवाओं एवं समाज का भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम सभी अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करने का प्रयास करें और आर्थिक रूप से असहाय बेटियों को किसी न किसी रूप से सहयोग की भी अनुशंसा करनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में छोटी उम्र में शादियां अधिकांश गरीब परिवार के यहां देखने को मिलती हैं या फिर कोई बेटी अपनी मर्जी से अर्थात भागकर छोटी उम्र में शादी करती है, परंतु जिस प्रकार वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों को शिक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि हिमाचल की वह तमाम बेटियां असुविधाओं के अभाव में भी अपने जीवन को बेहतर और आत्मनिर्भर बना पाएं।

इसलिए इस बात को हिमाचल प्रदेश के उन तमाम अभिभावकों को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि भविष्य में बेटियों को शादियों की जंजीरों में न बांधकर अनेक क्षेत्रों में उनके हुनर और काबिलियत के अनुकूल भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। **(ये लेखक के निजी विचार हैं)**

कविता

शिकवा कैसा

उदयवीर भारद्वाज, कांगड़ा

धरती का स्वर्ग बना नरक
शिकवा कैसा किसी से, तोड़ी न गई चुपियां
पद रुतबे की चाहत
लूट रही अमनो चैन
विरोध के विरोध का चलन
वर्ग जाति भेद की धारा
समझ से परे कैसी चली हवा
अमावस की रात, चांद चुराए कौन
टूटते चरमराते ये शहर
झूठ छल फरेब का हो रहा अभिषेक
नुचती मरती बच्चियां, राजनीति हुई बेशर्म
शब्दों की आंच पर, वैमनस्य का उबलना
होती विरोध रैलियां, कैंडल मार्च का हो गया चलन
शिकवा कैसा किसी से, तोड़ी न गई चुपियां
सताने वाले भी अपने, जलाने वाले भी अपने
धरती का स्वर्ग बना नरक।

प्राकृतिक खेतीबाड़ी अपनाना आज के समय की जरूरत

जमीनों में ज्यादा उर्वरक, कीटनाशक और स्प्रे डाले जाने की वजह से वह बंजर बनकर रह गई हैं। नतीजतन जमीनों से उपेक्षा मुताबिक फसलों की पैदावार नहीं हो पा रही है। जमीनों से नमी गायब होकर फसलें अब ज्यादातर सूखती जा रही हैं। ऐसी खेतीबाड़ी के लिए समय पर बारिश होना बहुत जरूरी होता है। किसान हताश, निराश होकर आत्महत्याएं कर रहे और जमीनें बेचकर खेतीबाड़ी से विमुख होते जा रहे हैं। किसानों को आज पशुपालन अपनाने की अधिक जरूरत है। आजकल का किसान मॉडर्न बन चुका और पशुपालन करना शर्म महसूस कर रहा है। फसलों, सब्जियों और फलों पर आंखें बंद करके कीटनाशक स्प्रे किए जाने से परहेज करें। ठीक इसी वजह से भी पर्यावरण दूषित हो रहा और लोग कई बीमारियों का शिकार होकर अस्पतालों की लंबी लाइनों में खड़े रहने को मजबूर हैं। हम ज्यादातर कंपोस्ट खाद ही जमीनों में डाले जाना बेहतर समझते हैं। खेतों में कंपोस्ट खाद के दो ढेर लगे थे, जिन्हें आज हमने अपने खेतों में फेंक दिया हैं।

जमीनों की गुणवत्ता जांचने की जिम्मेदारी किस सरकारी विभाग की है? मैंने कभी किसी किसान को यह कहते नहीं सुना कि वह अपनी जमीन की जांच करवा रहा है, जिससे फसलों की अच्छी पैदावार हासिल की जा सके। फसलों की पैदावार अत्यधिक लिए जाने की सोचकर जमीनों में आंखें बंद करके डाली जा रही रासायनिक खादें नुकसानदायक भी साबित हो सकती, कोई सोचने को तैयार नहीं हैं। यही नहीं रासायनिक दवाओं और खाद के कारण भूमिगत जल में दूषित होने की गंभीर समस्याएं खड़ी हो रही हैं। केवलमात्र भूमिगत जल के सहारे ही लोगों का जीवन यापन अब निर्भर है। किसानों की और से रासायनिक खादें, दवाइयां और कीटनाशक स्प्रे का लगातार इस्तेमाल करने से जमीनें बंजर बनती जा रही हैं। जमीनों में पोषक तत्वों की कमी दिनोंदिन बढ़ती जा रही, इसलिए फसलों की टहनियां तो बड़ी हो जाती, मगर अनाज के दानें उतने तैयार नहीं हो पाते हैं। जमीनों का इस तरह से हो रहे दोहन बारे सरकारों को अब और भी गौर करने की जरूरत है।

लेखक : सुखदेव सिंह
वरिष्ठ पत्रकार, नूरपुर

महंगी रासायनिक खादों के उपयोग से फसलों की पैदावार किसानों की उपेक्षाओं के विपरीत हो रही है। नतीजतन आज का किसान खेतीबाड़ी करने से विमुख होता जा रहा है। हालात आज इस कदर बन चुके है कि कुछेक किसानों ने जमीनों पर फसलें उगाना तक बंद कर दिया हुआ है। मक्की की फसल ऊगाने से मुंह फेर चुके लोगों को अब विदेशी पाप कॉर्न लजीज लग रहे हैं। कृत्रिम उर्वरक रासायनिक खादें जमीन में खनिज लवणों को खत्म करती है। नाइट्रोजन के उपयोग से भूमि में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पोटाशियम गायब हो रहा है। जमीन में पोटाशियम अभाव विटामिन सी और प्रोटीन की कमी आने से लोगों में कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। सुपर फास्फेट के कारण जमीन में तांबा ओर जस्ता खत्म होना शुरू हो जाता है। नाइट्रोजन और सुपर फास्फेट इस्तेमाल से गेहूं और मक्का की फसलों में प्रोटीन की कमी आ जाती है। रासायनिक खादों, दवाइयों और कीटनाशक स्प्रे की आसमान छूती कीमतें किसानों की कमर दशकों पहले से तोड़ती आ रही हैं। रही सही कसर ट्रैक्टर की महंगी जुताई ने पूरी कर दी है।

किसान आपसी देखा देखी में रासायनिक खादों का उपयोग आंखें बंद करके करते जा रहे हैं। अगर फसलों की पैदावार की तरफ नजर दौड़ाई जाए, तो उतनी भी नहीं निकल पा रही जितना एक किसान का कुल खर्चा हो चुका होता है। जमीनों में नमी न होने की वजह से वह खुश्क बनकर रहती जा रही हैं। प्रकृति में अचानक बदलाव आने से बारिशें भी अब बेमौसमी होना शुरू हैं। रासायनिक खादों के सहारे उगाई जाने वाली फसलों को समय पर पानी से सिंचित करना पड़ता, अन्यथा वह सुख जाती हैं। हजारों रुपए खर्च करने के बावजूद किसानों को न तो पर्याप्त अनाज मिल पा रहा और न ही पशुओं का चारा। रासायनिक खादों, दवाइयों और कीटनाशक इस्तेमाल करने से मौसम में भी अत्यधिक गर्माहट का एहसास किया जा सकता है। रासायनिक खादें बनाने के लिए फैक्ट्रियों में कोयला जलाना पड़ता, जिसके चलते पर्यावरण प्रदूषण भी अब बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के बावजूद अब यहां के मौसम में भी जमीन आसमान का अंतर शायद तभी आया है। ऐसे हालात में पशुओं को खिलाए जाने वाली हरी घास भी किस कदर विषैली हो सकती खुद ही सोचने वाली बात है।

पूर्व केंद्र सरकार ने गोवर्धन योजना चलाई, ताकि किसान सदियों पुरानी कृषि प्रणाली को बरकरार रख सके। पशुओं के गोबर, कूड़े कचरे से बनाई जाने वाली कंपोस्ट खाद से जमीनों की उर्वरक शक्ति कायम रखी जा सकती है। किसानों को गोबर और कूड़े, कचरे से कंपोस्ट खाद खुद बनाकर अपनी तकदीर बदलनी ही होगी। पहले किसान पशुओं का पालन पोषण किया करते थे। घरों में दुधारू पशु रखना हर किसान की मानों जरूरत हुआ करती थी। पशुओं के गोबर को जमीन में खोदें गए गड्ढे में डालकर उसकी कंपोस्ट खाद तैयार की जाती थी। अक्सर किसान पशुओं का गोबर वैसे भी खेतों में यह सोचकर डालते कि उनकी जमीनों की उपजाऊ शक्ति कहीं अधिक बढ़ जाएगी।

छह महीने के बाद कंपोस्ट खाद को लोग अपने खेतों में बिछाते थे। उस समय फसलों की पैदावार बहुत अधिक होती और पशुओं का चारा भी किसानों को कभी खरीदना नहीं पड़ता था। बदलते सामाजिक परिवेश के चलते लोगों ने रहन, सहन, खान पान के तौर तरीके ही नहीं बदले अब आधुनिक खेती पर निर्भर होकर जहरीली फसलों की पैदावार करते जा रहे हैं। कंपोस्ट खाद से उत्पन्न की जाने वाली फसलें, सब्जियों और फलों का अपना एक अलग ही स्वाद हुआ करता था। रासायनिक खादों के प्रति किसानों के बढ़ते लगाव के चलते हम अपनी सदियों पुरानी खेतीबाड़ी की प्रणाली भी भूलते जा रहे हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

आज के दिन की प्रमुख हस्ती

भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्माता और निर्देशक

ऋषि कपूर हिंदी फिल्म अभिनेता, निर्माता व निर्देशक थे। एक बाल कलाकार के रूप में काम कर उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत कर दी थी। उन्हें फिल्म 'बॉबी' के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और साथ ही 2008 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ऋषि कपूर ने अपनी पहली फिल्म 'मेरा नाम जोकर' में शानदार भूमिका के लिए 1971 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया था। ऋषि कपूर का जन्म मुंबई के चेंबूर में हुआ। ऋषि कपूर बॉलीवुड के शो मैन यानी राज कपूर के मंझले बेटे हैं। उनकी मां का नाम कृष्णा राज कपूर था। इनका निक नेम चिंटू था। इनके दो भाई हैं- रणधीर कपूर और राजीव कपूर। ऋषि के दोनों भाई उन्हीं के तरह बॉलीवुड अभिनेता हैं। इनका विवाह बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू सिंह से हुआ है। इनके दो बच्चे हैं- रणबीर कपूर और रिधिमा कपूर। रणबीर कपूर अपने पिता ऋषि कपूर की तरह बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो हैं। ऋषि कपूर की बेटी रिधिमा का विवाह बिजनेस मैन भारत साहनी से हुआ हैं। बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री करीना कपूर और करिश्मा कपूर ऋषि कपूर की भतीजियां हैं। ऋषि कपूर ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने भाइयों के साथ कैंपियन स्कूल, मुंबई और उसके बाद आगे की पढ़ाई मेयो कॉलेज अजमेर से पूरी की। ■

ऋषि कपूर
जन्म : 4 सितंबर, 1952
मृत्यु : 30 अप्रैल, 2020

अपनी बात

हिमाचल का आर्थिक संकट बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान में सुक्खू सरकार कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। अगर यही हाल रहा, तो सरकार को स्थिति संभालनी मुश्किल हो जाएगी। सरकार दिन-रात इस सोच में डूबी है कि आखिर कर्ज के इस भंवरजाल से बाहर निकला कैसे जाए? आर्थिक तंगी इस कदर हो गई है कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सरकार का सारा खजाना खाली हो गया है। सरकार को हर महीने सैलरी और पेंशन देने के लिए करोड़ों की जरूरत होती है। इसमें से करोड़ों सैलरी, जबकि शेष बचे करोड़ों पेंशन पर खर्च हो जाते हैं। हिमाचल पर प्रति व्यक्ति कर्ज एक लाख 17 हजार रुपए तक पहुंच गया है, लेकिन सरकार अपनी बल्ले-बल्ले करवाने के चक्कर में महिलाओं को 1500 रुपए देना भी बंद नहीं कर पा रही है। करे भी कैसे, क्योंकि कांग्रेस ने खुद ही सत्ता में आने के लिए चुनावी वादा जो किया था। अभी भी सरकार आर्थिक तंगी का हवाला देकर नारी शक्ति से माफी मांग ले, तो शायद सरकार की स्थिति सुधर भी जाए। –सन्नी सिंह, शाहपुर

पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, आलेख कविताएं और अपनी बात कॉलम के लिए सामग्री *editoranantgyaan@gmail.com* पर या व्हाट्सऐप नंबर 8894521702 पर भेज सकते हैं।

न देवी मानो, न पूजा करो, सिर्फ उसके हक को आदर और सम्मान दो

मोमबत्तियां बुझ गई, शोरगुल खमोशी में तब्दील हो गया! रेलियां, नारे सब शांत! सबका जीवन पटरियों पर चल पड़ा। दुनिया जिसकी उजड़ी दु:ख केवल उसी तक सीमित रह गया। हमारे देश में लड़कियों की आबरू शायद मोमबत्ती बुझने जैसी ही है। हां शोरगुल फिर से होगा दोगुनी रफ्तार के साथ होगा, मोमबत्तियां भी जलेगी, रेलियां भी होगी, नारेबाजी भी होगी, दोगुने जोश के साथ सब होगा। जब कोई दूसरी निर्भया किसी वहशी दरिंदे का शिकार होगी। एक के बाद एक निर्भया यह सदियों से चला आ रहा।

सदियां बदली लोग बदले, जो न बदल सका, वो केवल सोच है। अनेक कारणों से महिलाएं युगों-युगों से प्रताड़ना सहती आई है, माता सीताजी जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना करते-करते त्रस्त हुई, लेकिन समाधान नहीं मिला, इसलिए चीरकाल के लिए धरती में समा गई। पांच पांच पतियों वाली द्रौपदी का चीरहरण भरीं सभा में बड़े-बड़े महारथियों के सामने हुआ। सब पाषाण बने देखते रहे एक अत्यंत अंहकारी एवं निर्लज्ज व्यक्ति की मंशा पूरी होते हुए। स्त्री अनादि काल से प्रताड़ना सहती आई है, जाहिर सी बात है आज स्त्री को अपने आप को शिकार होने से स्वयं बचाना है। समाज में हर तरफ कुछ दुर्जन शिकारी ताक लगाए बैठे हैं। उन पर जितना अंकुश लग रहा है उतनी हिम्मत उनकी और बढ़ रही है। इसलिए जरूरी है हर परिवार अपने-अपने बच्चों को नैतिकता और महिला सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाएं। मां, बहन, बेटी, तो हर परिवार में होती है। जितनी इज्जत अपने घर की महिलाओं की होती है उतनी ही इज्जत और सम्मान दूसरे परिवार दूसरे समाज की महिलाओं की भी होनी चाहिए। इस तरह के संस्कार प्रत्येक घर में दिए जाने चाहिए। विलासिता की विचारधारा को कभी पनपने ही मत दो। वक्त की मांग है कि बेटों को महिला सम्मान बनाए रखने के संस्कार दिए जाएं और बेटियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाए।

लेखिका : बिषना गाजटा
शिमला, हिप्र

यह करने पर समस्या का हल निकल पाना तो मुश्किल है, मगर कुछ साकारात्मक नतीजे अवश्य निकल सकते हैं। कोई भी स्त्री या लड़की ऐसे जघन्य अपराध का शिकार न बने, किसी भी तरह से वो अपने बचाव करनें में सक्षम बने। हर स्त्री अपने प्रति जुल्म का काली, चंडी बनकर मुंहतोड़ जवाब दें। हवाएं कभी किसी से रास्ता नहीं पूछती, सूरज कभी किसी से रोशनी नहीं मांगता। लाख कैद करे, लाख जुल्म तुम पर करें कोई! तुम खुश्बू हो तुम्हें महकने से कोई रोक नहीं सकता।

तुम्हारा वजूद तुम्हारी शक्ति कोई मिटा नहीं सकता। याद करो वो असहनीय कष्ट जो तुमने प्रसव पीड़ा के वक्त सहा, जिसमें एक साथ बीस हड्डियां टूटने जितना दर्द होता है, वो दर्द वो पीढ़ा भी स्त्री हंसते-हंसते सह जाती है और दुनिया कहती है स्त्री कमजोर है! स्त्री कमजोर या लाचार नहीं है। स्त्री कभी भी आसानी से टूटती नहीं है वो टूटती है भावनात्मक प्रहार से, वो टूटती है समाज के वहशीपने से, वो टूटती है अपने प्रति अभद्रता भरें व्यवहार से। वो टूटती है खुद के लिए कुछ न कर पाने की वेदना से, वो टूट जाती है अपने ही आहत मन से! स्त्री के पास दर्द भरे जीवन के अलावा भी बहुत कुछ है बताने के लिए, मगर कहानी, कविता, उपन्यास इन सब में स्त्री शोषित, पीड़ित और वंचित नजर आईं हैं। तुम्हें स्वयं के भीतर झांककर देखना है कहीं तुम्हारी बेड़ियां मानसिक बेड़ियां तो नहीं है, जो तुमने खुद को, खुद से ही पहना रखी है।

वक्त कितना भी बुरा क्यों न चल रहा हो, एक उम्मीद भरी उड़ान लगाना जरूरी है, स्वयं के अस्तित्व को जांचने के लिए। भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिए मां, बहन, पुत्री, पत्नी आदि सभी रूपों को देवी स्वरूप माना गया है और इस स्वरूप को पूजने की परंपरा रही है। मगर महिलाओं को पूजने भर से क्या सारी समस्याए सुलझ गई? उसको देवी का दर्जा देकर, फिर उस पर जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं। आज जरूरत है कि देश की आधी आवादी यानी महिलाओं का हर क्षेत्र में सशक्तिकरण किया जाए, जो देश के विकास का आधार बनेंगी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली उस दमनकारी सोच को मारना जरूरी है। जिसके कारण महिलाएं हो या फिर लड़कियां अपने आप को हर जगह असुरक्षित महसूस कर रही है।

आधुनिक समाज महिलाओं के अधिकार को लेकर जागरूक तो है। सरकार, कई सारे समाजसेवी समूह, एनजीओ आदि सभी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हालांकि अपराधिक गतिविधियां फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रही, मगर महिलाओं ने भी हिम्मत नहीं हारी। तमाम जुल्म सहने के बाद भी उसका व्यक्तित्व और निखरकर सामने आ रहा है।

(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

अनंत ज्ञान
प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. दिलीप धाकड़ द्वारा फोकस हिमाचल मीडिया प्रा. लि. के लिए बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक समरजीत, समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी
आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN01099
ई-मेल : anantgyaanmedia@gmail.com
फोन नंबर : 01892-299098

न्यूज ब्रीफ

खेल उपकरणों के लिए प्रदान की जा रही वित्तीय मदद

अनंत ज्ञान, मंडी। जिला खेल परिषद की बैठक उपायुक्त एवं परिषद के अध्यक्ष अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें जिला में खेल अधोसंरचना के विकास पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि खेल कल्याण योजना के अंतर्गत उभरते हुए खिलाड़ियों को खेल उपकरणों एवं डाईट मनी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त करने वाले 20 वर्ष की आयु तक के खिलाड़ियों को लाभान्वित किया जाता है। इसमें 2000 रुपए डाईट मनी तथा 10 हजार रुपए प्रतिवर्ष खेल उपकरणों के लिए प्रदान करने का प्रावधान है।

द ग्रेट हिमालयन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 12 से

अनंत ज्ञान, मंडी। द ग्रेट हिमालयन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 12 से 15 सितंबर तक चंडीगढ़ में करवाया जा रहा है। जिसमें 8 टीमों के 130 खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता को करवाने का मकसद युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए है। भाग लेने वाली टीमें हिमालयन होक्स, पीजीआई चंडीगढ़, न्यू लाइफ लाइन हिमाचल प्रदेश, जल शक्ति विभाग, हेल्थ यूनाइटेड, शौकीन क्लब चंडीगढ़, बाल बस्टर कुल्लू, एम्पायर स्ट्राइकर भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के संचालक डॉ. अनूप कुमार, डॉ. संदीप नेगी, डॉ. सुमित शर्मा, आनंद कागरा, विनीत शर्मा, सचिन शर्मा ने बताया कि यह प्रतियोगिता का तीसरा सीजन है। इससे पहले दो सीजन सफलतापूर्वक संपन्न किए गए थे। प्रतियोगिता का मकसद लोगों को नशे से दूर रखना एवं खेलों की तरफ प्रभावित करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा खेलों में अपनी रुचि दिखाए।

जखेड़ू की छात्राओं ने कबड्डी में मारी बाजी

अनंत ज्ञान, सुंदरनगर। अंडर 14 छात्रा वर्ग सुंदरनगर खंड की खेल प्रतियोगिता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलापड़ में आयोजित की गई जिसमें राजकीय उच्च पाठशाला जखेड़ू की छात्राओं ने कबड्डी में प्रथम स्थान पर रह कर उपलब्धि हासिल की। स्कूल पहुंचने पर मुख्याध्यापक टेकचंद, स्कूल स्टाफ सदस्यों व स्कूल के बच्चों ने कबड्डी टीम के सदस्यों को हार पहना कर स्वागत किया। मुख्य अध्यापक ने बच्चों को संबोधित करते हुए खिलाड़ियों को बधाई दी व जिला स्तर पर चयनित राधिका, अंकिता, कंचन और साक्षी को जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में अपना अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।

प्रतियोगिता में छाई भाम्बला स्कूल की छात्राएं

अनंत ज्ञान, सरकाघाट। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोट हटली में हुई संपन्न हुई खंड स्तरीय अंडर 14 (छात्रा) खेलकूद प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भाम्बला की छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुये लोक नृत्य में पहला स्थान, भाषण तथा कबड्डी प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रौशन किया। कबड्डी में अपने शानदार प्रदर्शन के कारण विद्यालय की चार छात्राओं क्रमशः हिमानी, राधिका, मुस्कान तथा मानवी का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। विद्यालय प्रधानाचार्य दिनेश ठाकुर ने छात्राओं को बधाई दी।

घाण स्कूल ने प्राप्त किया आलराउंड बेस्ट खिताब

अनंत ज्ञान, पंडोह। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोट मोर्स में भी अंडर 14 बालिका खेलकूद प्रतियोगिता विधिवत संपन्न हो गई। इस प्रतियोगिता में बदार घाटी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घाण स्कूल की बालिकाओं ने राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी व खो खो का प्रदर्शन करते हुए। दोनों इवेंट में पड़ प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं प्रतियोगिता में ऑलराउंडर बेस्ट का खिताब अपने नाम किया। स्कूल प्रधानाचार्य रेणू शर्मा ने बताया कि हमारी खुशियों में इन खिलाड़ियों छात्राओं ने चार चांद लगाए हैं।

रामकृष्ण बने किसान यूनियन नलसर पंचायत के प्रधान

अनंत ज्ञान, नेरचौक। हिमाचल किसान यूनियन की बैठक जिला अध्यक्ष भूप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष देवी रूप सैनी, जिला महासचिव दुनी चंद शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में करीब 50 किसानों ने भाग लिया बैठक में पंचायत स्तरीय इकाई का भी गठन किया गया, जिसमें सर्वसमिति से रामकृष्ण को प्रधान, ईश्वर दास को महासचिव, छांगू राम को वित्त सचिव तथा रीता देवी, नंदलाल, मस्तराम, गुरी सिंह व प्रभात आनंद को सदस्य बनाया गया शेष कार्यकारिणी के गठन लिए प्रधान, महासचिव व वित्त सचिव को संयुक्त रूप से अधिकृत किया गया बैठक में ताराचंद, गुरु सिंह, मोहनलाल विशन दत्त, कुशाल, नंदलाल, मस्तराम, बृजलाल, मैहर, हेम सिंह, थालिया, संतोष, रणजीत सिंह, रमेश चंद, पूर्ण चंद, छम्मा देवी, देवकू, पार्वती, कौशल्या, रीता देवी, कांता, कौशल्या, हल्या, सावित्री, छुनंकी, कौरा, प्रभी, धर्म सिंह, विक्रांत, प्रभात आनंद, ईश्वर दास, भालचंद शर्मा, छांगू राम, मेहर चंद, विजय, कौशल्या देवी, मीना देवी, कौशल्या, गीता, व भगत राम आदि शामिल रहे।

महिला से अश्लील हरकत करने पर केस दर्ज

अनंत ज्ञान, सुंदरनगर। सुंदरनगर पुलिस थाना के तहत एक महिला ने गांव के ही एक व्यक्ति पर उसके साथ अश्लील हरकतें करने और परिवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। अपनी शिकायत में महिला ने बताया कि बीती रात करीब 11 बजे कमरे से बाहर निकली थी। तभी अंधेरे में कहीं छुपा हुआ रामलाल निकला और उस पर झपट गया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पति और भांजा बाहर पहुंच गए। उन्हें देखते ही रामलाल वहां से भाग निकला। महिला ने बताया कि यह पहली बार नहीं है कि रामलाल ने उसके साथ इस प्रकार से अश्लील हरकत की हो। जब उसके पति विदेश में थे तो उस समय रामलाल ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से उससे संपर्क किया था। लेकिन उसने उससे बात करना छोड़ दिया था। उसने सारी बातें पति को बताई और सुंदरनगर थाना में मामला दर्ज करवाया। लेकिन समझौता कर लिया, उसके बावजूद उसकी हरकतें कम नहीं हुई। डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए महापौर ने स्वच्छता कर्मियों के साथ की बैठक

अवैध होर्डिंग लगाने पर होगी कार्रवाई

पुष्पराज, मंडी

नगर निगम मंडी के क्षेत्राधिकार से प्राप्त हो रही स्वच्छता संबंधी शिकायतों के व वार्डों में उत्पन्न हो रही स्वच्छता कर्मियों की समस्याओं के सुलझाने सुलझाने और शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बैठक का आयोजन नगर निगम महापौर वीरंद्र भट्ट शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें प्रत्येक वार्ड सुपरवाइजर, सफाई ठेकेदार उपस्थित रहे।

इस दौरान महापौर वीरेंद्र भट्ट शर्मा ने बताया कि सभी वार्डों से 10 बजे तक कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है जिस कारण लोगों को असुविधा हो रही है और वार्डों में कूड़ा 1 बजे तक उठ रहा है। उन्होंने स्वच्छता कर्मियों को आदेश दिए कि वार्डों में कूड़ा उठाते वक्त सीटी बजाना अनिवार्य रहेगा क्योंकि कई कर्मचारी कूड़ा एकत्रित करने घरों में जाते है उनके पास व्हिसल (सीटी) नही होती है जिससे लोगों को मालूम नही चलता है और जब तक लोग कूड़ा देने घर से बाहर आते है तब तक कूड़ा एकत्रित करने वाला कर्मी अगले घरों में पहुंच जाता है। बैठक में कूड़ा एकत्रितकरण की समय सारणी तय की गई ताकि कूड़ा समय पर लिया जा सके और कूड़ा निष्पादन स्थल पर पहुंचाया जा सके।(अनंत ज्ञान)

बैठक के दौरान सफाई कर्मी अपनी समस्याओं को महापौर के समक्ष रखते हुए।

अवैध होर्डिंग शीघ्र ही हटा दिया जाएगा

बैठक के दौरान महापौर ने शहर में अवैध रूप से लगाए गए अवैध बैनर, होर्डिंग यहां तक कि पोलों/खंभों में लगाए गए है उन्हें शीघ्र ही हटा दिया जाएगा और बुधवार से जो भी पोस्टर आदि अवैध पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और चालान भी काटे जाएंगे। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है अपनी संस्थानों का प्रचार व प्रसार हेतु सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल के द्वारा करें।

शहर के शौचालयों को दिन में 3 बार किया जाएगा साफ

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नगर निगम के क्षेत्राधिकार में जितने भी सार्वजनिक शौचालय है उन में दिन में तीन बार फिनाइल का छिड़काव किया जाए। महापौर ने सभी वेंकट हॉलों के मालिकों से निवेदन किया कि वह अपने बैंकेट हॉल का पंजीकरण निगम कार्यालय में करवाएं तथा वेंकट हॉलों में आयोजित छोटे व बड़े कार्यक्रमों की सूचना नगर निगम कार्यालय में 24 घंटे पहले दें। उन्होंने बताया कि वेंकट हॉलों के मालिकों से निर्धारित शुल्क लिया जाएगा साथ ही उन्हें समय पर कूड़ा एकत्रित करने के लिए गाड़ी व स्वच्छता कर्मी उपलब्ध करवाया जाएगा।

प्रति किलो 100 से अधिक कूड़ा होने पर स्वयं करें निष्पादन

महापौर ने कहा कि नगर निगम आयुक्त ने एक अभियान चलाया था जिसमें औचक निरीक्षण कर मौके पर इधर-उधर कूड़ा फेंकने वालों के चालान किए गए थे। माननीय महापौर ने कहा कि ऐसे संस्थान, होटल जिनका कूड़ा 100 प्रति किलो से अधिक है तो उनसे निवेदन है वह अपने कूड़ा का निष्पादन स्वयं करें। महापौर ने कहा की सिंगल यूज प्लास्टिक को बाय बैक नीति के आधार पर 75 रुपए किलो के हिसाब दे और नगर निगम द्वारा खरीदा जाएगा। महापौर ने बच्चों व स्कूल के अध्यापकों से निवेदन किया कि वह बच्चों को मोर्निंग असेंबली में स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। साथ ही किसी भी प्रकार की स्वच्छता से संबंधि शिकायत व डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण से संबंधित शिकायतों को निगम के व्हाट्सएप नंबर 91 89884-02528 पर कर सकते है।

बैरी पंचायत पर लगे आरोपों को प्रधान व लोगों ने बताया निराधार

सड़क को पक्का करने में घोटाले की शिकायत का मामला

अनंत ज्ञान, रत्ती

ग्राम पंचायत बैरी में मनरेगा के तहद बटेहड़ी गांव की सड़क को पक्का करने के बारे में हुए घोटाले की शिकायत स्थानीय व्यक्ति द्वारा की थी। शिकायत को लेकर अब नया मोड़ सामने आया है। प्रधान दुर्गा देवी ने आरोपों को निराधार बताया है तथा कहा कि इनकी आपसी रंजिश के चलते आरोप लगाए जा रहे हैं। मनरेगा के तहत जिस सड़क में काम किया गया है शिकायतकर्ता ने उसे नहीं दिखाया है, बल्कि जिस जिस सड़क पर कोई कार्य नहीं हुआ है उसे दिखाया गया है। खंड विकास अधिकारी सहित मीडिया वालों को भी गुमराह किया गया है।

जांच खंड विकास अधिकारी शीला ठाकुर द्वारा करने व 15 दिन के भीतर रिपोर्ट करने की बात कही है। जांच में सब साफ हो जाएगा। ग्राम पंचायत बैरी की प्रधान दुर्गा देवी ने बताया कि इस संबंध में शिकायतकर्ता के आरोप निराधार व बिलकुल झूठे हैं। शिकायतकर्ता के उनके व वार्ड सदस्य सुमन के परिवार के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं तथा वह व्यक्ति लोगों के साथ साथ बीडीओ व मीडिया को भी गुमराह कर रहा है। उन्होंने बताया कि बटेहड़ी गांव को दो रास्ते हैं तथा जिस रास्ते पर मनरेगा के तहत कार्य हो रहा है उसको न दिखा कर उन्होंने दूसरे रास्ते को दिखा दिया, जिस पर कार्य अभी होना है। प्रधान ने कहा कि बीडीओ बल्ह टीम सहित मौके पर जांच करने आई थी तथा उनको पूरे तथ्यों सहित मामले से अवगत करवाया गया है।

वहीं वार्ड सदस्य सुमन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सरासर झूठा बताया है। वार्ड सदस्य सुमन पर आरोप लगाए थे कि वे मनरेगा मजदूरों की हाजिरी लगा कर उन्हें घर भेज देती है तथा उनके पति खुद पंचयात के कार्यों में दखल देते हैं। इसपर वार्ड सदस्य सुमन ने बताया कि सब आरोप सरासर झूठे हैं। स्थानीय लोगों में भूतपूर्व सैनिक मुन्सी राम वर्मा, रूपलाल, तुलसी राम, प्रेमी, मोनिका, कांता, गीता, धनवंती, हिमाचली, चंपा, पार्वती, भावना, रीना, मीना, गुरुदेव सिंह, यशपाल सहित दर्जनों ग्रामीणों ने एकजुट होकर इन आरोपों को निराधार व झूठे बताया है।

बीडीओ बल्ह शीला ठाकुर ने बताया कि शिकायत आयी है तथा इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच की जा रही है।

एबीवीपी ने शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन

अनंत ज्ञान, जोगिंद्रनगर

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र संघ के सदस्य।

जोगिंद्रनगर के राजीव गांधी स्मारक कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज प्राचार्य के माध्यम से प्रदेश शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा।

जानकारी देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इकाई अध्यक्ष नमन ठाकुर ने बताया कि शिक्षा मंत्री से मांग की है कि छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं, विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा परिणाम की गड़बड़ियों को शीघ्र ठीक किया जाए। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की 112 हेक्टेयर जमीन को वापस किया जाए वह सरदार पटेल विश्वविद्यालय का दायरा बढ़ाया जाए प्रदेश में बढ़ते नशा माफिया के ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए कानून व्यवस्था को सुधर जाए।

यदि हमारी मांगे नहीं मानी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज के बाहर भूख हड़ताल में बैठेगा।

खिल स्कूल की बेटियों ने जीती बैडमिंटन की शील्ड

अनंत ज्ञान, पधर। हाईस्कूल खिल की छात्राओं ने गवाली स्कूल में हुई अंडर 14 छात्रा वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता में बैडमिंटन की सील्ड पर कब्जा किया है।

बता दें कि खिल स्कूल में पीईटी अध्यापक और खेल मैदान के न होने के बावजूद भी स्कूल की छात्राओं ने बैडमिंटन की सील्ड जीत कर क्षेत्र व स्कूल का नाम रोशन किया है। सील्ड जीतने में खिल स्कूल के प्राइमरी बिंग में तैनात जेबीटी अध्यापक सतीश की मेहनत रंग लाई है।

सहकारी सभाएं बनाने के लिए लोगों को करें जागरूक : डीसी

अनंत ज्ञान, मंडी

समिति सहकारी सभाएं बनाने को लेकर निरीक्षण करते हुए डीसी मंडी।

उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने कहा है कि जिला सहकारी विकास समिति सहकारी सभाएं बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें, ताकि सहकारिता के माध्यम से लोगों को आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ा जा सके। वर्तमान में मंडी जिला में प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी सेवाएं 238, डेयरी सहकारी सेवाएं 205 और मत्स्य सहकारी सेवाएं 5 पंजीकृत हैं।

उपायुक्त मंडी मंगलवार को जिला सहकारी विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला में मत्स्य पालन में रोजगार

जिले में 238 प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी सेवाएं

की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने समिति को मंडी जिला में कीरतपुर-मनाली फोरलेन के किनारे आउटलेट खोलने की संभावनाएं तलाशने का आग्रह किया।

बैठक में जिला सहकारी विकास समिति के संयोजक सहायक पंजीयक, सहकारी सभाएं मंडी बिक्रम जीत, सदस्य उपनिदेशक पशुपालन डॉ. अतुल पुरी, सहायक निदेशक मत्स्य पालन नीतू सिंह, डीडीएम नाबार्ड राकेश वर्मा, एजीएम एचपीएससीबी उमेश कुमार और पंकज शर्मा, जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति विजय सिंह हमलाल, जिला ऑडिट अधिकारी ओम चंद वर्मा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

सकरोहा स्कूल के छात्रों का बैडमिंटन पर कब्जा

अनंत ज्ञान, नेरचौक। बल्ह खंड स्तरीय अंडर 14 छात्र वर्ग की खेल प्रतियोगिताएं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगला में तथा छात्रा वर्ग की खेल प्रतियोगिताएं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भंगरोटू में संपन्न हुई, जिसमें राजकीय उच्च पाठशाला सकरोहा के खिलाड़ी छात्र व छात्राओं का क्रमशः वॉलीबॉल व बैडमिंटन में अपना दबदबा कायम रखा। राजकीय उच्च पाठशाला सकरोहा के छात्रों ने वॉलीबॉल की रनर अप की ट्रॉफी पर कब्जा किया। छात्राओं ने बैडमिंटन मैच में ट्रॉफी अपने नाम की।

अस्पताल में अतिरिक्त काउंटर शुरू करने पर नीरज ने जताया आभार

अनंत ज्ञान, मंडी

दो अतिरिक्त काउंटर में पर्ची बनाते लोग।

मंडी जोनल अस्पताल में अतिरिक्त दो काउंटर की व्यवस्था करने के लिए अस्पताल प्रशासन का समाजसेवी नीरज हांडा ने आभार जताया है। उन्होंने कहा कि दो अतिरिक्त काउंटर लगने से अस्पताल में आ रहे मरीजों और तीमारदारों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि हमने अस्पताल में टोकन व्यवस्था लाने और लोगों को राहत देने के लिए प्रयास किया था लेकिन वह काम नहीं कर सका। उन्होंने अस्पताल में दी गई 3 टोकन मशीनों को ओपीडी में इस्तेमाल करने के लिए कहा है और साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी नरेंद्र भारद्वाज और डीएस वर्मा का धन्यवाद किया है।

शिवम शिमला से करेगा एमबीबीएस की पढ़ाई

अनंत ज्ञान, जोगिंद्रनगर। बालकरूपी का रहने वाला शिवम पराशर आईजीएमसी शिमला से एमबीबीएस की पढ़ाई करेगा। शिवम ने नीट की परीक्षा को 647 अंक के साथ पास किया है।

शिवम के पिता करतार चंद शिक्षा विभाग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गलू में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं, जबकि माता दीपा देवी गृहणी हैं। स्कूल के प्रबंधक ओम मरवाह, प्रधानाचार्य राजेश डोगरा, पूर्व प्रधानाचार्य ओपी ठाकुर आदि ने शिवम को बधाई दी है।

स्यांजी रहा ओवरऑल विजेता

विजेता टीम के साथ मुख्यातिथि ब्रह्मदास चौहान एवं अन्य गणमान्य।

अनंत ज्ञान, नेरचौक

वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्यान्जी में सलवाहन खंड की अंडर-14 छात्रा वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हो गई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के उपाध्यक्ष ब्रह्मदास चौहान ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य अक्षय शर्मा ने मुख्यातिथि को सम्मानित किया। ब्रह्मदास चौहान ने समिति को 5100 रुपए भेंट किए।

मार्च पास्ट में सीसे रजवाड़ी प्रथम तथा सीसे स्यांजी दूसरे स्थान पर रहे जबकि छात्रा वर्ग की इस प्रतियोगिता में सीसे स्यांजी ने ओवरऑल की ट्रॉफी हासिल की।

धवाली गांव में बिजली की लाइन पर गिरा पेड़, जले उपकरण

अनंत ज्ञान, सुंदरनगर

मंडी जिला के सुंदरनगर उप मंडल की चमोखा पंचायत के धवाली गांव में बिजली की मेन लाइन पर चीड़ का पेड़ गिर गया, जिससे बिजली की अचानक वोल्टेज बढ़ने के कारण साथ लगते आधा दर्जन घरों के विद्युत उपकरण जल गए।

इस हादसे में लोगों के घरों के बल्ब, फ्रिज, टीवी, इंडक्शन, सेटअप बॉक्स तथा वाई-फाई कनेक्शन पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि यह हादसा विभागीय लापरवाही के कारण हुआ है। गांववासी धर्म सिंह, राजू, कृष्ण, रोशन और चंद कुमार ने बताया कि इन्होंने विद्युत विभाग के संबंधित कनिष्ठ अभियंता से कई दिन पहले इस पेड़ के लाइन पर गिरने की आशंका व्यक्त करते हुए इसे समय रहते काटने की गुहार लगाई थी, मगर विभाग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे यह हादसा हुआ है।

ग्रामीण ने इस हादसे की निष्पक्ष जांच व ग्रामीणों को उचित मुआवजा दिलाने की सरकार व प्रशासन से मांग की है।

सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत

अनंत ज्ञान, नेरचौक। शनि मंदिर डडोर के समीप एक राह चलते वृद्ध व्यक्ति के जीप की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार को उस समय हुआ जब यह वृद्ध व्यक्ति शनि देव मंदिर से डडोर की ओर जा रहा था। उसी समय मंडी की ओर से एक तेज रफ्तार से जीप आई जिसकी चपेट में यह वृद्ध व्यक्ति आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

मृतक की पहचान दोहंदी निवासी लक्ष्मण (62) के रूप में की गई है। बल्ह पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

लैब टेक्नीशियन संघ ने जताया विरोध

अनंत ज्ञान, मंडी

अखिल भारतीय स्वास्थ्य विभाग लैब टेक्नीशियन संघ जिला मंडी इकाई ने हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य निदेशालय व चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के कैडर को अलग करने पर आपत्ति जताई है।

संघ के जिला प्रधान अमरजीत शर्मा ने कहा कि एक तो संघ नहीं चाहता है कि स्वास्थ्य निदेशालय व चिकित्सा शिक्षा निदेशालय का कैडर अलग-अलग हो। विभाग हमारे कर्मचारियों को आप्शन देने के लिए कई जगह दबाव डाल रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। हमारा मुख्यमंत्री सुक्खू, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल व स्वास्थ्य सचिव से आग्रह है कि अगर स्वास्थ्य निदेशालय व चिकित्सा शिक्षा निदेशालय का कैडर अलग-अलग करना जरूरी ही है, तो पहले दोनों कैडरों के नोर्म क्लीयर होने चाहिए। उसमें हमारे दोनों निदेशालय के अधीन होने वाले कर्मचारियों के हित सुनिश्चित हो।

कर्मचारियों को पदोन्नति के ज्यादा अवसर मिले। लैब टेक्नीशियन जिस पद पर नौकरी में लगते हैं उसी पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लैब टेक्नीशियनों की परफोरमा प्रमोशन व समयबद्ध पदोन्नति होनी चाहिए। कर्मचारियों को अलग-अलग कैडर में शामिल होने के लिए ऑप्शन को ज्यादा समय मिले, ताकि कर्मचारी सोच समझ कर आप्शन दे सके।

हमारा यह भी आग्रह है कि अखिल भारतीय स्वास्थ्य विभाग लैब टेक्नीशियन संघ की प्रदेश इकाई को विश्वास में लेकर ही कोई निर्णय लें।

समस्या निकास नालियां न होने के कारण महादेव व धनोटू का पानी सड़क पर हो रहा जमा

धनोटू के समीप एनएच पर बना तालाब

आदर्श यादव, नेरचौक

नाचन व सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की सीमा पर धनोटू के समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर बारिश का पानी भर जाने से पानी ने यहां तालाब का रूप धारण कर लिया है। जिससे राहगीरों को चलने फिरने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

सड़क में तालाब बन जाने से टूरिस्ट, स्थानीय लोग, वाहन चालक तथा स्कूली बच्चे बेहद परेशान है। सड़क पर पानी भर जाने की समस्या यहां निकास नालियां न होने के कारण पैदा हुई है। एनएच से ऊपर महादेव व धनोटू का बारिश का सारा पानी इसी जगह पर इकट्ठा होता है। निकास नालियां न होने के कारण है पानी सड़क में फैल जाता है तथा मामूली सी बारिश होने पर तालाब का रूप धारण कर लेता है। (अनंत ज्ञान)

धनोटू के समीप मार्ग पर बारिश के पानी ने मचाया कहर।

स्थानीय लोग परेशान

निकास नालियों का शिकार किया जाए निर्माण ग्रामीण सड़क पर तालाब बन जाने के कारण यहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। गांव का सीन दौलतपुरा संतोष कुमार, हेम सिंह, नीरज वंदना व राजकुमार ने बताया कि घर के सामने सड़क पर पानी इकट्ठा हो जाने से चलना फिरना मुश्किल हो गया है। बच्चों को स्कूल भेजने में भी भारी परेशानियां उठनी पड़ रही है। साथी पानी इकट्ठा होने से यहां मच्छर भी भारी मात्रा में जमा हो गए हैं, जिनके काटने से मलेरिया होने की भी आशंका पैदा हो रही है। ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार व प्रशासन से निकास नालियों का निर्माण करवा कर इस समस्या का स्थाई हल करने की गुहार लगाई है।

विभागीय लापरवाही बनी समस्या

महादेव पंचायत के प्रधान नीलकमल ने एन एच पर पानी भर जाने से लोगों को हो रही समस्या के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बताया कि पंचायत की ओर से कई बार संबंधित विभाग को महादेव व धनोटू सहित राष्ट्रीय उच्च मार्ग के किनारे पानी की निकासी के लिए निकास नालियों का निर्माण करने की गुहार लगाई मगर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। परिणामस्वरूप हल्की सी बारिश होने पर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर पानी इकट्ठा होने से लोगों को भारी दिक्कतों से जुड़ना पड़ रहा है।

पैराडाइज स्कूल के छात्रों ने शतरंज प्रतियोगिता में दिखाया कमाल

चयनित विद्यार्थी सामूहिक चित्र में।

उमेश भारद्वाज, सुंदरनगर

पैराडाइज पब्लिक स्कूल सुंदरनगर के खिलाड़ियों ने एक बार फिर शतरंज प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का डंका बजाया है।

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलापड में आयोजित अंडर-14 छात्र-छात्रा वर्ग के खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में शतरंज खेल में पैराडाइज पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं का जिला स्तर के लिए चयन हुआ है। स्कूल के प्रधानाचार्य प्रकाश चंद ने बताया कि प्रतियोगिता के छात्र वर्ग में अनमोल प्रथम स्थान और शिवम तृतीय स्थान पर रहा है। वहीं छात्रा वर्ग में मायरा प्रथम स्थान, सुनिधि द्वितीय स्थान और परणिका चौथे स्थान तथा मेधावी 5वें स्थान पर रही। इन छात्र-छात्राओं ने बेहतरीन प्रदर्शन करके यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने बताया कि छात्र-छात्राओं की इस उपलब्धि पर स्कूल के अध्यक्ष जय सिंह ने बधाई दी।

व अदालत डॉ. भावना वर्मा सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी पधर, तहसील पधर

श्री सुशील दत्त पुत्र नाग देव गांव बसेहड़, डाकघर व तहसील पधर, जिला मंडी हि.प्र.। ....प्रार्थी

वनाम आम जनता ...प्रत्यार्थी

इश्तहार/अखबारी

आवेदन पत्रः- इश्तहार बराये इंतकाल दर्ज करने बारे।

आवेदक सुनील दत्त पुत्र नाग देव गांव बसेहड़, डाकघर व तहसील पधर, जिला मंडी हि.प्र. ने इंतकाल दर्ज करने बारे दरख्वास्त दी है। जिसमें उन्होंने गुजारिश की है कि उनके पिता श्री नागदेव की मृत्यु हो चुकी है तथा उन्होंने बसीयत अपने लड़के सुनील दत्त के नाम पर कर रखी है। अब प्रार्थी सुनील कुमार अपने पिता की मृत्यु के पश्चात इसका इंतकाल करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसकी माता श्रीमती सोमा देवी पिछले कई वर्षों से लापता है। जिसकी हाजिरी इंतकाल हेतु जरूरी थी, प्रार्थी सुनील दत्त ने बताया कि उसके पास उसकी सौतेली माता का कोई भी स्थायी पता नहीं है, कि वह कहां रहती है। मैं अपने पिता द्वारा करवाई गई वसीयत इंतकाल दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सोमा देवी पत्नी नाग देव को सूचित किया जाता है कि यदि मृतक स्व. नाग देव द्वारा करवाई गई वसीयत का इंतकाल दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18.10.2024 को कार्यालय पधर, मंडी में अपना उजर/एतराज/ पेश कर सकता है।

यह इश्तहार आज दिनांक 30.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

डॉ. भावना वर्मा सहायक प्रथम श्रेणी पधर, तहसील पधर

बम बम भोले..



खराब मौसम के कारण हुई सिर्फ 27 उड़ानें

अनंत ज्ञान, भरमौर

हेलिटैक्सी के जरिए भरमौर से गौरीकुंड जाने आने जाने वाले यात्रियों को काफी इंतजार करना पड़ा। इस दौरान हेलिटैक्सी के जरिए यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए खराब मौसम बाधा बन गया।

मौसम के खराब होने के चलते दोनों हेलिकॉप्टरों के द्वारा केवल 27 उड़ने ही भरी गई जिसमें राजश एरो स्पोर्ट्स द्वारा कुल 14 उड़ाने भरी गई और 70 यात्रियों को गौरीकुंड पहुंचाया गया और 70 ही यात्रियों को गौरीकुंड से वापस पर भरमौर हेलिपैड पर पहुंचाया गया। इसी

दौरान यहां पर तैनात दूसरी हेली टैक्सी थंबी एवियशन के द्वारा 13 चक्कर लगाए गए। जिसमें 73 यात्रियों को गौरीकुंड तथा 70 यात्रियों को गौरीकुंड से भरमौर पहुंचाया गया । सुबह मौसम ठीक होने के चलते हेलिटैक्सी ने तड़के ही यात्रियों को पहुंचाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन दोपहर होने तक मौसम के एका-एक खराब होने के चलते उड़ाने फिर से रद्द करनी पड़ी।

रविवार को राजस एरोस्पोर्टस द्वारा 42 उड़ाने भरी गई। जिसमें 206 यात्रियों को गौरीकुंड तथा 210 को गौरीकुंड से भरमौर वापस पहुंचाया गया। इस दौरान रविवार को थंबी एविएशन द्वारा 37 उड़ने की गई जिसमें 199 यात्रियों को गौरीकुंड और 207 यात्रियों को भरमौर लाया गया। बहरहाल पिछले दो दिनों से एकाएक मौसम के खराब हो जाने के चलते हेली टैक्सी द्वारा यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का इंतजार लंबा हो गया है।

न्यूज ब्रीफ

शिव लंगर सेवा समिति डलहौजी का 5वां भंडारा आयोजित

अनंत ज्ञान, डलहौजी। शिव लंगर सेवा समिति डलहौजी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगातार पांचवा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यह भंडारा एनएच 154ए पर स्थित लाहड़ गांव के पास मैगी प्वाइंट पर बीते 1 सितंबर से लगातार जारी है जिसमें मणिमहेश यात्रा के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को प्रसाद रूपी भोजन करवाया जा रहा है। शिव लंगर सेवा समिति डलहौजी के अध्यक्ष ने बताया कि वे बीते 5 वर्षों से इसी जगह भगवान शिव की कृपा लंगर का आयोजन करवाते आ रहे हैं।

एचआईवी/एड्स विषय पर लगाया प्रशिक्षण शिविर

अनंत ज्ञान, चंबा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंबा के सभागार में हेल्थ केयर प्रोवाइडर (आशा कार्यकर्ता) के लिए एचआईवी /एड्स एक्ट 2017 पर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में संबोधित करते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जालम भारद्वाज ने राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी द्वारा किए जा रहे कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एचआईवी एड्स एक लाइलाज बीमारी है तथा जागरूकता ही इसके बचाव का एकमात्र उपाय है। उन्होंने इस बीमारी के फैलने के कारणों तथा लक्षण और बचाव के बारे विस्तृत जानकारी दी। शिविर में जिला एड्स कार्यक्रम अधिकारी डॉ. हरित पुरी ने बताया कि जिले में गर्भवती स्त्रियों की एचआईवी जांच विशेष रूप से की जाती है।

हिना को मिली जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा राशि

अनंत ज्ञान, सरकाघाट। उपमंडल सरकाघाट की ग्राम पंचायत फतेहपुर के नघला गांव की हिना ठाकुर को जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपये की बीमा राशि प्रदान की गई है। हिना के पति स्वर्गीय विशाल ठाकुर की अकस्मात मृत्यु के बाद यह राशि उन्हें दी गई। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक गोपालपुर शाखा के प्रबंधक अनुराग हुड्डी ने एक औपचारिक कार्यक्रम में यह चेक हिना को सौंपा। इस अवसर पर उपस्थित ग्राहकों को संबोधित करते हुए हुड्डी ने बताया कि विशाल ठाकुर ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा कराया था और अपनी पत्नी हिना को नामित किया था।

योजनाओं की जानकारी देने के लिए लगेंगे शिविर

ओपी शर्मा, चंबा। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को लेकर विकासखंड सलूणी, चंबा तथा भटियात में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला श्रम कल्याण अधिकारी श्वेता कुमारी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य कामगार कल्याण बोर्ड के तत्वावधान में विकासखंड सलूणी के तहत 4 सितंबर को सुबह 11 बजे सलूणी में ग्राम पंचायत सलूणी, सिंगाधार तथा दिघाई के कामगारों को हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी । 17 सितंबर को ग्राम पंचायत सुंड़ला, मंजीर तथा व्याना के कामगारों की सुविधा के लिए ग्राम पंचायत सुंड़ला में सुबह 11 बजे जागरूकता शिविर आयोजित होगा । श्वेता ने बताया कि 5 सितंबर को ग्राम पंचायत ककीरा- जरेई, ककीरा-कस्बा, चलामा, घटासनी तथा तारागढ़ के कामगारों की सुविधा के लिए सुबह 11 बजे ग्राम पंचायत ककीरा-जरेई में जागरूकता शिविर आयोजित होगा । 20 सितंबर को ग्राम पंचायत नैनीखड्ड , तुणूहट्टी, मेल, जियुन्ता, तथा बैली के तहत ग्राम पंचायत नैनीखड्ड में सुबह 11 बजे जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा ।

टूटी सड़क के कारण हो रहे हादसे, प्रशासन बेखबर

मुकेश कुमार, डलहौजी

एनएच 154 ए पर स्थित तलगूट के पास बीते 1 वर्ष में एक के बाद एक लगातार चार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें जानी और माली दोनों तरह-तरह के नुकसान आम आदमी को झेलने भी पड़े हैं।

बता दें अभी हाल ही में मणिमहेश यात्रा के लिए आए कुछ पंजाब वासी अपनी सफेद रंग की टियागो कार में भी इसी जगह अल सुबह दुर्घटना का शिकार हो गए जिसमें एक की मौके पर ही मौत एवं अन्य तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन न प्राधिकरण ने टूटी फेंसिंग की जगह छोटे पत्थर लगाकर खानापूर्ति करती दिख रही है जबकि

टूटी हुई सड़क जो हादसों का कारण बन रही है।

इन हुई दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए न प्राधिकरण को इस जगह पर चेतावनी बोर्ड लगाने चाहिए तो वहीं दूसरी और टूटी फैंसिंग को भी रिपेयर करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो सके।

इस बारे में डलहौजी टैक्सी यूनियन बस अड्डा के सदस्यों ने एनएच प्राधिकरण पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर जल्द ही इस जगह को चौड़ा न किया गया तो वह न प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। सदस्यों ने बताया कि कई बार उन्होंने इस संकरे मोड को लेकर एनएच के सहायक अभियंता प्रमोद कुमार को लिखित एवं मौखिक रूप से भी आगाह किया किंतु अभी तक न प्राधिकरण द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाए गए। जो एक हैरानी का विषय है। स्थानी ग्रामीणों की भी मांग है कि एनएच पर जो स्पोर्ट खतरनाक है उन्हें चिन्हित किया जाए और वहां चेतावनी चिन्ह लगाए जाएं जिससे आने वाले बाहरी पर्यटक एवं वाहन चालक सतर्क हो सके।

नगाली विद्यालय ने जीता बैडमिंटन का खिताब

अनंत ज्ञान, डलहौजी

बनीखेत जॉन -14 छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुनियाला जिला चंबा में 1 सितंबर से 3 सितंबर को खेला गया, इसमें राजकीय वरिष्ठ उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय बनीखेत के प्रधानाचार्य प्रीतम चंद जी ने मुख्यतिथि के रूप में शिरकत की।

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नगाली स्कूल की /14 लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बैडमिंटन में विजेता और कुश्ती में 35 किलोग्राम वर्ग में तन्वी आठवीं कक्षा ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया बच्चों की जीत पर स्कूल के प्रधानाचार्य संदीप राठौर ने कहा कि यह जीत खिलाड़ी छात्राओं और स्थानीय स्कूल के डीपीई

बच्चों को सम्मानित करते हुए मुख्यातिथि व अन्य।

अविनेश टंडन की कड़ी मेहनत का नतीजा है। जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया प्रधानाचार्य महोदय ने इस मौके पर स्कूल के सभी स्टाफ सदस्यों को भी बधाई दी है।

इन बच्चों ने न केवल विद्यालय का वल्कि गांव का नाम भी रोशन किया है तीन छात्राओं का चयन जीविका 9वीं कक्षा और मीनाक्षी 9वीं कक्षा तन्वी आठवीं क्लास जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। जिला स्तरीय टूर्नामेंट के लिए प्रधानाचार्य महोदय ने अग्रिम शुभकामनाएं दी तथा भविष्य में आने वाली अंडर-19 छात्र-छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता के लिए इस प्रकार का प्रदर्शन दोहराने की वकालत की ।

किसान खाद, कीटनाशक और कृषि मंडी का बनवाएं लाइसेंस

अनंत ज्ञान, चंबा

उपनिदेशक कृषि विभाग डॉ. कुलदीप धीमान ने बताया कि जिला के किसानों को उनकी उपज का बेहतर प्रतिफल मिले इसके लिए सभी विकास खंडों मे किसान उत्पादक संघ (एफपीओ) बनाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि किसानों को अपनी कृषि उपज का बेहतर प्रतिफल मिले तथा मंडियों में कृषि उपज की बिक्री के दौरान बिचौलियों की मुनाफाखोरी से बचने के लिए किसान उत्पादक संघों को कृषि उपज मंडी का लाइसेंस बनवाना आवश्यक है । लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सचिव कृषि उपज मंडी समिति चम्बा के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है । डॉ. धीमान ने ऐसे सभी कृषक उत्पादक संघों से अनुरोध किया है कि वह बीज, खाद, कीटनाशक बेचने तथा कृषि उपज मंडीकरण का लाइसेंस बनवा लें। बीज, खाद, कीटनाशक बेचने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के नजदीकी कार्यालय में संपर्क करें।

11 केवी लाइन की चपेट में आने से कर्मी की दर्दनाक मौत

आजम डार, चुराह

उपमंडल चुराह के अंतर्गत झज्जाकोठी अुनभाग में बिजली बोर्ड के टीमेट की 11 केवी लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा सोमवार को हुआ। मामले की सूचना मिलते ही बोर्ड के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सिविल अस्पताल तीसा में बेसुध कर्मचारी ले जाया गया। यहां चिकित्सकों उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान पवन कुमार 29 पुत्र नानक चंद गांव डाकघर टिकरीगढ़ तहसील चुराह

टीम गठित कर होगी लापरवाही की जांच

जिला चंबा के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार पवन कुमार लाइन को दुरुस्त करने के लिए गया था। हालांकि, बोर्ड ने इसके लिए बिजली बंद करने का परमिट लिया था, लेकिन जैसे ही पवन काम करने लगा तो उसे करंट का झटका लगा। इससे वह बेहोश होकर निचे गिर गया गया। अन्य मौजूद लोगों ने इस बारे में बोर्ड के अधिकारियों को सूचित किया। बेसुध पवन कुमार को उपचार के लिए सिविल अस्पताल तीसा ले जाया गया। यहां शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। दूसरी तरफ, बोर्ड ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं।

बोर्ड अब यह जानने के प्रयास में है, जब संबंधित जेई ने बिजली बंद करने का परमिट लिया था तो फिर लाइन बिजली कहां से दौड़ी। उधर, बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि करंट लगने से टीमेट की दुखद मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि इस बारे में अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की गई है। मृतक के परिवार की बोर्ड की ओर से हरसंभव सहायता की जाएगी। इस मामले की जांच के लिए टीम गठित की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बोर्ड और निगम में कोई पद न देने से कांग्रेस कार्यकर्ता मायूस

अनंत ज्ञान, भरमौर

विधानसभा क्षेत्र भरमौर में अभी तक भी सरकार द्वारा बोर्ड और निगमों में कोई पद न देने से यहां के कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तरह से मायूस हैं। डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी यहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सरकार द्वारा बोर्ड और निगमों में ताजपोशी की उम्मीदें भी अब धीरे-धीरे धुंधली हो रही है। हालांकि यहां पर भरमौर की तहसील होली में वर्तमान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के काफी तादाद में लोग कट्टर समर्थक माने जाते हैं। हालांकि जब ठाकुर सुखविंद्र सुक्खू की बतौर मुख्यमंत्री नियुक्ति हुई थी तो सबसे ज्यादा जशन भी यहां पर उनके समर्थनों द्वारा मनाया गया था।

राजनीतिक पंडितों की माने तो यहां पर मौजूदा समय में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रह्मानंद ठाकुर को मुख्यमंत्री का बहुत ही करीबी और विश्वाशपात्र माना जाता है। यहीं से युवा नेता पूर्व भरमौर युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्याम ठाकुर की भी मुख्यमंत्री के साथ करीबी किसी से छिपी नहीं है।



ब्रह्मानंद ठाकुर।

हालांकि सरकार बनने के साथ ही यहां पर लोगों ने क्यास लगाए थे कि जल्द ही होली के क्षेत्र को भी इस बार सरकार में भागीदारी मिल जाएगी। वर्तमान में भरमौर में पहली बार भाजपा का विधायक विपक्ष में बैठा है। लिहाजा यहां पर किसी भी कांग्रेस नेता को सरकार में अधिमान न मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी निराश होकर बैठे हैं।

हालांकि होली क्षेत्र से कांग्रेस नेता ब्रह्मानंद ठाकुर जो पूर्व में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं और वर्तमान में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं को मुख्यमंत्री का काफी करीबी माना जाता है। लिहाजा सरकार के गठन के साथ ही यहां पर ब्रह्मानंद ठाकुर के समर्थकों में खुशी छा गई थी और उनकी ताजपोसी को लेकर क्यास तेज हो गए थे। सूत्रों की माने तो वर्तमान मुख्यमंत्री सुक्खू और ब्रह्मानंद ठाकुर को एक समय में पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री व दिग्गज नेता पंडित सुखराम का काफी करीबी माना जाता रहा है। वर्ष 1993 में पंडित सुखराम ने तत्कालीन विधायक ठाकुर सिंह भरमौरी की टिकट काटकर ब्रह्मानंद ठाकुर को कांग्रेस उम्मीदवार बनाया था। भरमौर से कई प्रतिनिधियों व पूर्व प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से तुरंत से तुरंत उन्हें बोर्ड के निगम में ताजपोशी करने की मांग उठाई है जिसको लेकर वह एक चिट्ठी भी मुख्यमंत्री को प्रेषित करेंगे।

पुराने कांग्रेसी को मिले पदों पर ताजपोशी

ब्रह्मानंद के समर्थकों का कहना है कि सरकार को किसी युवा नेता या फिर पुराने कांग्रेसी को ही बोर्ड व निगम के पदों पर ताजपोशी दी जाए। ताकि यहां पर भाजपा के विधायक होने पर प्रशासन को काम करवाने के लिए दबाव बनाया जा सके और अधिक से अधिक लोगों के काम हो सके। जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे।

जेएसडब्ल्यू विद्युत परियोजना ने गरोला स्कूल को दिए मैट

मैट पर खेलते हुए बच्चे।

अनंत ज्ञान, भरमौर

जेएसडब्ल्यू विद्युत परियोजना 240 मेगावाट गरोला ने गरोला सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कबड्डी, खो-खो व रेसलिंग के लिए मैट दिए हैं। अब इस किट से ग्राम पंचायत गरोला उलांसा व चन्होता के लोगों को खेलें खेलने में आसानी होगी। बच्चों को खेलने के लिए कच्ची मिट्टी पर प्रेक्टिस नहीं करनी पड़ेगी।

ग्रामीण लोगों को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखा जाए व खेलों के प्रति जागरूक किया जाए, इसके लिए जेएसडब्ल्यू परियोजना ने यह किट प्रदान की है। परियोजना प्रमुख संजीव महाजन व सीएसआर के जितेंद्र कुमार ने बताया कि शीघ्र ही इसी तरह की खेलकूद किट ग्राम पंचायत लांमू में भी वितरित की जाएगी, ताकि जनजातीय क्षेत्र की दूरदराज पंचायत के लोगों को प्रेक्टिस के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। विद्युत परियोजना के अधिकारियों ने कहा है कि इस तरह के कामों के लिए विद्युत कंपनियां हमेशा आगे रहती है।

रिजुअल और निशिता रहे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

27वीं खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शिक्षा खंड केलांग-2 में हुआ समापन, 95 बच्चों ने दिखाया दमखम

अनंत ज्ञान, कुल्लू

27वीं खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शिक्षा खंड केलांग-2 का आयोजन राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला लोट में किया गया। खेलकूद प्रतियोगिता में 95 बच्चों ने भाग लिया।

इस प्रतियोगिता में 50 लड़के और 45 लड़कियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का समापन मुख्यातिथि सुरेंद्र उपप्रधान वारपा पंचायत के द्वारा किया गया। इस दौरान मुख्यातिथि ने प्रतियोगिता के सभी विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और खेलकूद में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं भेंट कीं। मार्च पास्ट प्रतियोगिता में दोनों ही वर्गों में जहालमा पहले और एलएमजी दूसरे स्थान पर रहा। खो-खो में लड़कों के वर्ग में जहालमा प्रथम और एलएमजी दूसरे स्थान पर रहा। खो-खो कन्या वर्ग में शांशा/किरतिंग प्रथम तथा एलएमजी दूसरे स्थान पर। कबड्डी लड़कों के वर्ग में जहालमा प्रथम और शांशा/किरतिंग दूसरे स्थान पर रहा। कबड्डी कन्या वर्ग में एलएमजी प्रथम और जहालमा दूसरे स्थान पर रहा। वॉलीबाल लड़कों के वर्ग में जहालमा प्रथम शांशा/किरतिंग दूसरे स्थान पर रहा। कन्या वर्ग में एलएमजी प्रथम और शांशा/किरतिंग दूसरे स्थान पर रहा। बैडमिंटन लड़कों में जहालमा प्रथम और एलएमजी दूसरे स्थान पर। बैडमिंटन कन्या वर्ग में जहालमा प्रथम और एलएमजी दूसरे स्थान पर रहा। लोकनृत्य दोनों वर्ग में जहालमा प्रथम और शांशा/किरतिंग दूसरे स्थान पर रहा। दौड़ 50 मीटर में लड़कों के वर्ग में एलएमजी प्रथम, जहालमा दूसरे और शांशा/किरतिंग तीसरे स्थान पर रहा। दौड़ 50 मीटर कन्या वर्ग में प्रथम एलएमजी, एलएमजी दूसरे स्थान पर तथा शांशा/किरतिंग तीसरे स्थान पर रहा।

27वीं खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करते मुख्यातिथि।

100 मीटर की दौड़ लड़कों के वर्ग में शांशा/किरतिंग प्रथम, जहालमा दूसरे तथा एलएमजी तीसरे स्थान पर रहा। गोला फेंक प्रतियोगिता में लड़कों के वर्ग में जहालमा प्रथम, एलएमजी दूसरे तथा शांशा/किरतिंग तीसरे स्थान पर रहा। । गोला फेंक प्रतियोगिता कन्या वर्ग में शांशा/किरतिंग प्रथम ओर दूसरे स्थान पर, जबकि एलएमजी तीसरे स्थान पर रहा। लंबीकूद कन्या वर्ग में एलएमजी प्रथम, शांशा/किरतिंग दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा। लंबीकूद लड़कों के वर्ग में शांशा/किरतिंग प्रथम, जबकि जहालमा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा। ऊंचीकूद लड़कों के वर्ग में शांशा/किरतिंग प्रथम, एलएमजी दूसरे तथा जहालमा तीसरे स्थान पर रहा। कन्या वर्ग में एलएमजी प्रथम, जबकि जहालमा दूसरे और तीसरे स्थान पर एलएमजी रहा। भाषण प्रतियोगिता दोनों ही वर्ग में जहालमा प्रथम, एलएमजी दूसरे स्थान पर रहा। सुलेख प्रतियोगिता दोनों वर्ग में शांशा/किरतिंग प्रथम, जहालमा दूसरे तथा एलएमजी तीसरे स्थान पर रहा। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता दोनों ही वर्ग में जहालमा प्रथम, जबकि शांशा/किरतिंग दूसरे स्थान पर रहा। चित्रकला प्रतियोगिता दोनों वर्ग में शांशा/किरतिंग प्रथम, एलएमजी दूसरे तथा शांशा/किरतिंग तीसरे स्थान पर रहा। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी लड़कों के वर्ग में शांशा/किरतिंग के रिजुअल रहे, जबकि कन्या वर्ग में एलएमजी की निशिता रही। इस दौरान सर्वश्रेष्ठ जोन का खिताब जहालमा ने अपने नाम किया।

बंजार में 6489 पेड़ों को काटने का कार्य जोरों पर, विधानसभा में आया जवाब : शौरी

- सराज वन मंडल से 6,489 पेड़ों में से 38,326 सलीपर निकालने का कार्य प्रगति पर
- वन मंडल के अंतर्गत जारी अन्य लॉट में भी दोहन की विस्तृत जांच की जा रही

अनंत ज्ञान, बंजार

बंजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सराज वन मंडल के शिल-शुराग जंगलों में हरे पेड़ों के अवैध कटान का मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है।

सराज वन मंडल का ऊपरी इलाका घने जंगलों से ढका हुआ है व वर्षों से इस क्षेत्र में वन कॉर्पोरेशन द्वारा सालवेज लॉट निकालने के लिए ठेकेदारों को आवंटित किए जाते आ रहे हैं। हजारों एकड़ में फैला यह क्षेत्र वन संपदा से समृद्ध है, लेकिन हाल ही में सालवेज लॉट की आड़ में ठेकेदार द्वारा हरे पेड़ काटे जाने का मामला विधायक सुरेंद्र शौरी द्वारा उजागर किए जाने से पूरे प्रदेश में वन विभाग की कार्यप्रणाली प्रश्नों के घेरे में है। गत दो वर्षों में सराज वन मंडल के अंतर्गत कुल 9 सालवेज लॉट आवंटित किए गए हैं व वर्तमान में 6 सालवेज लॉट से पेड़ों का दोहन किया जा रहा है। कुल मिलाकर 6,489 पेड़ों का वन निगम द्वारा कटान करवाया जा रहा है। सराज वन मंडल बंजार से 6,489 पेड़ों में से 38,326 सलीपर निकालने का कार्य प्रगति पर है।

यह जानकारी बंजार विधायक सुरेंद्र शौरी के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुक्खू ने सदन में रखी। सालवेज लॉट में सूखे पेड़ों की आड़ में हरे पेड़ों के कटान की बात सामने आने के बाद से इतने बड़े-बड़े लॉट में भी गफलत का संदेह होना बाजिब है। वन अधिकारियों द्वारा वन मंडल के अंतर्गत जारी अन्य लॉट में भी दोहन की विस्तृत जांच की जा रही है। विधायक शौरी ने कहा कि जिन सालवेज लॉट से अभी दोहन किया जा रहा है उनकी विस्तृत निगरानी की जानी चाहिए।

न्यूज ब्रीफ

क्षेत्रीय अस्पताल में 7 को दिव्यांगता शिविर

कुल्लू। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में 7 सितंबर को दिव्यांगता शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं देंगे। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. नरेश ने कहा कि दिव्यांगता शिविर में एमडी मेडिसिन डॉ. नीतीश कुमार दिव्यांगजनों की जांच करेंगे। इसके अलावा एमएस हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. संतुष्ट कुमार, ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. दीप शिखा एवं सुमित वालिया, शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. आशीष धीमान, नेत्र विशेषज्ञ डॉ. ऋचा शर्मा, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. तेनजिन मेंटोक, डॉ. रबलीन कौर सेवाएं देंगी। उन्होंने लोगों से दिव्यांगता शिविर का लाभ उठाने का आह्वान किया है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका के पदों के लिए आवेदन

बंजार। बाल विकास परियोजना अधिकारी चंपा देवी ने बताया कि बाल विकास परियोजना बंजार के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के नौ पदों को भरने की अंतिम तिथि 4 सितंबर है, लेकिन इस दिन स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है, जो भी आवेदनकर्ता किसी कारणवश अभी तक आवेदन नहीं कर पाए है। वह आज कार्यालय में पांच तक अपना आवेदन पत्र जमा करवा सकते हैं इस संदर्भ में किसी प्रकार की अन्य सूचना के लिए कार्यालय में दूरभाष नंबर 01903-221732 पर संपर्क कर सकते हैं।

जगदीश ठाकुर शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग

शीला कौल, बंजार। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में बंजार घाटी के जिभि तांदी से संबंध रखने वाले जगदीश ठाकुर, जो प्रदेश के प्रमुख एयरबीएनबी कम्यूनिटी लीडर हैं, उनको एशियाई दक्षिण पूर्वी देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने का सम्मान प्राप्त हुआ है। यह शिखर सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 5 और 6 को आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका के लगभग 150 कम्यूनिटी लीडर शामिल होंगे। जगदीश ने शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह मेरे लिए एक गर्व की बात है कि मुझे हिमाचल को इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। इस सम्मेलन में भाग लेकर मैं न केवल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य को प्रस्तुत करूंगा, बल्कि यह भी बताऊंगा कि कैसे समुदाय आधारित ग्रामीण पर्यटन को और अधिक सशक्त किया जा सकता है। एयरबीएनबी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पर्यटन उद्योग कंपनीयों में से एक है उनकी ओर से आयोजित इस शिखर सम्मेलन में, जगदीश ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान मिलना निश्चित है। (अनंत ज्ञान)

अंडर-19 चैस चैंपियनशिप में तराना द्वितीय

सोलन। हिमाचल प्रदेश चैस एसोसिएशन और रोटरी क्लब शिमला की तरफ से आयोजित एफएडीई रेटेड अंडर-19 चैस स्टेट लेवल चैंपियनशिप में सोलन की तराना शर्मा ने द्वितीय स्थान हासिल कर नाम क्षेत्र का नाम रोशन किया है। एमआरडीएवी स्कूल सोलन की छात्रा तराना इससे पहले भी राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय चैस प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर चुकी हैं। अंडर-19 चैंपियनशिप में प्रथम स्थान में रही पलक काफी नजदीकी मुकाबले जीती।

24वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता 20 से 22 सितंबर तक

अनंत ज्ञान, पतलीकूहल

कुल्लू जिला बैडमिंटन संघ की त्रैमासिक बैठक का आयोजन क्लब हाउस मनाली में हुआ।

इस बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने की। संघ महासचिव जितेंदर ठाकुर ने बताया कि बैठक में 24वीं जिला स्तर की अंडर-11, अंडर-13 और मास्टर्स केटेगरी की प्रतियोगिता के आयोजन को निर्धारित किया गया है। यह प्रतियोगिता 20 से 22 सितंबर तक मनाली के क्लब हाउस में करवाई जाएगी। इस बार अंडर-11 और अंडर-13 केटेगरी की प्रदेश स्तर की बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन 29 सितंबर से 1 अक्तूबर तक कुल्लू के इंडोर स्टेडियम में होगा। बैठक में हिमाचल बैडमिंटन संघ के उपाध्यक्ष विजय ठाकुर व कुल्लू जिला संघ के सुदर्शन ठाकुर, मंगत राम, नीरज उपाध्याय, चांद किशोर, सुजिंदर ठाकुर, नरेश, सुशील, अशोक, दीपक आदि मौजूद रहे।

भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ किसान सभा सड़कों पर उतरी

डीसी कार्यालय के बाहर सांसद का जलाया पुतला

अनंत ज्ञान ब्यूरो, कुल्लू

हिमाचल किसान सभा कुल्लू ने मंडी संसदीय क्षेत्र की भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए डीसी कार्यालय के बाहर सांसद का पुतला जलाया व नारेबाजी की।

प्रदर्शन में आए लोगों को संबोधित करते हुए किसान सभा के राज्य महासचिव होतम सौंखला ने कहा कि भाजपा सांसद कंगना रनौत हमेशा सुर्खियों में रहने के लिए कई तरह की घटिया बयानबाजी करती हैं। अभी पिछले दिनों में भाजपा सांसद ने किसान आंदोलन पर आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान किसानों ने बलात्कार किए और लोगों को मार कर उनकी लाशें टांग दी। इस तरह के आपत्तिजनक बयान ने परे देश के किसानों व किसान आंदोलन को शर्मसार किया है, जबकि आज तक का सबसे बढ़ा और लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन में किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई। उस आंदोलन में 745 किसान शहीद हुए, जिन की जिम्मदारी भी भाजपा की मोदी सरकार को लेनी चाहिए थी। आज भी उन शहीद परिवारों को मुआवजा तक नहीं मिला, लेकिन उस के उल्ट भाजपा सांसद आपत्तिजनक बयानबाजी कर रही है, जो निर्दनीय है। किसानों के उस आंदोलन ने केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री को मजबूर किया था कि तीन काले कृषि कानूनों को वापस लें।

हिमाचल किसान सभा के सदस्य सांसद कंगना रनौत के विरोध में धरना-प्रदर्शन करते हुए।

उस दौरान भी किसान आंदोलन को बदनाम करने की पूरी कोशिश की। भाजपा सरकार द्वारा किसानों पर आंसु गैस के गोले, वाटर कैनन, सडकों में कीले व बडे-बड़े बैरीकेट लगाकर किसानों पर झुल्म व अत्याचार किए गए थे, तब भी यह आंदोलन शांतिपूर्ण चला। आंदोलन को आंतकवादी, उग्रवादी तक बोलने वाली यही कंगना रनौत और भाजपा के नेता थे। कंगना रनौत के आपत्तिजनक बयान के लिए भाजपा हाईकमान को किसानों से माफी मांगनी चाहिए।

हरितालिका तीज उत्सव को लेकर की चर्चा

उत्सव लाल चंद प्रार्थी कलाकेंद्र में छह सितंबर को मनाया जाएगा

अनंत ज्ञान ब्यूरो, कुल्लू

ऐतिहासिक लाल चंद प्रार्थी कलाकेंद्र कुल्लू के परिसर में प्रवासी साझा मंच (भारत) हिमाचल राज्य समिति व सूत्रधार कला संगम कुल्लू द्वारा एक समन्वय बैठक की गई।

बैठक में जिला कुल्लू में पहली बार होने जा रहे महिलाओं के त्योहार हरितालिका तीज उत्सव के सफल आयोजन को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सीपी शर्मा अध्यक्ष प्रवासी साझा मंच (भारत) हिमाचल राज्य समिति व दिनेश सेन अध्यक्ष सूत्रधार कला संगम कुल्लू ने जानकरी साझा करते हुए कहा कि यह उत्सव कुल्लू के ऐतिहासिक लाल चंद प्रार्थी कलाकेंद्र में छह सितंबर को प्रात: 10 से सायं 6 बजे तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में नेपाल के प्रसिद्ध कलाकारों के साथ-साथ हिमाचल के कलाकार भी अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां देंगें। इस उत्सव में नेपाल व हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी। इस उत्सव में नेपाल ही नहीं, बल्कि स्थानीय महिलाएं भी बढ़-चढ़कर भाग लेंगी। इस कार्यक्रम के उद्घाटन में मुख्य संसदीय सचिव व विधायक कुल्लू सुंदर सिंह ठाकुर तथा समापन में पूर्व सांसद मंडी संसदीय क्षेत्र व पूर्व विधायक कुल्लू महेश्वर सिंह मुख्यातिथि के रूप में शिरकत करेंगे। यह कार्यक्रम सभी कलाप्रेमियों व आम जनमानस के स्वस्थ मनोरंजन के लिए निशुल्क रहेगा। बैठक में प्रवासी साझा मंच (भारत) हिमाचल राज्य समिति के अध्यक्ष सीपी शर्मा, नेपाल से आए कलाकार पीएन सपकोटा, राम कुमार नेपाली, विजय कार्की सहित सूत्रधार कला संगम के अध्यक्ष दिनेश सेन, उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, महासचिव अतुल गुप्ता आदि मौजूद रहे।

प्रवासी साझा मंच व सूत्रधार कला संगम कुल्लू की समन्वय बैठक के दौरान।

एबीवीपी कुल्लू व हरिपुर इकाई ने मांगों को लेकर किया धरना-प्रदर्शन

अनंत ज्ञान ब्यूरो, कुल्लू

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू की हरिपुर इकाई व कुल्लू इकाई द्वारा छात्रों की विभिन्न मांगों और सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए धरना-प्रदर्शन किया गया।

सनद रहे कि एबीवीपी की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में छात्रों और सामाजिक मुद्दों के पक्ष में कई प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसी के मद्देनजर कुल्लू कॉलेज और हरिपुर कॉलेज में छात्रों की विभिन्न मांगों के लिए इकाई स्तर पर धरना-प्रदर्शन किया। कुल्लू कॉलेज में छात्रों की विभिन्न मांगों के लिए सबसे पहले अनिल उसके पश्चात रितिक ने संबोधित किया। हरिपुर कॉलेज में ठीक इसी प्रकार इकाई स्तर पर धरना-प्रदर्शन किया, जिसमें इकाई अध्यक्ष, जिला संयोजक) सारांश में छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर भाषण दिया। कुल्लू और हरिपुर कॉलेज में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि हमारी इन मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद उग्र से उग्र आंदोलन करेगी।

मांगों को लेकर प्रिंसिपल के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजते हुए।

विद्यार्थी परिषद की मांगें

छात्र संघ चुनाव बहाल हो, एसपीयू का दायरा बढ़ाया जाए, कृषि विश्वविद्यालय के 112 हेक्टर जमीन पर टूरिज्म के कार्य करने पर रोक लगाई जाए व प्रदेश में बढ़ रहे नशे को रोका जाए।

उद्घाटन कुल्लू-मनाली एक्सआवेटर यूनियन कुल्लू के कार्यालय का हुआ शुभारंभ, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए

जेसीबी का मूल्य प्रति घंटे कार्य के हिसाब से 1200 रुपए और 18 प्रतिशत जीएसटी किया गया तय

सुरेंद्र तिबोगपा, कुल्लू

कुल्लू जिला मुख्यालय के आखाड़ा बाजार के समीप स्थित रामशिला गेमन पुल के समीप कुल्लू-मनाली एक्सआवेटर यूनियन ने अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया।

मंगलवार को रामशिला के समीप देवधाम रेस्टोरेंट में जेसीबी यूनियन के सदस्यों ने प्रेसवार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर जेसीबी ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष तेजिंदर कपूर ने बताया कि मंगलवार को जेसीबी यूनियन के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस संघ में बेकहोलोडर यानी जेसीबी, पोकलेन यानी एलएनटी के मालिक संघ के सदस्य के रूप में शामिल हैं। कार्यालय के पहले दिन सभी सदस्यों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ यूनियन के सभी सदस्यों के साथ सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, ताकि यूनियन के सदस्यों की समस्याओं का निपटारा हो सके। तेजिंदर कपूर ने बताया कि विभिन्न कामों के दौरान मशीनों के उपयोग को लेकर मूल्य निर्धारित किया गया है, जैसे जेसीबी का मूल्य प्रति घंटे कार्य के हिसाब से 1200 रुपए और 18 प्रतिशत जीएसटी तय किया गया है। ब्रेकर को इस्तेमाल करने पर प्रति घंटे के हिसाब से 2200 रुपए और 18 प्रतिशत जीएसटी तय किया गया है। अगर बकेट के हिसाब से जेसीबी मशीन को एक महीने के लिए इस्तेमाल करना है, तो ऐसे में 1 लाख 20 हजार 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ देने होंगे। इसके अलावा पोकलेन का महीना भर इस्तेमाल करने पर 1 लाख 90 हजार रुपउ 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ देने होंगे और ब्रेकर को महिला भर इस्तेमाल करने पर 2 लाख 80 हजार 18 प्रतिशत रुपए देने होंगे। उन्होंने ऑपरेटरों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि मशीनों से सारा काम करवाने के बाद पेमेंट को लेकर आनाकानी करते हैं, ऐसे में ऑपरेटरों को अपना पैसा निकलवाने में बहुत परेशानी होती है इसलिए यूनियन ने तय किया है कि ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया जाएगा, जो काम के बाद पेमेंट नही करते इसलिए ऐसे लोगों के किसी भी काम में जिला भर से कोई भी मशीन काम के लिए नहीं जाएगी। इसके साथ ही बाहरी क्षेत्रों से आने वाले जेसीबी मशीन ऑपरेटरों को भी अपना काम रोकना होगा और यूनियन के तय की गई शर्तों के हिसाब से ही कार्य किया जाएगा और यूनियन को जब बाहरी मशीनों की जरूरत महसूस होगी, तो ऐसे में उनकी मशीनों की सेवा ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 65 मशीन मालिक सदस्य के रूप में जुड़े हैं और करीब 200 मशीनें हैं। (अनंत ज्ञान)

कुल्लू-मनाली एक्सआवेटर यूनियन के सदस्य पत्रकारों को संबोधित करते हुए।

न्यूज ब्रीफ

अवैध खनन पर कार्रवाई, दो वाहनों के किए चालान

पांवटा साहिब। वन विभाग की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो वाहनों के चालान किए हैं और 35,040 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई उपमंडल पांवटा साहिब के रामपुर घाट में की गई। वन विभाग की टीम ने नाका लगाकर एक ट्रक को जांच के लिए रोका, जिसमें खनन सामग्री भरी हुई थी। ट्रक चालक कोई कागजात नहीं दिखा सका, जिसके बाद ट्रक का चालान किया गया। इसके अलावा, बाता नदी में छापेमारी कर एक ट्रैक्टर का चालान किया गया और 4500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। डीएफओ एश्वर्य राज ने बताया कि वन विभाग की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 वाहनों के चालान किए हैं और 35,040 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई अवैध खनन को रोकने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए की गई है।

वार्ड-5 में 29 को होगा पार्षद पद का उपचुनाव

सोलन। नगर निगम सोलन के वार्ड-5 में उपचुनाव की तारीख तय हो गई है। इस पद के लिए 29 सितंबर को मतदान होगा। इसी दिन मतों की काउंटिंग भी होगी। प्रदेश इलेक्शन कमीशन की तरफ से उपचुनाव को लेकर जारी अधिसूचना के मुताबिक तय कार्यक्रम के अनुसार 11, 12 और 13 सितंबर को नामांकन पत्र खरीदे जा सकेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 रखी गई है। 18 तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसी दिन नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी और 29 सितंबर को मतदान होगा।

एमसी की परिधि में आदर्श आचार संहिता लागू

सोलन। निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी सोलन मनमोहन शर्मा ने राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना की अनुपालन में नगर निगम सोलन के वार्ड नंबर-5 के पार्षद के उप-निर्वाचन के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता के विषय में अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार नगर निगम सोलन की परिधि में तुरंत प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक लागू रहेगी। निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी सोलन मनमोहन शर्मा ने राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना की अनुपालना में नगर निगम सोलन के वार्ड नंबर-5 के पार्षद के उप-निर्वाचन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना जारी कर दी है। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-जेड ए, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 9 एवं धारा 281, हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम 2012 के नियम 33 तथा हिमाचल प्रदेश नगर निकाय निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 35 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की गई है। निर्वाचन प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूर्ण कर ली जाएगी। वहीं, डीसी सोलन ने नगर निगम सोलन के वार्ड नंबर-5 के उपनिर्वाचन के दृष्टिगत एसडीएम सोलन डॉ. पूनम बंसल को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। इस संबंध में आदेश हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 9 तथा हिमाचल प्रदेश नगर निगम नियम, 2012 के नियम 30 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार सहायक निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचन प्रक्रिया को नियमानुसार एवं समयबद्ध पूरा करने के लिए हिमाचल नगर निगम नियम-2012 के प्रावधानों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित बनाएंगी।

चंबीधार स्कूल में स्वयंसेवियों ने किया पौधरोपण

सोलन। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबीधार में एकदिवसीय एनएसएस कैंप का आयोजन प्रधानाचार्य डीडी सिमर की अध्यक्षता में किया गया। इस कैंप में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी अंजना कुमारी तथा पंकज शर्मा की अगुवाई में स्वयंसेवियों ने पौधरोपण किया। प्रधानाचार्य तथा बृज मोहन ने भी पौधरोपण किया। राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े 33 स्वयंसेवियों ने इसमें भाग लिया। आज के इस पौधरोपण कार्यक्रम में देवदार, बिहुल, कचनार, खड़की के पौधे लगाए गए। ये पौधे चंबीधार स्कूल की परिसीमा में लगाए गए। एनएसएस इकाई चंबीधार को ये पौधे चंबीधार स्कूल को गोद लेने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी कमल दत्त शर्मा द्वारा उपलब्ध करवाए गए।

नोहरी में खुला निशुल्क सेवा कार्यालय

राजगढ़। स्वतंत्रता सेनानियों की धरती पझौता क्षेत्र के नोहरी में समाजसेवी संस्था यूथ मीडिया क्लब द्वारा निशुल्क सेवा कार्यालय का शुभारंभ किया। सेवा कार्यालय का शुभारंभ नायब तहसीलदार उपतहसील पझौता प्रकाश चंद पांवटा द्वारा रिबन काटने के उपरांत दीप प्रज्वलित कर किया गया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में यूथ मीडिया क्लब सराहनीय कार्य कर रहा है और यह निशुल्क सेवा कार्यालय क्षेत्र के लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा। लोगों को यहां निशुल्क परामर्श मिलने के साथ-साथ अन्य जानकारियां भी प्राप्त होंगी। उन्होंने संस्था को यथासंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। इससे पहले क्लब के अध्यक्ष संदीप कुमार ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और बताया कि लोगों को किसी भी कार्यालय में एक सादी सी एप्लीकेशन लिखवाने के लिए राशि देनी पड़ती है। यहां लोगों को सूचना का अधिकार अधिनियम, पेंशन, कृषि व बगवानी सब्सिडी सहित किसी भी आवेदन की सुविधा निशुल्क मिलेगी।

धुंदन स्कूल में एनएसएस के महत्व की दी जानकारी

दाड़लाघाट। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धुंदन में एनएसएस स्वयंसेवियों ने एकदिवसीय शिविर लगाया। शिविर की अध्यक्षता कार्यकारी प्रधानाचार्य महेंद्र कौंडल ने की। शिविर में कार्यक्रम अधिकारी संतोष बड्डू ने एनएसएस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने माई भारत पोर्टल पर सभी को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य बताया। इसके पश्चात एनएसएस गीत का अभ्यास करवाया। सितंबर माह में पढ़ने वाले दिवस, जैसे हिंदी दिवस, एनएसएस स्थापना दिवस, स्वच्छता पखवाड़े आदि के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

सतत कृषि पारिस्थितिकी प्रथाओं पर किया विचार

सोलन। फ्रेंच रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर, फूड एंड एनवायरनमेंट (आईएनआरएई) और डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्राकृतिक खेती की पहल के सामाजिक प्रभावों के मूल्यांकन पर केंद्रित एक कार्यशाला का आयोजन हिमाचल के मंडी में किया। यह आयोजन यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित एग्रो इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन टुवर्ड्स इंटरनेशनल को-इनोवेशन डायनेमिक्स एंड एविडेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी (एक्रोपिक्स) परियोजना का हिस्सा था। कार्यशाला में आईएनआरएई के वैज्ञानिक- जिनमें प्रो. एलिसन लोकोंटो, प्रो. मिरीले मैट, डॉ. एवलीन लोस्ट और डॉ. रेने वान डिस शामिल रहे। उन्होंने सामाजिक प्रभाव के विश्लेषण के लिए नौणी विवि की एक्रोपिक्स टीम के सहयोग से प्राकृतिक खेती करने वाले स्थानीय किसानों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। एक्रोपिक्स कंसोर्टियम में 12 देशों के 15 सदस्य और नौणी विवि सहित 12 शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। यह परियोजना प्रत्येक सदस्य देश से एक सस्टेनेबल एग्रो इकोसिस्टम का अध्ययन कर रही है। हालांकि इस परियोजना के तहत भारत से दो सस्टेनेबल एग्रो इकोसिस्टम-ग्राम दिशा ट्रस्ट और चौपाल नेचुरल फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का अध्ययन किया जा रहा है। कार्यशाला में प्राकृतिक कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने और इन प्रयासों का समर्थन करने के लिए हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर सत्र शामिल रहे।

भाई-बहन के प्यार के प्रतीक हैं क्वागधार के भूरेश्वर महादेव

रविदत्त भारद्वाज, राजगढ़

शिमला-नाहन रोड पर क्वागधार की पर्वत शृंखला पर बसा भूरेश्वर महादेव का मंदिर (दाएं) मंदिर में स्थापित शिवलिंग।

सिरमौर में शिमला-नाहन रोड पर क्वागधार की पर्वत शृंखला पर बसा भूरेश्वर महादेव का मंदिर भक्ति और आस्था की स्थली है।

इसके साथ ही यह भाई-बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में भी पूजनीय है। यहां से पंजाब का मैदानी इलाका और चूड़धार की पर्वत शृंखलाओं के साथ शिमला की पहाड़ियों के दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है। मान्यता है कि द्वापर युग में इस पर्वत शृंखला पर बैठकर महादेव ने माता पार्वती के साथ महाभारत युद्ध को देखा था। उसी समय से यहां पर शिवलिंग की उत्पत्ति मानी जाती है। यह प्राचीन शिव मंदिर समुद्र तल से करीब 6800 फुट की ऊंचाई पर है।

यह जगह चारों तरफ से हरे भरे पेड़ों व पहाड़ियों से घिरी हुई है। इस मंदिर तक पहुंचने के दौरान जगह-जगह पर रास्ते में शिवलिंग के दर्शन होते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार यहां पास के ही गांव टिकरी-पंझोली में भाई-बहन रहते थे, जो सौतेली मां के खराब व्यवहार से परेशान थे। वे रोजाना इसी पर्वत शृंखला पर पशुओं को चराने के लिए आते थे। एक दिन तेज तूफान में उनका बछड़ा औझल हो गया। सौतेली मां ने लड़के को आंधी में ही बछड़ा ढूंढने के लिए भेज दिया, जब लड़का बछड़े को ढूंढता हुआ शिवलिंग के पास पहुंचा। तो वहां बछड़ा शीत प्रकोप के चलते कही खो गया था। यह देख लड़का सहम गया और शिव आराधना में लीन हो गया। अगले दिन जब लड़के के पिता पुत्र को ढूंढने गए, तो बछड़ा और लड़का दोनों ही देखते ही देखते देवयोग से अंतर्ध्यान हो गए। ये वही स्थान है जहां से भगवान हनुमान गंभीर रूप से घायल लक्ष्मण के लिए जड़ी-बूटी खोजने के लिए आए थे और बाद में पूरी पहाड़ी को ले गए थे। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही भूरेश्वर कथा संक्षिप्त में लिखी हुई है।

मंदिर में शिव परिवार भी स्थापित है। यहां रखे प्राचीन वाद्ययंत्र समय-समय पर बजाए जाते हैं। मंदिर की परिक्रमा करने पर काफी सुंदर नजारा दिखाई देता है। यहां काफी ऊंचाई पर होने का एहसास भी होता है। यहां पर एक देव शिला भी है। इस पर यहां आने वाले भक्त सिक्का डालते हैं। मंदिर सिरमौर मुख्यालय नाहन से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पर्यटक कार या बस से पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से जाने के लिए शिमला यहां की दूरी 154 किलोमीटर है। (अनंत ज्ञान)

मतदान केंद्रों की प्रारूप सूची तैयार : डीसी

नाहन। निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी सिरमौर सुमित खिमटा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सिरमौर के पांचों विधानसभा क्षेत्रों 55-पच्छाद, 56-नाहन, 57-श्री रेणुका जी, 58-पांवटा साहिब तथा 59-शिलाई, जो कि 4-शिमला, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट के मतदान केंद्रों की प्रारूप सूचियां लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 25 के प्रावधान के अनुसार तैयार की गई है, उनकी एक प्रति कार्यालय समय के दौरान मेरे कार्यालय व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम पच्छाद स्थित सरांहा, नाहन, संगडाह, पांवटा साहिब, शिलाई व जिले की सभी तहसीलों तथा उपतहसीलों के कार्यालयों में 2 से 8 सितंबर तक जनसाधारण के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। उपरोक्त प्रस्तावित मतदान केंद्रों की सूचियों की स्थापना तथा समायोजन के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति या सुझाव हो तो जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी, सिरमौर स्थित नाहन अथवा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम पच्छाद स्थित सरांहा, नाहन, संगडाह, पांवटा साहिब, शिलाई के कार्यालय में 8 सितंबर तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

सोलन-राजगढ़ रोड पर ओल्ड डीसी ऑफिस-कोटलानाला तक बनेगा फुटपाथ

5.50 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार, 2 किलोमीटर के पेच में होगा निर्माण

आर मोहन चौहान, सोलन

शहर के सबसे व्यस्त क्षेत्र सोलन-राजगढ़ रोड पर पुराने डीसी ऑफिस से तहसील और कोटलानाला चौक से हॉस्पिटल तक फुटपाथ निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासन के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने साढ़े 5 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की है।

धनराशि का प्रावधान होते ही जल्द लोगों को सुविधा देने के लिए फुटपाथ का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए डीपीआर तैयार करने के बाद अब विभाग पैसे का इंतजार कर रहा है, जैसे ही धनराशि मंजूर होगी, तो तुरंत प्रभाव से काम शुरू हो जाएगा। यह फुटपाथ करीब 4 फुट चौड़ा बनेगा, जिसमें लोग आसानी से चल सकेंगे। हालांकि फुटपाथ सड़क की एक तरफ ही बनेगा। बाकी दूसरी तरफ रोड पहले की तरह ही रहेगा। (अनंत ज्ञान)

सोलन-राजगढ़ रोड।

फुटपाथ से पैदल चलना सुरक्षित

हालांकि सोलन शहर में लोगों को सुविधा देने के लिए मशरूम चौक से बाइपास की तरफ कुछ दूरी तक फुटपाथ का निर्माण किया गया है। लोग यहां पर आने-जाने के लिए फुटपाथ का सहारा लेते हैं। इसके अलावा ओल्ड बस स्टैंड पुलिस चौकी से चंबाघाट तक भी फुटपाथ का निर्माण किया गया है। हालांकि इसके बीच में कुछ हिस्सा आर्मी लैंड आने के चलते फुटपाथ यहां अब तक नहीं बन पाया है।

ओल्ड डीसी ऑफिस से तहसील और कोटलानाला चौक से हॉस्पिटल तक फुटपाथ का निर्माण किया जाना है। इसके लिए 5.50 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाई गई है, जैसे ही फंड मंजूर होगा काम शुरू कर दिया जाएगा।

रवि भट्टी, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी, सोलन।

पीडब्ल्यूडी करेगा निर्माण

फुटपाथ निर्माण का काम सोलन नगर निगम को करना था, लेकिन कुछ दिनों पहले सोलन डीसी के साथ हुई बैठक में निगम ने इसे करने से मना कर दिया। निगम ने इसके पीछे तर्क दिया कि उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वह यह काम कर सके। लिहाजा यह काम पीडब्ल्यूडी को करना चाहिए। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने इसकी डीपीआर बना डीसी को सौंप दी। अब गेंद डीसी के पाले में है कि वह इसके लिए फंड कैसे मुहैया करवाते हैं। जानकारी के अनुसार सोलन प्रशासन लगातार लोगों को बेहतर सुविधा देने के काम में जुटा हुआ है। इसी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी को सड़क की एक तरफ फुटपाथ बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इसी को देखते हुए विभाग ने 5.50 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार कर ली है। पीडब्ल्यूडी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ओल्ड डीसी ऑफिस से तहसील तक सवा किलोमीटर और उसके बाद कोटलानाला चौक से हॉस्पिटल तक 700 मीटर पेच पर फुटपाथ का निर्माण किया जाना है। ऐसे में जब यह फुटपाथ का निर्माण होगा, तो इसका सीधा लाभ पैदल चलने वाले लोगों को मिलेगा। इससे लोग गाड़ियों की चपेट में आने से भी बचेंगे। वहीं, दूसरी तरफ सड़क पर घूमने आए लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा।

जलशक्ति विभाग को बरसात में 11 करोड़ रुपए का नुकसान

अनंत ज्ञान, बीबीएन

- नालागढ़ में 6.72 और बद्दी में 4.85 करोड़ की लगी चपत

नालागढ़ उपमंडल के तहत जलशक्ति विभाग को इस बार की बरसात में अब 11 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। विभाग को अब तक नालागढ़ में 6.72 करोड़, जबकि बद्दी डिवीजन के तहत 4.85 का नुकसान पहुंच चुका है। बरसात से विभाग के तहत आने वाली पेयजल और सिंचाई योजनाओं को क्षति पहुंची है।

बरसात ने जलशक्ति विभाग नालागढ़ डिवीजन के तहत सिंचाई व पेयजल योजनाओं को नुकसान पहुंचाया है, जिनमें पंप हाउस, मोटर, स्लैब, मशीनरी, रिटेनिंग वाल, क्रेट वायर, बाउंड्री वाल, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आदि से पेयजल व सिंचाई योजनाओं को नुकसान पहुंचा है। हालांकि विभाग द्वारा अधिकांश पेयजल योजनाओं को रिस्टोर कर दिया गया है, ताकि लोगों को जलापूर्ति की समस्या न हो। बीबीएन में इस बार कम मात्रा में ही बारिश हुई है, फिर भी नुकसान का आंकड़ा करोड़ों में पहुंच गया है। क्षेत्र में हुई कम बारिशों के बावजूद इस बार की बरसात से आईपीएच नालागढ़-बद्दी डिवीजन भी इस नुकसान से अछूता नहीं रहा है और नुकसान का आंकड़ा 11.57 रुपए तक पहुंच गया है। आईपीएच बद्दी डिवीजन के तहत करीब 171 पेयजल योजनाओं व 68 सिंचाई योजनाओं, जबकि नालागढ़ के तहत 121 पेयजल योजनाओं व 149 सिंचाई योजनाओं के द्वारा लोगों को पेयजल एवं सिंचाई के पानी की आपूर्ति मुहैया करवा रहा है और इन्हीं योजनाओं में से कई योजनाओं को नुकसान हुआ है।

रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है

जलशक्ति विभाग नालागढ़ डिवीजन के एक्सईएन नीरज गुप्ता ने कहा कि अब तक की बरसात से विभाग को 6.72 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और नुकसान का आकलन लगाकर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी है। बद्दी डिवीजन के एक्सईएन दिनेश कुमार ने कहा कि अब तक बरसात में विभाग को 4.85 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

प्रेमचंद की कहानी ईदगाह पर बनी लघु फिल्म दिखाई

दाड़लाघाट। दाड़लाघाट कॉलेज के हिंदी विभाग की लिटरेरी सोसाइटी आत्मभिव्यक्ति के अंर्तगत स्टूडेंट्स को प्रेमचंद की कहानी ईदगाह पर बनी लघु फिल्म दिखाई गई। इस अवसर पर स्टूडेंट्स ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। हिंदी विभागाध्यक्ष रचना तनवर ने बताया कि स्टूडेंट्स में साहित्यिक रुचि को बढ़ाने के लिए विभाग निरंतर इस तरह की गतिविधियां करता आया है। प्रांचल, दीक्षा, दिव्या, हितेश, तरुण व चंदन ने लघु फिल्म का रिव्यू देते हुए बताया कि ईदगाह कहानी का फिल्म रूपांतर देख कर कहानी के प्रमुख पात्र हामिद के बाल मनोविज्ञान को गहराई से जानने का अवसर मिला।

सरकार हुई दिवालिया, पेंशनर्स को नहीं मिली समय पर पेंशन : मेलाराम

अनंत ज्ञान, नाहन

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू बोलते हैं कि सरकार वित्तीय संकट से नहीं जूझ रही है, जबकि असली अर्थों में सरकार का दिवालिया पिट चुका है।



यह दावा जिला भाजपा प्रवक्ता मेलाराम शर्मा ने करते हुए कहा कि अगस्त माह का वेतन सरकारी कर्मचारियों को पहली सितंबर को देने के लिए धनराशि नहीं है और अब वेतन पांच तारीख को देने का फैसला लिया है। इसी तरह पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन पहली की बजाए 10 सितंबर को देने का फैसला लिया गया है, जिससे पेंशन भोगियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार का उदाहरण प्रदेश की यह पहली सरकार में देखने को मिल रहा है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को समय पर उनके द्वारा की गई मेहनत का फल नहीं दिया जा रहा है, जिससे यह साफ हो रहा है कि सरकार दिवालिया हो चुकी है, मगर हिमाचल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनकी सरकार की वित्तीय हालात ठीक है, जो आम जनता को गुमराह करने वाली है।

डीसी ने राष्ट्रीय पोषण माह को जन आंदोलन बनाने का किया आग्रह

अनंत ज्ञान, सोलन

डीसी सोलन मनमोहन शर्मा ने जिलावासियों से आग्रह किया कि 30 सितंबर तक आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय पोषण माह को जन आंदोलन बनाएं, ताकि यह मिशन अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से सफल हो सके।

मनमोहन शर्मा पोषण माह के अंतर्गत आयोजित एकदिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग सोलन द्वारा किया गया। मनमोहन शर्मा ने कहा कि छह वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती एवं धातृ महिलाओं तथा किशोरियों में पोषण के स्तर को सुधारने के लिए पोषण माह आयोजित किया जा रहा है। लक्षित वर्गों में पोषण के स्तर को सुधारने के लिए आवश्यक है कि सभी पोषण के महत्व को समझें। उन्होंने आग्रह किया कि अधिक कुपोषित बच्चों को अल्प कुपोषित और अल्प कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सितंबर माह में पोषण जागरूकता के लिए नियमित संवाद एवं कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि महिला एवं किशोरियों सहित सभी अपने भोजन में समुचित पोषण के लिए संतुलित आहार सम्मिलित करें। डीसी ने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाडी कार्यकर्ता राष्ट्रीय पोषण माह की अवधि में यह सुनिश्चित बनाएं कि सोलन के प्रत्येक गांव तक घर-घर में लोगों को पोषण की महता की जानकारी मिले।

कांग्रेस की गलत नीतियों से बिगड़ी प्रदेश की वित्तीय स्थिति : डॉ. राजेश

अनंत ज्ञान ब्यूरो, सोलन

विधानसभा चुनाव में झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों से प्रदेश की वित्तीय स्थिति चौपट हो गई है। भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और सोलन विस से प्रत्याशी डॉ. राजेश कश्यप ने सोलन में पत्रकार वार्ता कर यह आरोप प्रदेश सरकार पर लगाए।

राजेश ने कहा कि प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ, जब कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन होल्ड की गई है। झूठे वायदे कर 11 दिसंबर, 2022 को सत्ता में आई कांग्रेस सरकार 20 महीने बीत जाने के बावजूद जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। कर्मचारियों का वेतन रुकने से इसका असर ईएमआई की अदायगी पर पड़ेगा। साथ ही स्वास्थ्य उपचार और अन्य कार्यों में भी देरी होगी। प्रदेश सरकार विधानसभा में वित्तीय संकट का रोना रोकर मंत्रियों और सीपीएस का वेतन दो महीने तक होल्ड करने की बात करती है, तो दूसरी तरफ अपने कामगार बोर्ड के चेयरमैन के वेतन को 30 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 30 हजार किया जाता है। कश्यप ने कहा कि सोलन में कांग्रेस के पांच विधायक होने के बावजूद कोई भी विधायक जिले के विकास का मुद्दा विधानसभा में नहीं उठा पा रहा है। ह्यह्य

गिरिपार में परंपरानुसार मनाया डगैली पर्व

अनंत ज्ञान, राजगढ़

राजगढ़ क्षेत्र में दो दिवसीय डगैली अर्थात डायन पर्व परंपरागत ढंग से मनाया गया।

राजगढ़ में डगैली की पहली रात्रि को अरबी के पत्ते के धिंधड़े अर्थात पतीड़ व्यंजन बनाकर घर की दलहीज पर काट कर डायनों के नाम से अर्पित किए और स्वयं भी इसका प्रसाद ग्रहण किया, जबकि डगैली की दूसरी रात्रि को घर की दलहीज पर खीरे की बलि दी गई। तीज त्योहारों की श्रृंखला में सबसे विचित्र पर्व है डगैली, जोकि हर वर्ष रक्षा बंधन पर्व के उपरांत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुदर्शी व अमावस्या को मनाया जाता है। इस पर्व को विशेषकर जिला शिमला, सिरमौर और सोलन में प्राचीन परंपरा के अनुरूप मनाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे कृष्ण जन्माष्टमी को भी मनाया जाता है। डगैली को डायनों का पर्व माना जाता है। बताते हैं कि इस पर्व में रात्रि को आसुरी शक्तियां पूर्ण रूप से जागृत होती हैं और डायनों द्वारा अपनी कला से अदृष्य नृत्य किया जाता है। बता दें कि अतीत से ही डगयाली सबसे भयावह वाला त्योहार माना जाता है । इस त्योहार के कुछ दिन पहले स्थानीय देवी-देवता के पुजारी घर-घर जाकर सुरक्षाचक्र के रूप में देवता के चावल व सरसों के दाने देते हैं, जिसे चतुदर्शी की रात्रि को घर के मुख्य दरवाजे पर रखा जाता है, ताकि आसुरी शक्तियों का घर में प्रवेश न हो। इसके अतिरिक्त भेखल झाड़ी की टहनियों को भी मंदिर, घर व गोशाला के दरवाजे, खिड़की पर सुरक्षा के रूप में लटकाया जाता है। डगैली की सायं ढलते ही लोग घर में दुबक जाते हैं। वरिष्ठ नागरिक दयाराम वर्मा, प्रीतम सिंह ठाकुर का कहना है कि क्षेत्र मे कई स्थानों पर विशालकाय शिलाएं आज भी मौजूद हैं, जिस बारे उनके पूर्वज बताते थे कि इन शिलाओं को डायनों ने रात को किसी गांव से उठाकर लाकर यहां रखा था, जो कि इस त्योहार की प्रासंगिकता को दर्शाता है।

रिपोर्ट सर्वे के दौरान जांचा जाता है किस हाईवे पर कौन-कौन से वाहनों की ट्रैफिक बढ़ रही

एनएच पर ट्रैफिक सर्वे के लिए तकनीकी यंत्र लगे

एसपी जैरथ, नाहन

सिरमौर के नेशनल हाईवे पर इन दिनों केंद्र सरकार के सड़क, परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की ओर से ट्रैफिक सर्वे करवाया जा रहा है।

केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत यह एजेंसी पूरे देश भर में विभिन्न नए घोषित नेशनल हाईवे, फोरलेन और इंटरमीडिएट हाईवे पर ट्रैफिक का हर वर्ष रैंडम सर्वे करती है। प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार को जिन राज्य मार्गों को नेशनल हाईवे बनवाने के लिए पत्राचार किया जाता है। उन सड़क मार्गों पर भी यह सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे के दौरान यह भी जांचा जाता है किस हाईवे पर कौन-कौन से वाहनों की ट्रैफिक बढ़ रही है। छोटे वाहनों की संख्या, बड़े वाहनों की संख्या, दो पहिया वाहनों और ट्रकों की संख्या सबका अलग-अलग आंकड़ा एकत्रित किया जाता है। सड़क, परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सिरमौर से प्रस्तावित फोरलेन कालाअंब-पांवटा साहिब नेशनल हाईवे-7 और नाहन सराहां कुमारहट्टी इंटरमीडिएट हाईवे 907ए पर इन दोनों ट्रैफिक सर्वे के लिए कैमरे लगाए गए हैं। डिजिटल कैमरे में लगे उपकरणों से 24 घंटे में जांच की जाती है। 24 घंटे में हाईवे पर कौन-कौन वाहन निकले। एक सप्ताह तक केंद्र सरकार की यह एजेंसी सर्वे करती है। उसके बाद सर्वे की रिपोर्ट मंत्रालय के उच्च अधिकारियों को सौंप दी जाती है। इसके बाद मंत्रालय के उच्च अधिकारी सड़क को अपग्रेड करने का निर्णय लेते हैं। उसके बाद सड़क को ट्रैफिक के अनुसार भारतमाला, ग्रीन कॉरिडोर, सुपर एक्सप्रेस-वे और फोरलेन प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है। उधर, नेशनल हाईवे नाहन मंडल के सहायक अभियंता अभय चौहान ने बताया कि मंत्रालय की ओर से पूरे देश में हाईवे पर रेंडम ट्रैफिक सर्वे के लिए कुछ एजेंसी को अधिकृत किया गया है। एजेंसी हाईवे के ट्रैफिक सर्वे की सारी रिपोर्ट मंत्रालय के उच्च अधिकारियों को सौंपते हैं। सिरमौर के एनएच पर इन दिनों ट्रैफिक सर्वे के लिए तकनीकी यंत्र लगे हैं। (अनंत ज्ञान)

माया राम की लिखित 'शाठी पाशी का चौतरा' किताब का सीएम ने किया विमोचन

अनंत ज्ञान, नाहन

अपने क्षेत्र के इतिहास को लिखित रूप देने के लिए मायाराम शर्मा द्वारा शाठी पाशी का चौतरा सिरमौर रियासत गिरिपार क्षेत्र ग्राम टिटियाना किताब का विमोचन मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू एवं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और उच्च शिक्षा एवं तकनीकी मंत्री राजेश धर्माणी द्वारा किया गया।

किताब का मुख्य उद्देश्य अपने क्षेत्र के इतिहास को लिखित रूप प्रदान करना है क्योंकि इससे पहले गिरिपार क्षेत्र में बहुत कम इतिहास लिखित रूप में उपलब्ध है। इस किताब में सिरमौर रियासत के इतिहास के साथ गिरिपार क्षेत्र के सामाजिक धार्मिक राजनीतिक सांस्कृतिक ताने-बाने के साथ गांव में सिरमौर के राजा द्वारा स्थापित ऐतिहासिक शाठी पाशी चौतरे का इतिहास शामिल किया गया है। इसके अलावा महासू महाराज और अन्य देवी-देवताओं का ऐतिहासिक विवरण भी शामिल किया गया है। किताब में गिरिपार के देवी-देवताओं धार्मिक मान्यताओं और उत्सव का भी विस्तार से विवरण दिया गया है। इसके अलावा जौनसार बाबर और गिरिपार क्षेत्र के आपसी संबंधों पर विस्तार से जानकारी दी गई है।

न्यूज ब्रीफ

मेयर कुलदीप ने राज्यपाल से की मुलाकात

अनंत ज्ञान, चंडीगढ़। मेयर कुलदीप कुमार ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से व्यापक जनहित से संबंधित विभिन्न प्रमुख मुद्दों को उठाया और नगर निगम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने का अनुरोध किया। प्रशासक को लिखे पत्र में मेयर ने कहा कि नगर निगम चंडीगढ़ आम जनता को नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। यह भी ध्यान में लाया गया है कि नगर निगम ने निम्नलिखित वार्षिक प्राप्तियों से लगभग 323.00 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र किया है।

सुरजीत ढिल्लो ने दाखिल किया नामांकन

अनंत ज्ञान, चंडीगढ़। चंडीगढ़ स्टेट कॉपरेटिव बैंक के निदेशक पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार सुरजीत सिंह ढिल्लो ने आज सेक्टर 22 स्थित मुख्य कार्यालय कॉपरेटिव बैंक में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मनीमाजरा क्षेत्र के निवासी सुरजीत सिंह ढिल्लो ने अपने समर्थकों की भारी उपस्थिति के बीच नामांकन प्रक्रिया पूरी की। नामांकन के बाद सुरजीत सिंह ढिल्लो ने बैंक के मतदाताओं (शेयर होल्डर्स) से अपील की कि वे 8 सितंबर को होने वाले चुनाव में उनका समर्थन करें। सुरजीत सिंह ढिल्लो का नामांकन दाखिल होने के बाद चुनावी माहौल और अधिक गरम हो गया है, और विभिन्न उम्मीदवारों के बीच मुकाबला रोचक होने की संभावना है।

आबकारी विभाग ने बढ़ाई शहर में निगरानी

अनंत ज्ञान, चंडीगढ़। एचएस बरार, अतिरिक्त आबकारी और कराधान आयुक्त, चंडीगढ़ ने कहा कि आबकारी विभाग शराब की आपूर्ति श्रृंखला की अखंडता सुनिश्चित करने और हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए शराब की अवैध तस्करी के खिलाफ अपने अभियान को जारी और मजबूत कर रहा है। शराब की दुकानों और थोक व्यापारियों पर नजर रखने और उनकी जांच करने के लिए ईटीओ और ईटीआई से युक्त समर्पित आबकारी दलों का गठन किया गया।

परिसरों/दुकानों/अतिरिक्त गोदामों में पड़े भौतिक स्टॉक की जांच के दौरान, स्टॉक रजिस्टरों को जारी किए गए पास/परमिट के साथ मिलान किया जाएगा। यदि आबकारी नीति 2024-25, आबकारी अधिनियम 1914 और आदर्श आचार संहिता के दिशा-निर्देशों के तहत किसी भी तरह की विसंगति का पता लगाया जाता है, तो विभाग दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा पुलिस विभाग से पुलिस नाका (19 नंबर) को मजबूत करने का भी अनुरोध किया गया है। आबकारी विभाग ने नाका पर अपने कर्मचारियों को भी तैनात किया है। शराब की अंतर-राज्यीय तस्करी के खतरे को रोकने के लिए शहर में निगरानी बढ़ाने के अनुरोध के साथ, लाइसेंसधारी गोदामों, दुकानों, अतिरिक्त गोदामों के गूगल स्थान को पुलिस विभाग के साथ साझा किया गया है।

जम्मू में ग्राम रक्षा गार्ड को मिले एसएलआर

अशोक ठाकुर, जम्मू। जम्मू संभाग में ग्राम रक्षा गार्ड (वीडीजी) को एसएलआर (सेमी-ऑटोमैटिक राइफल) के रूप में एक नई ताकतवर हथियार प्रणाली प्रदान की गई है। इस कदम का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वीडीजी की भूमिका को और सशक्त बनाना है। हाल ही में 200 एसएलआर राइफलें वितरित की गई हैं और 400 नए वीडीजी सदस्य भी पुलिस महकमे में शामिल किए गए हैं। पहले वीडीजी के पास थ्री नट थ्री गन थीं, लेकिन अब उन्हें उन्नत एसएलआर से लैस किया गया है। गृह मंत्रालय ने राजोरी, पुंछ, कठुआ और रियासी जिलों में वीडीजी को स्वचालित हथियारों की मंजूरी दी है, जिससे उनकी सामरिक क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।

अफगानिस्तान में आत्मघाती हमला, 6 की मौत

काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए। काबुल पुलिस प्रमुख के प्रवक्ता खालिद जदरान ने बताया कि यह विस्फोट काबुल के दक्षिण-पश्चिमी कला बख्तियार इलाके में हुआ। उन्होंने 'एक्स' पर बताया कि एक व्यक्ति ने अपने शरीर में विस्फोटक बांधकर विस्फोट किया। बम विस्फोट की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है।

लाल सागर में जहाज पर हमला, तेल टैंकर क्षतिग्रस्त

सना। यमन के सशस्त्र हूती समूह ने लाल सागर में पनामा ध्वज वाले 'ब्लू लैगून' जहाज पर हमला कर तेल टैंकर को क्षतिग्रस्त कर दिया। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने कहा हमने लाल सागर में जहाज ब्लू लैगून को निशाना बनाते हुए कई मिसाइलों और ड्रोन के जरिए सीधा हमला किया। जहाज को इसलिए निशाना बनाया गया, क्योंकि इसका स्वामित्व रखने वाली कंपनी का इसरायल के साथ संबंध है।

यूपी में 2.50 लाख कर्मचारियों की सैलरी रुकी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा न देने वाले अढ़ाई लाख राज्य कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। 2,44565 राज्य कर्मचारियों की संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाया है। विभागों की रिपोर्ट के आधार पर इन सभी कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रोका गया। 31 अगस्त तक सभी राज्य कर्मचारियों को अपनी संपत्तियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना था। हालांकि, सरकार ने अब इस डेडलाइन को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब बचे हुए कर्मचारियों को 30 सितंबर तक ब्यौरा अपलोड करना होगा।

मणिपुर में उग्रवादियों के ड्रोन हमले में 3 जख्मी

इंफाल। मणिपुर के इंफाल वेस्ट जिले में संदिग्ध उग्रवादियों ने एक ड्रोन से बम हमला किया, जिसमें 23 वर्षीय एक महिला समेत तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि एक रिहायशी इलाके में सोमवार शाम को एक ड्रोन से दो विस्फोटक गिराए गए, जिनकी चपेट में आने से एक महिला और दो अन्य लोग घायल हो गए।

यूपी में भेड़िए के हमले में बच्ची घायल

बहराइच (उप्र)। बहराइच जिले की महसी तहसील में भेड़िए ने पांच वर्षीय बच्ची पर हमला कर घायल कर दिया। बच्ची की गर्दन पर दांत के निशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मजरा गिरधरपुरवा में अनवर अली की पांच साल की बेटी अफसाना सोमवार रात घर में सो रही थी। तभी भेड़िए ने घर में घुसकर उसकी गर्दन पकड़ ली। बच्ची की चीख सुनकर पिता अनवर अली और परिजनों ने शोर मचाकर भेड़िए को घेरा तो भेड़िया बच्ची को छोड़कर खेतों की ओर भाग गया। घायल अफसाना का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है।

द ईस्ट अवार्ड वॉर संशोधन बिल विधानसभा में पास

जगदीश शर्मा, चंडीगढ़



पंजाब विधानसभा का तीन दिवसीय मानसून सत्र सोमवार से शुरू हुआ था। इस दौरान दिवंगत हस्तियों को दो मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी गई। विपक्ष की ओर से प्रदेश में अवैध खनन का मुद्दा उठाया गया था।

पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र में दूसरे दिन सीएम भगवंत मान ने पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन संशोधन बिल 2024 पेश किया। इसके अलावा द ईस्ट अवार्ड वॉर संशोधन बिल भी पेश किया गया।

इसके बाद सत्र की कार्यवाही दोपहर अढ़ाई बजे तक स्थगित कर दी गई है। द ईस्ट अवार्ड वॉर संशोधन बिल विधानसभा में पास कर दिया गया है। बिल में संशोधन के तहत जंगी जागीर की राशि 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार की गई है। आखिरी बार वर्ष 2013 में इस बिल में संशोधन किया गया था

विधायक मनविंदर सिंह ने शून्यकाल में कहा कि बीते तीन साल में 700 कच्चे बिजली कर्मचारियों की मौत ड्यूटी के दौरान हुई है। क्योंकि उन्हें सेफ्टी किट तक मुहैया नहीं कराई गई थी। उन्होंने इन कच्चे कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने की मांग की।

वहीं विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने पंजाब में डीएपी की शॉर्टेज का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश में अब तक केवल 36 फीसदी तक ही किसानों को डीएपी खाद मुहैया कराई गई है। डीएपी की कमी को पूरा करने के लिए सरकार को जल्द कोई ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि किसानों की फसल बर्बाद न हो।

कांग्रेस विधायक अवतार सिंह ने वित्त मंत्री से मांग की कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने पर जल्द फैसला लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने 18 नवंबर 2002 को पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर एक फर्जी अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन उसे लागू नहीं किया। (अनंत ज्ञान)

'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण' विषय पर कार्यशाला आयोजित

अनंत ज्ञान, चंडीगढ़। सुरिंद्र कुमार, सदस्य सचिव, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने सेक्टर-9, चंडीगढ़ में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।

इस कार्यशाला में सीएचबी के लगभग 100 अधिकारियों ने भाग लिया। महिला कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सुरिंद्र कुमार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संविधान के अनुच्छेद 14,21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

साइबर अपराध ने यौन उत्पीड़न का एक नया रास्ता भी खोल दिया है जो एक बड़ी चुनौती है। सदस्य सचिव ने भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रावधानों की ओर इशारा किया जो महिलाओं से संबंधित अपराधों को कवर करते हैं।

असम सरकार ने पंजाब के राज्यपाल को किया सम्मानित

अनंत ज्ञान, चंडीगढ़

पंजाब राजभवन में आयोजित एक समारोह में, असम सरकार द्वारा पंजाब के माननीय राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को असम के लोगों के कल्याण और समृद्धि के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवाओं और अनुकरणीय प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। असम के दो कैबिनेट मंत्री रंजीत कुमार दास और चंद्र मोहन पटवारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के दिशा-निर्देश पर विशेष तौर पर गुलाब चंद कटारिया को सम्मानित करने के लिए पंजाब पहुंचे। उनके साथ राज्यपाल सचिवालय असम और मुख्यमंत्री कार्यालय असम के अधिकारी भी मौजूद थे।

इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख लोगों में पंजाब के राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव के सिवा प्रसाद, यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा, चंडीगढ़ के डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव, चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप और चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य वरिष्ठ पुलिस और सिविल अधिकारी शामिल थे।

अधिकारी पॉलीहाउस के निर्माण में तेजी लाई जाए: सीएम धामी

जगदीश शर्मा, देहरादून

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में किसानों की आर्थिकी को और तेजी से बढ़ाने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जाएं।

यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ एक पैकेज के रूप में मिले। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का पूरा लाभ किसानों को मिले इसके लिए राज्य और जनपद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये जाएं।

मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पॉलीहाउस के निर्माण में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पॉलीहाउस योजना सहायक सिद्ध होगी, इनके निर्माण में लेटलतीफी करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक साल के लिए निर्धारित लक्ष्य के हिसाब से राज्य में पॉलीहाउस का निर्माण किया जाए। (अनंत ज्ञान)

एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण की बैठक में चर्चा

अनंत ज्ञान, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के मेट्रो-मास रैपिड ट्रांजिट (एमआरटी) नेटवर्क विस्तार की दिशा में आगे बढ़ते हुए, एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) की तीसरी बैठक, गुलाब चंद कटारिया, माननीय राज्यपाल पंजाब और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक की अध्यक्षता में चंडीगढ़ ट्राई-सिटी में एमआरटीएस के लिए 'विकल्प विश्लेषण रिपोर्ट' और 'भू-तकनीकी जांच रिपोर्ट' पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी।

एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) ट्राईसिटी के समग्र गतिशीलता मुद्दों को संभालने और शहर में यातायात की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों, संस्थानों और इस गतिशीलता योजना के कार्यान्वयन के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत मंच है।

450 आंगनबाड़ी केंद्रों में मनाया राष्ट्रीय पोषण माह

जगदीश शर्मा, चंडीगढ़

पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए सामुदायिक भागीदारी और प्रतिबद्धता के जीवंत प्रदर्शन में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह चंडीगढ़ के सभी 450 आंगनबाड़ी केंद्रों में मनाया गया। इस अभियान का उद्देश्य समग्र पोषण सहायता और व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोर लड़कियों और छह साल से कम उम्र के बच्चों की भलाई को बढ़ाना है।

आंगनबाड़ी भवन सेक्टर 24 में 'गोधभराई' समुदाय आधारित कार्यक्रम सहित कई प्रभावशाली कार्यक्रम शामिल थे, जहां गर्भवती महिलाओं को पोषण वाली थाली-पोषण वाटिका में उगाई जाने वाली हरी पत्तेदार सब्जियों से युक्त पौष्टिक भोजन प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, मातृ स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां वितरित की गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन अनुराधा एस. चगटी, सचिव, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, चंडीगढ़ प्रशासन और डॉ. पालिका अरोड़ा, निदेशक, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, चंडीगढ़ प्रशासन ने किया।पोषण माह 2024 के दौरान 30 सितंबर 2024 तक सभी 450 आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। (अनंत ज्ञान)

देश-विदेश

पाक में कर्मचारी बिना इजाजत नहीं चला पाएंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम

एजेंसी, इस्लामाबाद

पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक फरमान जारी किया है, जिसमें बिना अनुमति के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

फेसबुक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करने के लिए पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए पाकिस्तान स्थापना प्रभाग कार्यालय ने एक ज्ञापन जारी किया, जिसमें कहा है कि मौजूदा नियमों के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी को सरकार की अनुमति के बिना किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोलने की अनुमति नहीं है। सिविल सेवकों को अनधिकृत कर्मचारियों, नागरिकों या फिर मीडिया के साथ किसी भी प्रकार के

दस्तावेज या जानकारी शेयर करने से भी रोक दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों को ऐसे बयान देने की भी अनुमति नहीं होगी, जो दूसरे देशों के साथ संबंधों को भी प्रभावित कर सकते हैं। पाकिस्तान सरकार का यह निर्देश सभी सिविल सेवकों के लिए जारी किया गया है। इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है।

हमास की चेतावनी, इसराइल ने जिद न छोड़ी तो बंधकों की ताबूत में होगी वापसी

कीव। हमास ने इसराइल को चेतावनी दी है कि सैन्य दबाव के जरिए बंधकों को रिहा कराने की उसकी जिद के परिणाम बुरा होगा। हमास ने कहा कि फिर बंधकों को ताबूतों में अपने परिवारों के पास पहुंचाया जाएगा। हमास की सैन्य शाखा अल-कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने एक बयान में कहा कि कैदियों की सुरक्षा के लिए तैनात लड़ाकों को नए निर्देश दिए गए हैं। उन्हें बता दिया गया है कि इजरायली सेना के बंदी गृहों तक पहुंचने से पहले बंधकों से कैसे निपटना है। बंधकों की मौत के जिम्मेदार इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू या इसराइली आर्मी होगी।

आंध्र प्रदेश: भारी बारिश से हालात खराब नौसेना ने बचाई 22 लोगों की जान

एजेंसी, आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश के बाद कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ऐसे में भारतीय नौसेना आंध्र प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी है।

नौसेना के मुताबिक यहां एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर (एएलएच) तैनात किए गए हैं। नौसेना की मदद से विभिन्न इलाकों में फंसे हुए 22 लोगों को बचाया गया है।आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बनने के कारण भारतीय नौसेना के विमान, बाढ़ राहत दल (एफआरटी) और विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान की गोताखोरी टीमों को तैनात किया गया है। बचाव कार्यों को अंजाम देने के लिए चार हेलिकॉप्टर और एक डोर्नियर विमान तैनात किया गया है। नौसेना ने यहां दो एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर और दो चेतक हेलिकॉप्टर तैनात किए हैं।

गुजरात में कोस्ट गार्ड का हेलिकॉप्टर समुद्र में गिरा, तीन क्रू-मेंबर्स लापता, एक को बचाया

एजेंसी, अहमदाबाद

गुजरात के पोरबंदर तट के पास इंडियन कोस्ट गार्ड का एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर (ध्रुव) अरब सागर में गिर गया। हेलिकॉप्टर पर सवार 4 में से 3 क्रू मेंबर्स लापता हैं। एक को बचाया गया है। हेलिकॉप्टर का मलबा मिल गया है। आईसीजी ने मंगलवार को एक्स पर हादसे की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि हेलिकॉप्टर पोरबंदर तट से 45 किलोमीटर दूर कार्गो शिप पर रेस्क्यू मिशन के लिए गया था। हेलिकॉप्टर पर 2 पायलट और 2 गोताखोर सवार थे। इनमें 1 गोताखोर को बचाया गया है। कोस्ट गार्ड ने बताया कि दोनों पायलट और एक गोताखोर की तलाश के लिए 4 जहाज और 2 विमान भेजे हैं।

वायुसेना के क्रैश विमान मामले में इंक्वायरी के आदेश

बाड़मेर। राजस्थान में बाड़मेर जिले के उत्तरलाई एयरबेस के पास कवास इलाके में भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। इस पर एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। डिफेंस पीआरओ अजिताभ ने बताया कि मिग-29 फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है। बाड़मेर सेक्टर में नियमित रात्रि प्रशिक्षण मिशन के दौरान भारतीय वायुसेना के मिग-29 में खराबी आने से पायलट को विमान से बाहर निकलना पड़ा।

हर भारतीय तक पहुंचेगी कांग्रेस : खड़गे

एजेंसी, नई दिल्ली

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के सचिवों और संयुक्त सचिवों के साथ बैठक की। इस दौरान संगठन को मजबूत करने व पार्टी का जनाधार बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक एक बड़े संगठनात्मक फेरबदल के कुछ दिनों बाद हुई है। इस फेरबदल में पार्टी ने

कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी ने की एआईसीसी के सचिवों के साथ बैठक

कुछ नए पदाधिकारियों के प्रभार वाले राज्यों में बदलाव किया था, जबकि कई नए सचिवों और संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की गई थी।

खड़गे ने कहा कि कांग्रेस हर भारतीय तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि हमने एआईसीसी के नवनियुक्त सचिवों और संयुक्त सचिवों की बैठक की अध्यक्षता की। हम अपने संगठन को मजबूत करने, प्रत्येक आवाज को साथ लेकर चलने और सत्ता को सच का आइना दिखाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एआईसीसी के सचिवों और विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त सचिव नियुक्त किए हैं। ये पदाधिकारी संबंधित राज्यों में पार्टी के महासचिवों और प्रभारियों से जुड़े होते हैं।

शरीफ सरकार से नहीं सिर्फ सेना के साथ ही करेंगे बातचीत : इमरान

इस्लामाबाद। शरीफ सरकार से बातचीत के कयासों को खारिज करते हुए इमरान खान ने दो टूक कहा है कि वे केवल उससे बात करेंगे, जो फैसले लेने में सक्षम होगा। अदियाला जेल से इमरान का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कहा जा रहा था कि उनकी पार्टी और पाकिस्तान सरकार के बीच बातचीत हो सकती है। उन्होंने कहा कि जब भी बातचीत का मुद्दा उठता है तो पाकिस्तानी सरकार 9 मई की हिंसा के बारे में शोर मचाना शुरू कर देते हैं।

विश्व बैंक का चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान

एजेंसी, नई दिल्ली

इकॉनमी के मोर्चे पर अच्छी खबर है। विश्व बैंक ने कृषि क्षेत्र और ग्रामीण मांग में सुधार के दम पर चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

विश्व बैंक ने इससे पहले जून में अनुमान लगाया था कि भारत की वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रहेगी। विश्व बैंक की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत की वृद्धि दर मजबूत बनी हुई है। विश्व बैंक के वरिष्ठ अर्थशास्त्री रैन ली ने कहा कि मॉनसून तथा निजी खपत में सुधार के दम पर भारत के जीडीपी के

पूर्वानुमान को संशोधित किया गया है। विश्व बैंक ने 'इंडिया डेवलपमेंट अपडेट' रिपोर्ट में कहा कि दक्षिण एशिया के सबसे बड़े देश भारत की वृद्धि दर 2024-25 में सात प्रतिशत रहने की उम्मीद है। इसमें कहा गया कि कृषि क्षेत्र में सुधार से उद्योग में आई मामूली गिरावट की आंशिक भरपाई हो जाएगी और सेवाएं मजबूत बनी रहेंगी। कृषि में अपेक्षित सुधार से ग्रामीण मांग भी बेहतर होगी। वर्ल्ड बैंक ने साथ ही कहा कि मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था की वृद्धि मजबूत बनी रहेगी।

कांग्रेस नेता ने उमर के खिलाफ निर्दलीय लड़ने की धमकी दी

जम्मू। जम्मू-कश्मीर में गांदरबल जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष साहिल फारूक ने मंगलवार को पार्टी को धमकी दी है कि अगर पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया तो वह नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं, मियां मेहर अली जिले के कंगन (एसटी) निर्वाचन क्षेत्र से एनसी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव पूर्व गठबंधन के अनुसार, जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में एनसी 52 सीटों पर और कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फारूक ने कहा कि अगर हम पांच सीटों पर मैत्रीपूर्ण तरीके से लड़ सकते हैं, तो गांदरबल में क्यों नहीं?

निफ्टी ने 14वें दिन भी बनाया रिकॉर्ड , सेंसेक्स में गिरावट

एजेंसी, मुंबई

निफ्टी इंडेक्स ने लगातार 14 दिन चढ़कर बंद होने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले 2007 में निफ्टी में लगातार 11 दिन की तेजी दिखी थी। वहीं, जनवरी 2015 और अप्रैल 2014 में लगातार 10 दिन की तेजी आई थी।

3 सितंबर निफ्टी 1 अंक की तेजी के साथ 25,279 स्तर पर बंद हुआ। हालांकि, सेंसेक्स में 4 अंक की गिरावट रही। ये 82,555 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में यह गिरावट 10 दिन की तेजी के बाद देखने को मिली है। प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड का शेयर 120 फीसदी प्रीमियम के साथ बाजार में लिस्ट हुआ। प्रीमियर एनर्जीज का

शेयर एनएसई पर 991 प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुए। जबकि, बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 990 प्रति शेयर पर हुई। इसका इश्यू प्राइस 450 प्रति शेयर रखा गया था। एशियाई बाजार में आज मिला-जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। जापान के निक्केई इंडेक्स में 0.22 फीसदी की तेजी है। वहीं हांगकांग के हैंगसेंग में 0.35 फीसदी और चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.51 फीसदी की गिरावट है।

कांगो में जेल तोड़कर भागने की कोशिश में 129 कैदियों की मौत

किंशासा (कांगो)। कांगो की राजधानी में मुख्य जेल को तोड़कर भागने की कोशिश के दौरान 129 कैदियों की मौत हो गई। इनमें से ज्यादातर की जान भगदड़ में गई। कांगो के गृह मंत्री जैकमिन शबानी ने 'एक्स' पर कहा कि सोमवार को किंशासा में मकाला जेल से भागने की कोशिश कर रहे कैदियों को चेतावनी देने के बाद सुरक्षाबलों ने गोली चलाईं, जिससे 24 कैदियों की मौत हुई। 59 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। मानवाधिकार संस्था एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने देश को लेकर अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा कि मकाला जेल कांगो का मुख्य बंदीगृह है, जिसमें 1,500 कैदियों के रहने की क्षमता है, लेकिन इसमें 12,000 कैदियों को रखा गया है।

पदक तालिक (टॉप-10)

क्रम	देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
01.	चीन	45	31	16	92
02.	ग्रेट ब्रिटेन	29	16	12	57
03.	अमेरिका	15	19	11	45
04.	ब्राजील	13	09	20	42
05.	फ्रांस	11	10	13	34
06.	ऑस्ट्रेलिया	09	09	12	30
07.	इटली	08	08	13	29
08.	नीदरलैंड	07	04	04	15
09.	उज्बेकिस्तान	06	04	04	14
10.	यूक्रेन	05	12	19	36
15.	भारत	03	05	07	15

पैरालंपिक : अवनि लेखरा सातवें स्थान पर रहकर फाइनल में

एजेंसी, शेटराउ

भारत की अनुभवी पैरा निशानेबाज अवनि लेखरा ने पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशंस एसएच1 स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत की मोना अग्रवाल 13वें स्थान पर रही और फाइनल में जगह नहीं बना सकी।

अवनि ने नीलिंग, प्रोन और स्टैंडिंग में 1159 स्कोर किया जबकि मोना ने 1147 स्कोर बनाया। शीर्ष-8 निशानेबाजों ने फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। एसएच-1 वर्ग में वे खिलाड़ी भाग लेते हैं जिनके पैरों में विकार है। नीलिंग और प्रोन के बाद अवनि 8वें और मोना 15वें स्थान पर थी। स्टैंडिंग में उन्होंने 92 के साथ शुरुआत की और उसके बाद लगातार 96 स्कोर किया। आखिरी सीरिज में 97 स्कोर करके वह सातवें स्थान पर आ गई। अवनि ने महिलाओं की 10 मीटर राइफल एसएच 1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जिसमें मोना को कांस्य पदक मिला था।

अवनि ने टोक्यो पैरालंपिक में भी इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था और अपना खिताब बरकरार रखने वाली वह पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। वह 10 मीटर एयर प्रोन एसएच 1 में प्रदर्शन दोहरा नहीं सकी और 11वें स्थान पर रही।

रिकर्व तीरंदाज पूजा क्वार्टर फाइनल में

विश्व पैरा चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता पूजा जटियां ने तुर्की की यगमुर सेंगुलइको सीधे सेटों में हराकर पेरिस पैरालंपिक महिला ओपन रिकर्व तीरंदाजी के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। 27 वर्ष की पूजा को प्री-क्वार्टर फाइनल में बाय मिला था, चूंकि वह रैंकिंग दौर में शीर्ष-9में रही थी। उसने 6-0 से जीत दर्ज की और अब उसका सामना टोक्यो पैरालंपिक की कांस्य पदक विजेता चीन की वू चुनियान से होगा।

पूजा ने लगातार तीन नौ स्कोर करके पहला सेट जीता और दूसरा सेट 26-22 से जीता। पूजा 1997 में दो साल की थी जब तेज बुखार और गलत इंजेक्शन देने से उसके बाएं पैर में पोलियो हो गया। इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी और बचपन से तीरंदाजी कर रही है।

सुहास को स्वर्ण पदक नहीं जीतने का मलाल

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यथिराज लगातार दूसरे पैरालंपिक में रजत पदक जीत कर खुश भी हैं और निराश भी क्योंकि वह स्वर्ण पदक का लक्ष्य लेकर यहां आए थे। यह 41 वर्षीय



खिलाड़ी विश्व में नंबर-1 खिलाड़ी के रूप में प्रतियोगिता में उतरा था और उनसे पुरुष एकल एसएल4 वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद थी, लेकिन वह सोमवार को खेले गए फाइनल में फ्रांस के लुकास माजूर से सीधे गेम में हार गए और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। सुहास ने कहा,''मैं विश्व का नंबर-1 खिलाड़ी और विश्व चैंपियन के तौर पर यहां पहुंचा था और मुझ पर अपेक्षाओं का दबाव था। मुझे यहां अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद थी। मेरा लक्ष्य स्वर्ण पदक जीतना था जो हर खिलाड़ी का सपना होता है।''

इस 2007 बैच के आईएएस अधिकारी ने कहा,''रजत जीतना एक मिश्रित भावना है। स्वर्ण पदक चूकने का दुख और निराशा है, लेकिन जब यह भावना हावी नहीं रहेगी तो तब आपको अहसास होगा कि पैरालंपिक के लिए क्वालीफाई करना और अपने देश का प्रतिनिधित्व करना बहुत बड़ी बात थी।''

स्पोर्ट्स विंडो

उरुग्वे के सुआरेज ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से लिया संन्यास

मोंटेवीडियो (उरुग्वे)। उरुग्वे के अनुभवी स्ट्राइकर लुइस सुआरेज ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। लिवरपूल और बार्सिलोना की तरफ से खेल चुके इस 37 वर्षीय

खिलाड़ी ने अपने देश की तरफ से 142 मैच में 69 गोल किए जो उरुग्वे की तरफ से रिकॉर्ड है। वह अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच शुक्रवार को पराग्वे के खिलाफ खेलेंगे। सुआरेज ने कहा, ''यह कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन शुक्रवार को होने वाला मैच मेरा अपने देश की तरफ से आखिरी मैच होगा।'' उरुग्वे उस दिन विश्व कप क्वालीफाइंग मैच में पराग्वे की मेजबानी करेगा। सुआरेज ने 2007 में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में पदार्पण किया था। उन्होंने उरुग्वे की तरफ से चार विश्व कप और पांच कोपा अमेरिका टूर्नामेंट में भाग लिया। वह क्लब स्तर पर खेलते रहेंगे। सुआरेज अभी इंटर मियामी क्लब से जुड़े हुए हैं।

पाक पहलवान पर प्रतिबंध, छीना राष्ट्रमंडल खेलों का कांस्य पदक

कराची। पाकिस्तान के पहलवान अली असद पर शक्ति वर्धक दवाओं के सेवन के लिए चार साल का प्रतिबंध लगाया गया है और राष्ट्रमंडल खेलों में जीता गया उनका कांस्य पदक छीन लिया गया है। पाकिस्तान कुश्ती महासंघ ने पुष्टि की कि अली असद पर न केवल चार साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, बल्कि उनका कांस्य पदक भी छीन लिया गया है, जो उन्होंने 2022 में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में जीता था।

महासंघ के एक अधिकारी ने कहा,''अंतरराष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (आईटीए) की जांच से पता चला है कि उन्होंने इस प्रतियोगिता के दौरान शक्ति वर्धक दवाइयां ली थी।'' आईटीए की जांच के बाद इस सप्ताह असद पर चार साल का प्रतिबंध लगाने और राष्ट्रमंडल खेलों का उनका पदक छीनने का फैसला किया गया।

मनिका ने ठुकराया था मॉडलिंग का ऑफर

नई दिल्ली । देश की सबसे मशहूर टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा का जन्म 14 जून 1995 को दिल्ली के नारायणा विहार में हुआ था। मॉडलिंग का ऑफर ठुकराकर मेडल पर फोकस करने वाली मनिका एशिया कप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने की उपलब्धि भी हासिल कर चुकी हैं।

स्वियातेक यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में

एजेंसी, न्यूयॉर्क

दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ियों यानिक सिनर और इगा स्वियातेक ने विपरीत अंदाज में जीत दर्ज करके अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने अमेरिका के 14वीं वरीयता प्राप्त टॉमी पॉल को 7-6(3) 7-6(5) 6-1 से हराया। उन्होंने धीमी शुरुआत की और पहले दोनों सेट टाई ब्रेकर में जीते, लेकिन तीसरे सेट में उन्होंने पॉल को कोई मौका नहीं दिया।

दुनिया का नंबर-1 खिलाड़ी सिनर भी अंतिम-8 में

सिनर क्वार्टर फाइनल में रूस के 5वीं वरीयता प्राप्त और यहां 2021 के चैंपियन दानिल मेदवेदेव से भिड़ेंगे, जिन्होंने नूनो बोर्गेस को 6-0, 6-1, 6-3 से आसानी से हराया।

पांच बार की ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक ने सोमवार की रात को खेले गए मैच में 16वीं वरीयता प्राप्त ल्यूडमिला सैमसोनोवा को 6-4, 6-1 से पराजित किया। यह दोनों खिलाड़ी पहले सेट में एक समय 4-4 से बराबरी पर थी, लेकिन इसके बाद स्वियातेक में लगातार सात गेम जीत कर अपनी जीत सुनिश्चित की।

स्वियातेक का अगला मुकाबला छठी वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला से होगा। अमेरिकी खिलाड़ी पेगुला ने डायना श्नाइडर पर 6-4, 6-2 से जीत हासिल की। वह 7वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं।

प्वाइंट कार्ड

स्वियातेक		ल्यूडमिला
03	एस	01
01	डब्ल फॉल्ट	03
62%	पहली सर्व	60%
88%	पहली सर्व जीती	55%
47%	दूसरी सर्व जीती	63%
3/8	ब्रेक प्वाइंट	2/6
00	टाइब्रेक जीता	00
63	प्वाइंट जीते	45

बोपन्ना-सुत्जियादी सेमीफाइनल में

भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और इंडोनेशिया की उनकी जोड़ीदार अल्डिला सुत्जियादी ने यहां ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन और चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजसिकोवा को एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में पराजित करके अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिश्रित युगल

के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। बोपन्ना और सुत्जियादी की 8वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी ने सोमवार रात एक घंटे और 33 मिनट तक चले क्वार्टर फाइनल मैच में एबडेन और क्रेजसिकोवा चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी पर 7-6(4), 2-6, 10-7 से जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में बोपन्ना और सुत्जियादी का मुकाबला डोनाल्ड यंग और टेलर टाउनसेंड की अमेरिकी जोड़ी से होगा।

महिला वर्ग में करोलिना मुचोवा भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने इस सत्र में फ्रेंच ओपन और विंबलडन में उपविजेता रही जैस्मीन पाओलिनी को 6-3, 6-3 से हराया। मुचोवा का अगला मुकाबला बीट्रिज हद्दाद माइया से होगा जिन्होंने 2018 की ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियन कैरोलिन वोज्नियाकी को 6-2, 3-6, 6-3 से हराया। वह 1968 में मारिया ब्यूनो के बाद अमेरिकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली ब्राजील की पहली महिला खिलाड़ी हैं। पुरुष वर्ग के मैचों में ब्रिटेन के 25वीं वरीयता प्राप्त जैक ड्रेपर ने गैर-वरीयता प्राप्त टॉमस मचाक पर 6-3, 6-1, 6-2 से जीत दर्ज करके पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। उनका अगला मुकाबला 10वीं वरीयता प्राप्त एलेक्स डी मिनौर से होगा, जिन्होंने जॉर्डन थॉम्पसन को 6-0,3-6, 6-3, 7-5 से हराया।

सब-जूनियर बॉल बैडमिंटन टीमों के लिए चयन ट्रायल

अनंत ज्ञान, मंडी। हिमाचल प्रदेश की लड़कों व लड़कियों की सब-जूनियर बॉल बैडमिंटन टीमों के लिए चयन ट्रायल शुरू होने जा रहे है जिनमें 2 जनवरी 2009 के बाद जन्मे खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे चयन ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों को अपना जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा।

जिला मंडी, हमीरपुर, कुल्लू, बिलासपुर व जिला शिमला के खिलाड़ियों के लिए चयन ट्रायल बॉल बैडमिंटन ग्राउंड नबाही तहसील सरकाघाट जिला मंडी में 8 सितंबर को रखा गया है। चयन समिति में जोगिंद्र सिंह अध्यक्ष, नर्वदा देवी, रितिका रणावत व टीना शर्मा सदस्य होंगे।

जिला ऊना, कांगड़ा, चंबा, सोलन व जिला सिरमौर के खिलाड़ियों के लिए चयन ट्रायल बॉल बैडमिंटन ग्राउंड अंबोटा, तहसील घनारी, जिला ऊना में 5 सितंबर को 2 बजे दोपहर को होगा। चयन समिति में कुलभूषण शर्मा अध्यक्ष, सौरभ प्राशर व सुमित कुमार सदस्य होंगे। चयनित खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत टीमें 43वीं सब-जूनियर नेशनल बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता जो कि रोहतक (हरियाणा) में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित की जाएगी उसमें हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी।

हॉकी कप्तान हरमनप्रीत ने कहा-ओलंपिक कांस्य अब बीती बात, एसीटी खिताब पर हैं नजरें

एजेंसी, बेंगलुरु

भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि लगातार दूसरी बार ओलंपिक कांस्य पदक जीतने का जश्न खत्म करके अब चीन में इस महीने होने वाली एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी (एसीटी) में खिताब बरकरार रखने पर फोकस करना होगा।

हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारत ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। हरमनप्रीत ने हालांकि कहा कि अब ब्रेक के बाद आठ से 17 सितंबर तक होने वाली एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हरमनप्रीत ने चीन रवाना होने से पहले कहा ,''पेरिस ओलंपिक के बाद ब्रेक खत्म करके टीम एशियाई टीमों का सामना करने के लिए

तैयार है।'' उन्होंने कहा ,'' पेरिस ओलंपिक में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन हॉकी काफी करीबी खेल है। हम अतीत के अच्छे प्रदर्शन के भरोसे नहीं रह सकते।'' भारत के अलावा कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, जापान और मेजबान चीन इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। भारत को आठ सितंबर को चीन से खेलना है। इसके बाद 9 सितंबर को जापान से, 11 सितंबर को मलेशिया, 12 सितंबर को कोरिया और 14 सितंबर को पाकिस्तान से मुकाबला है।

शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में खेलेंगी जबकि फाइनल 17 सितंबर को है। भारत ने चार बार और पाकिस्तान ने तीन बार खिताब जीता है। पिछली बार चेन्नई में भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराकर खिताब जीता था।

चैंपियंस कप में खिलाड़ियों पर नजर रखेंगे कर्स्टन

कराची । पाकिस्तान के सफेद गेंद (सीमित ओवर प्रारूप) के मुख्य कोच गैरी कर्स्टन चैंपियंस कप घरेलू एक दिवसीय प्रतियोगिता पर नजर रखेंगे, जिसमें सभी अनुबंधित खिलाड़ियों को खेलने के लिए कहा गया है।

इस सत्र में पाकिस्तान के सफेद गेंद वाले मैचों से पहले खिलाड़ियों के प्रदर्शन और फिटनेस की जांच करने के लिए कर्स्टन को फिजियोथेरेपिस्ट क्लिफ डेकोन और स्ट्रेंथ कोच ड्रेक्स साइमन की मदद मिलेगी। ये तीनों टेस्ट टीम और अन्य अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए फिटनेस परीक्षण भी करेंगे।

न्यूजीलैंड ने नाथन स्मिथ और जोश क्लार्कसन को केंद्रीय अनुबंध दिया

एजेंसी, ऑकलैंड

ऑलराउंडर नाथन स्मिथ और जोश क्लार्कसन को पहली बार न्यूजीलैंड के केंद्रीय अनुबंध में शामिल किया गया है। इन दोनों युवा खिलाड़ियों ने केंद्रीय अनुबंध पाने वाले क्रिकेटरों की 20 सदस्यीय सूची में डेवोन कॉनवे और फिन एलन की जगह ली है।

पिछले साल डुनेडिन में बांग्लादेश के खिलाफ पदार्पण करने वाले क्लार्कसन ने न्यूजीलैंड की तरफ से तीन वनडे और छह टी-20 मैच खेले हैं, जबकि स्मिथ ने न्यूजीलैंड में घरेलू क्रिकेट में वेलिंगटन की तरफ से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। कॉनवे और एलन ने पिछले महीने केंद्रीय अनुबंध ठुकरा गया था, इसके बाद दो स्थान खाली पड़े थे।

टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान की सरजमीं पर पिछले दस टेस्ट में लगातार 10वीं हार

बांग्लादेश ने पाकिस्तान का किया 'सूपड़ा साफ'

एजेंसी, रावलपिंडी

बांग्लादेश ने दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट में मंगलवार को पाकिस्तान को छह विकेट से हराकर 2-0 से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बांग्लादेश को आखिरी दिन 143 रन की जरूरत थी और उसके दस विकेट सुरक्षित थे।

बांग्लादेश ने चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया और विजयी चौका शाकिब अल हसन ने लगाया। बांग्लादेश ने विदेशी धरती पर दूसरी बार ही द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज जीती ह, जिसमें दो या अधिक टेस्ट खेले गए हैं। इससे पहले उसने 2009 में वेस्टइंडीज में जीत दर्ज की थी।

बांग्लादेश ने पहला टेस्ट दस विकेट से जीता था और दूसरा टेस्ट चार दिन में जीता चूंकि पहला दिन बारिश की भेंट हो गया था।

मैच जीतने के बाद खुशी मनाते शाकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम

बांग्लादेश ने दूसरी पारी में चार विकेट पर 185 रन बनाए। शाकिब 21 और मुशफिकुर रहीम 22 रन बनाकर नाबाद रहे। पहली पारी में बांग्लादेश के छह विकेट 26 रन पर गिर गए थे, लेकिन लिट्टन दास और मेहदी हसन मिराज ने पारी को संभाला। तेज गेंदबाज हसन महमूद, नाहिद राणा और तस्कीन अहमद ने पाकिस्तान को दूसरी पारी में 172 रन पर आउट कर दिया, जिससे बांग्लादेश को 184 रन का लक्ष्य मिला ।

बांग्लादेश के लिए सलामी बल्लेबाज जाकिर हसन (40), कप्तान नजमुल हुसैन शंटो (38) और मोमिनुल हक (34) ने उपयोगी पारियां खेली। पाकिस्तान ने अपनी धरती पर पिछले दस टेस्ट में से एक भी नहीं जीता है। आखिरी बार उसने दिसंबर 2021 में रावलपिंडी में ही दक्षिण अफ्रीका को हराया था।

पाकिस्तान 17वीं बार टेस्ट में हुआ 'क्लीन स्वीप'

यह टेस्ट में 17वीं बार है जब पाकिस्तान को दो या इससे ज्यादा टेस्ट मैचों की सीरीज में सूपड़ा साफ का सामना करना पड़ा है। वहीं, अपने घर में पाकिस्तान को दूसरी बार दो या इससे ज्यादा टेस्ट मैचों की सीरीज में सूपड़ा साफ का सामना करना पड़ा है। इससे पहले 2022/23 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को उसके घर में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 से हराया था। वहीं बांग्लादेश की टीम साल 2000 से टेस्ट खेल रही है। तब से लेकर अब तक उसने सिर्फ चार बार दो या इससे ज्यादा मैचों की द्विपक्षीय सीरीज में किसी टीम का सूपड़ा साफ किया है।

अब भारत के खिलाफ रिकॉर्ड में सुधार करने का समय : कमिंस

एजेंसी, मेलबोर्न

आस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को विश्वास है कि भारत के खिलाफ आगामी पांच मैचों की सीरीज में उनकी टीम अच्छा प्रदर्शन करके अपने इस कड़े प्रतिद्वंदी के खिलाफ पिछले कुछ समय से लगातार मिली हार की भरपाई करने में सफल रहेगी। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि 22 नवंबर से शुरू होने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में मुकाबला बराबरी का होगा।



भारत ने 2016-17 से लेकर 2022-23 तक ऑस्ट्रेलिया से लगातार चार सीरीज जीती हैं। इनमें से दो अवसरों पर उसने ऑस्ट्रेलिया को उसकी धरती पर हराया।

कमिंस ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया पिछले साल लंदन में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत पर अपनी जीत से प्रेरणा लेने की कोशिश करेगा।

कमिंस ने कहा, ''ऑस्ट्रेलिया में खेली गई पिछली दो सीरीज में हम सफल नहीं रहे। हमें (भारत के खिलाफ) सीरीज जीते हुए काफी समय हो गया है। अब इसमें सुधार करने का समय आ गया है।'' उन्होंने कहा,''हम भारत के खिलाफ लगातार खेलते रहे हैं और उन्होंने हमें हराया भी है, लेकिन हमने भी उनके खिलाफ कई जीत दर्ज की हैं, जिनसे हम प्रेरणा लेने की कोशिश करेंगे। इनमें हाल में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी शामिल है जिसमें हम सफल रहे थे।''

डब्ल्यूटीसी फाइनल 11-15 जून तक लॉर्ड्स में खेला जाएगा

दुबई। आईसीसी ने मंगलवार को घोषणा की कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के तीसरे चक्र का फाइनल अगले साल 11 से 15 जून के बीच प्रतिष्ठित लॉर्ड्स में खेला जाएगा। आईसीसी ने इस मैच के लिए 16 जून को रिजर्व दिवस रखा है।

आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्योफ एलार्डिस ने कहा, ''आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल क्रिकेट कैलेंडर में सबसे अहम मुकाबले में से एक बन गया है और हमें 2025 सत्र की तारीखों की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।'' लॉर्ड्स पहली बार डब्ल्यूटीसी फाइनल की मेजबानी करेगा।